



आर्या 3 का टीजर रिलीज माफिया क्वीन बनकर ...

## SHARE

सेंसेक्स : 66,282.74  
निफ्टी : 19,751.05

## SARAFI

सोना : 5560  
चाँदी : 75.50

(नोट : सोना 22 केरट प्रति ग्राम)

## BRIEF NEWS

**पटना आनंद विहार के लिये प्रयाग और कानपुर सेटल से चलेंगी पूजा स्पेशल ट्रेन**

**LUCKNOW :** छठ के मौके पर रेलयात्रियों की सुविधा और आतिरिक्त थ्रीडभाड़ को राहत देने के लिये रेलवे ने पटना जंक्शन-आनंद विहार टर्मिनल, गया और जयनगर के बीच पूजा स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। ये पूजा स्पेशल ट्रेन कुल 42 पंरने चलेंगी। 03255 पटना जंक्शन-आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट स्पेशल रेलगाड़ी 23.11.2023 से 10.12.2023 तक प्रत्येक गुरुवार और रविवार को पटना से रात्रि 10.20 बजे प्रस्थान कर अगले दिन दोपहर 03.00 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। वापसी दिशा में 03256 आनंद विहार टर्मिनल-पटना सुपरफास्ट स्पेशल रेलगाड़ी 24.11.2023 से 11.12.2023 तक प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को आनंद विहार टर्मिनल से रात्रि 11.30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन शाम 05.20 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी।

**पूजा सिंघल के पति के सीए सुमन कुमार जेल से हुए रिहा**


**RANCHI :** निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति के सीए सुमन कुमार डेढ़ साल के बाद जमानत पर जेल से रिहा हो गये। गुरुवार को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। उसके बाद रिलीज आर्डर आने के बाद वह शुक्रवार की देर शाम जमानत पर रिहा हुए। सात मई 2022 को सीए सुमन कुमार को गिरफ्तारी हुई थी। उसी समय से वह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में हैं। छह मई 2022 को ईडी ने मनरेगा घोटाला और मनी लाउंड्रिंग मामले में झारखंड में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। झारखंड में मिले डेगू के 21 मरीज

**RANCHI :** राज्य में शुक्रवार को डेगू के 21 मरीज मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा आठ मरीज देवघर जिले में मिले हैं। वहीं दुमका में दो, गढ़वा में पांच, हजारीबाग में पांच और जामताड़ा में डेगू के एक मरीज मिले हैं। वहीं राज्य में चिकनगुनिया के 67 संदिग्ध मरीज मिले हैं। इनमें हजारीबाग में 25, देवघर जिले में 38 और गढ़वा में 4 मरीज मिले हैं। हालांकि जांच के बाद किसी भी मरीज में चिकनगुनिया की पुष्टि नहीं हुई है।

# HIGH COURT से सीएम को झटका, ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

PHOTON NEWS RANCHI :

झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी के समन को चुनौती देने वाली क्रिमिनल रिट पिटीशन खारिज कर दी। याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने की। अदालत ने कहा कि यह याचिका सुनने लायक नहीं है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में हुई, जहां ईडी के वकील ने बहस करते हुए कहा कि समन को चुनौती देना सही नहीं है। वहीं दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मनोहर लाल केस का हवाला देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी समन जारी कर सकती है। बता दें कि सीएम ने ईडी के समन को



चैलेंज किया था और अदालत से आग्रह किया था कि ईडी के सारे समन निरस्त किए जाएं। इसके लिए सीएम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे लेकिन, सर्वोच्च न्यायालय ने सीएम को झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा। हाईकोर्ट में 13 अक्टूबर को फाइनल सुनवाई हुई।

**सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 22 सितंबर को हाईकोर्ट पहुंचे थे हेमंत सोरेन :** सुप्रीम कोर्ट

## समन को इस आधार पर दी गई थी चुनौती

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि पीएमएलए 2002 में निहित प्रावधानों के तहत ईडी के अधिकारी को जांच के दौरान किसी को समन करने का अधिकार प्राप्त है, जिसे धारा 50 के तहत समन जारी किया जाता है, उससे सच्चाई बताने की अपेक्षा की जाती है। उसका बयान

को असंवैधानिक करार देने और उन्हें जारी किए गए सारे समन को निरस्त करने का अनुरोध किया गया था। ईडी ने जमीन खरीद बिक्री मामले में मुख्यमंत्री को चौथा समन भेज कर पूछताछ के लिए 23 सितंबर को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया था। पेश नहीं होने पर 26 सितंबर को ईडी ने पांचवां समन जारी कर उन्हें 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस पर भी वे ईडी ऑफिस में पेश नहीं हुए।

**क्या है पूरा मामला :** दरअसल, मनी लाउंड्रिंग मामले में

दर्ज किया गया है। ईडी ने उन्हें समन भेजा है, लेकिन वह इस बात की जानकारी नहीं दे रहा है कि उन्हें किस सिलसिले में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया जा रहा है। ईडी की ओर से उन्हें ईसीआईआर की कॉपी भी नहीं दी जा रही है। सीआरपीसी 1973 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि समन करनेवाली एजेंसी

समन जारी होने के बाद ही सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी से समन वापस लेने को कहा था। उन्होंने कहा था कि हमने पहले ही अपनी संपत्ति की जानकारी दे दी है। अगर वह गुम हो गया है तो वे फिर से इसे उपलब्ध करा सकते हैं। गौरतलब है कि इससे पूर्व अवैध खनन

संबंधित व्यक्ति को यह बताए कि उसे अभियुक्त या गवाह के तौर पर समन क्यों किया जा रहा है? लेकिन पीएमएलए 2002 इस बिंदु पर पूरी तरह खामोश है। पीएमएलए की धारा 50 के तहत जारी समन में इस बात की जानकारी नहीं दी जा रही है कि उन्हें किस रूप में समन दिया जा रहा है।

## गाजा में इजरायल ने की एयर स्ट्राइक 70 लोगों की मौत, हमस ने किया दावा

AGENCY TEL AVIV :

हमस के खिलाफ जारी जंग में अमेरिका खुलकर इजरायल के साथ खड़ा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री इजरायल पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने अपने इजरायली समकक्ष के साथ मुलाकात की। इजरायल ने गाजा पट्टी सीमा पर टैंकों को तैनात कर दिया है। उसने गाजा में रहने वाले लोगों को जल्द से जल्द दूसरी जगह पर जाने का अल्टीमेटम दिया है।

हमस ने सात अक्टूबर को इजरायल पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में इजरायल ने भी युद्ध का एलान कर दिया। दोनों के बीच जंग जारी है। इस बीच गाजा

पट्टी की सीमा पर इजरायल के जवान टैंक के साथ तैनात हैं। हमस के खिलाफ जंग में अमेरिका खुलकर इजरायल के साथ खड़ा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री इजरायल पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने अपने इजरायली समकक्ष के साथ मुलाकात की। इजरायल और हमस के बीच छिड़ी जंग ने गाजा पट्टी को दोख बना दिया है। गाजा पट्टी के लोग नर्क से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। न खाना है न पानी और अंधेरे में कटती जिंदगी। गाजा के लोग दहशत में हैं। जांन कब इजरायल से मौत बनकर कोई रॉकेट आवे और उनकी जिंदगी को तबाह कर दे, डर के इसी साये में गाजा के आम लोग का दिन और रात गुजर रहा है। हमस के हमले के बाद इजरायल का गाजा पट्टी पर एक्शन लगाता जारी है। बीते पांच दिनों से इजरायल गाजा पर बम बरसा रहा है। पूरी गाजा पट्टी धुआं-धुआं हो गयी है। काँक्रेट के मलबे में पूरा शहर दब गया है। दरअसल, सात अक्टूबर को फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमस ने इजरायल तीन तरफा हमला कर दिया था। आतंकीयों की बंदूक से निकली गोली ने मामूस इजरायली लोगों हमेशा के लिए सुला दिया। आतंकीयों ने इजरायल की जमीन पर

मौत का तांडव कर दिया। गोлияं बरसाईं... ताबड़तोड़ रॉकेट दागे, और फिर कईयों के सिर कलम कर दिया। गाजा की ओर से आये हमस के आतंकीयों ने इजरायल की जमीन पर जमकर कहर बरपाया था। इजरायल और आतंकी संगठन हमस के बीच जारी जंग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पट्टी हुई है। उन्होंने शुक्रवार को मिडिल ईस्ट में जारी खून-खराबे को रोकने की अपील की है। साथ ही, इजरायल को आगाह किया है कि गाजा में जमीनी हमले से नागरिक हताहतों की संख्या बिल्कुल अस्वीकार्य होगी।

## वर्ल्ड कप में इंडिया-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का महामुकाबला आज

AGENCY NEW DELHI :

भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में महामुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले का फैसल बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दो महीने के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच यह तीसरा वनडे मैच होगा। इससे पहले दोनों टीमों एशिया कप 2023 में दो बार भिड़ी थीं। एक मैच (सुपर फोर) भारत ने जीता था, जबकि दूसरा मुकाबला (ग्रुप स्टेज) बेनतीजा रहा था। हालांकि, विश्व कप का रोमांच अलग होगा। इस मुकाबले से पहले आईसीसी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें पाकिस्तानी

खिलाड़ियों ने पुल शॉट के बादशाह के बारे में पूछा गया है। **पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने रोहित को पुल शॉट का किंग माना :** वीडियो में हारिस रऊफ, हसन अली, शादाब खान, इमाम उल हक और बाबर आजम नजर आए। उनसे पूछा गया कि मौजूदा समय में कौन सा खिलाड़ी सबसे बढ़िया पुल शॉट खेलता है? इस पर सबसे पहले हारिस रोहित का नाम लेते हैं। इसके बाद हसन, शादाब, इमाम और बाबर भी हिटमैन रोहित शर्मा का नाम लेते हैं। वीडियो में रोहित के कुछ बेहतरीन पुल शॉट भी दिखाए गए हैं। मौजूदा समय में शॉट लेख की

बॉल पर रोहित शर्मा से बेहतर पुल शॉट खेलने वाला कोई खिलाड़ी नहीं है। **शानदार फॉर्म में हिटमैन :** रोहित फिलहाल शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप 2023 के पहले मैच में शूच्य पर आउट होने के बाद उन्होंने शानदार वापसी की और अफगानिस्तान के खिलाफ तुफानी शतक लगाया। उन्होंने 84 गेंदों में 16 चौके और पांच छक्के की मदद से 131 रन की पारी खेली। रोहित ने इस मैच में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दुनिया के सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले

## ACB ने 20 हजार घूस लेते DSE ऑफिस के कर्मियों को किया गिरफ्तार पेंशन स्वीकृति को लेकर मांग रहा था रिश्वत

PHOTON NEWS GIRIDIH :

एसीबी की टीम ने पेंशन की स्वीकृति दिलाने के नाम पर जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) ऑफिस के कर्मियों मिथलेश गौतम को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रीगैथ गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की टीम मिथलेश गौतम को अपने साथ धनबाद ले गयी है। बताया जा रहा है कि डीएसई ऑफिस के कर्मियों ने पेंशन स्वीकृति को लेकर एक शिक्षक से रिश्वत की मांग की थी। इसकी शिकायत शिक्षक ने एसीबी से की। जांच में ये मामला सही पाया गया। इसके बाद उस



एसीबी की गिरफ्तार में डीएसई ऑफिस का कर्मियों। • फोटोन न्यूज

कर्मियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया। **पेंशन की स्वीकृति दिलाने के नाम पर मांग रहा था घूस :** एंटी कर्प्शन ब्यूरो

## पटना जंक्शन को बम से उड़ाने की धमकी, छावनी में तब्दील हुआ रेलवे स्टेशन; चप्पे-चप्पे की तलाशी

AGENCY PATNA :

बिहार की राजधानी के प्रमुख रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पटना जंक्शन को सुरक्षा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। स्टेशन परिसर में चप्पे-चप्पे की तलाशी ली जा रही है। डोंग और बम स्क्वाॅयड मौके पर मौजूद है। रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षाकर्मियों में हड़कंप मच गया। पटना जंक्शन पर मौजूद यात्री भी इतनी कड़ी सुरक्षा को देखकर सकते में आ गए हैं। धमकी भरा



स्टेशन में तलाशी लेते पुलिस के जवान। • फोटोन न्यूज

फोन करने वाले के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। पटना के डीएसपी कृष्ण मुरारी

हुआ है। इसके बाद पटना पुलिस तुरंत एक्टिव हुई। बम और डोंग स्क्वाॅयड को बुलाया गया। साथ ही एंटीएस को भी सूचना दे दी गई है। पूरी टीम रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर जांच कर रही है। अभी तक कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है।

पुलिस का कहना है कि संभावना जताई जा रही है कि किसी ने शरारत करते हुए पटना जंक्शन को बम से उड़ाने की धमकी भरा कॉल किया हो। फिर भी सुरक्षाकर्मी पूरी तरह मुस्तेद हैं। मामले की छानबीन की जा रही है।

PM NARENDRA MODI ने नई दिल्ली में पी-20 शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन, दुनिया को शांति का दिया संदेश, बोले-

## आतंकवाद मानवता के विरुद्ध सबसे बड़ा अपराध

AGENCY NEW DELHI :

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित पी-20 शिखर सम्मेलन का आगाज किया और दुनिया को शांति का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय विकास और कल्याण का है और यह शांति बिना संभव नहीं है। उन्होंने आतंकवाद को लेकर एक बार फिर विश्व को चेताया कि यह मानवता के विरुद्ध सबसे बड़ा अपराध है और इस पर दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में 9वें जी-20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन (पी-20) का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भारत की 5000 साल पुरानी सभ्यता और उसमें रचे बसे लोकतंत्र का परिचय कराया। उन्होंने बताया कि हजारों

साल पहले भी हमारे यहां संवाद एवं चर्चा के माध्यम से जनहितैपी व्यवस्था काम करती थी।

प्रधानमंत्री ने दुनिया में चल रहे रूस-यूक्रेन और इजराइल एवं आतंकी संगठन हमस संघर्ष के बीच अपने शांति संदेश में कहा कि संकट भरी दुनिया किसी के हित में नहीं है। शांति के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। प्रधानमंत्री ने इस बात का उल्लेख किया कि आज शाम दुनिया भर से आए संसदीय प्रतिनिधि भारतीय संसद की यात्रा कर रहे और वहां स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही उन्होंने यहां आतंकवाद की उस घटना का भी जिक्र किया जिसमें भारतीय संसद पर आतंकीयों ने हमला किया था। प्रधानमंत्री ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि दुनिया के देश अभी तक



शिखर सम्मेलन में उपस्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य। • फोटोन न्यूज

आतंकवाद की परिभाषा पर आम सहमति नहीं बना पाए हैं, जिसका फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जी-20 देशों और आमंत्रित देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारी, अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) के अध्यक्ष दुआर्ते पचेको और अन्य गणमान्य भी इस

अवसर पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह शिखर सम्मेलन पूरी दुनिया की सभी संसदीय परंपराओं का एक 'महाकुंभ' है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने इस बात का उल्लेख भी किया कि आज यहां उपस्थित सभी प्रतिनिधियों के पास विभिन्न देशों की संसदों का समृद्ध अनुभव है। इसके साथ ही मोदी ने इस आयोजन के बारे में

संतोष भी व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पी-20 शिखर सम्मेलन उस भूमि पर हो रहा है जो न केवल लोकतंत्र की जननी के रूप में जानी जाती है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। विश्व की सभी संसदों के प्रतिनिधियों में चर्चा और विचार-विमर्श के महत्व के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने इतिहास

में दर्ज संवाद और वाद-विवाद के सटीक उदाहरणों का उल्लेख भी किया।

प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि समय के साथ भारत की संसदीय परंपराओं का निरंतर विकास हुआ है और वे परम्पराएं और सशक्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से भारत में 17 आम चुनाव और विभिन्न राज्यों के 300 से अधिक विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इतने बड़े पैमाने पर होने वाले चुनावों में लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 2019 का आम चुनाव, जिसमें उनकी पार्टी सत्ता में आई थी, मानव इतिहास की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया थी क्योंकि 600 मिलियन मतदाताओं ने इसमें भाग लिया था। उस समय 910 मिलियन पंजीकृत मतदाता थे, जो पूरे यूरोप की जनसंख्या से भी अधिक है।

## गोइलकेरा के जंगल में सुरक्षाबलों के साथ नक्सलियों की आधा घंटा मुठभेड़

PHOTON NEWS CHAIBASA :

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन से एक दिन पूर्व शुक्रवार को सुबह करीब 7 बजे पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना अंतर्गत घने जंगलों में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गयी। करीब आधा घंटा यह मुठभेड़ गोइलकेरा थाना क्षेत्र के बामियाबुरु, तिलयावेड़ा जंगल में हुई है। इस दौरान नक्सलियों और सुरक्षाबलों की तरफ से दर्जनों राउंड गोली चली है। मुठभेड़ में एक नक्सली के घायल होने की सूचना है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पायी है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने यहां मुठभेड़ होने की पुष्टि करते हुए बताया कि जिले में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 10 अक्टूबर 2023 से एक संयुक्त अभियान गोइलकेरा थानाअंतर्गत ग्राम कुईड़ा, छोटा कुईड़ा, मारादिरा, मेरालगड़ा, हाथीबुरु, तिलयावेड़ा बोपपईससांग,

कटम्बा, वायहातु, बोरोय के सीमावर्ती क्षेत्र तथा टोटो थानाअंतर्गत ग्राम हुसिपी, राजाबासा, तुम्बाहाका, रेगड़ा, गोबुरु, लुईया के सीमावर्ती क्षेत्र में प्रारंभ किया गया है। शुक्रवार को संयुक्त बलों की एक टीम गोइलकेरा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बामियाबुरु, तिलयावेड़ा जंगल की ओर अभियान में निकली हुई थी कि तभी नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और आईडी ब्लास्ट कर दिया। नक्सलियों की तरफ से हुई आनक फायरिंग और ब्लास्ट करने से जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। दोनों तरफ से दर्जनों राउंड फायरिंग हुई है। सुरक्षाबलों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल का सहारा लेकर भाग निकले। इधर, सूत्रों के अनुसार इस दौरान हुए आईडी ब्लास्ट में एक नक्सली के घायल होने की बात कही जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा है। वहीं, खुफिया सूत्रों का कहना है कि एक नक्सली खम्भी हुआ है।



# बांस

## आमदनी का अच्छा जरिया

जहाँ तक अंतराल का प्रश्न है। बांस का रोपण 4-4 मी. के अंतराल पर करना लाभदायक पाया जाता है। रोपण हेतु गड्डे रोपण करने के लगभग 1 माह पहले खोदकर छोड़ दिये जाना चाहिये। ताकि उनका रोपण के पूर्व प्राकृतिक उपचार हो सके



### पौधों का रोपण

बांस का रोपण वर्षा ऋतु के प्रारंभ के समय किया जाना चाहिये। रोपण हेतु 6 से 9 माह आयु में पौधों का उपयोग करना लाभदायक पाया गया है। बांस में पौधों का रोपण 30-30-30 से.मी. आकार के गड्डों में किया जाना चाहिये। रोपण के पूर्व गड्डे मिट्टी एवं 10 किलोग्राम कम्पोस्ट खाद के मिश्रण से भर दिये जाते हैं। तत्पश्चात् पॉलीथीन थैलियों में तैयार किये गये पौधे थैलियों को फाड़कर मिट्टी सहित गड्डों में रोपित कर दिये जाते हैं। जहाँ तक अंतराल का प्रश्न है। बांस का रोपण 4-4 मी. के अंतराल पर करना लाभदायक पाया जाता है। रोपण हेतु गड्डे रोपण करने के लगभग 1 माह पहले खोदकर छोड़ दिये जाना चाहिये। ताकि उनका रोपण के पूर्व प्राकृतिक उपचार हो सके

### रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल

बांस प्राकृतिक रूप से ढालू जमीन पर अच्छा बढ़ता है। अतः इसके रोपण का चयन किया गया स्थल ढालू होना चाहिये।

### रासायनिक खाद का प्रयोग

बांस की अच्छी वृद्धि हेतु उपयुक्त खादों के प्रकार तथा मात्राओं पर अनुसंधान कार्य हेतु हैं। इनमें से एक का परिणाम यह है कि बांस भिरे में 50 ग्राम यूरिया तथा 20 ग्राम सुपर फॉस्फेट की खुराक देना लाभदायक होता है। एक निष्कर्ष यह भी है कि यूरिया खाद (20 ग्राम प्रति पौधा) का उपयोग प्रथम तथा पांचवें वर्ष में किया जाना सर्वाधिक लाभप्रद होता है। खाद की खुराक देने के तुरंत पश्चात् पौधों की सिंचाई की जाना आवश्यक है।

### बांस रोपण की आर्थिकी

बांस की उपयोगिता अधिक होने के कारण प्राइवेट व्यक्ति कृषक इसका रोपण करके व इसका व्यापार करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। देशी बांस डेन्ड्रोकेलामस स्ट्रिक्टस

### उत्पादन एवं आय

बांस के भिरे से तीन प्रकार के बांस प्राप्त होते हैं - सूखे बांस, टेढ़े-मेढ़े बांस एवं अच्छे बांसों के पतले टुकड़े-ये सब एक श्रेणी में रखे जाते हैं तथा इन्हें औद्योगिक बांस कहा जाता है। इसका उपयोग कागज बनाने के कारखानों में किया जाता है। अच्छे बांस व्यापारिक



बांसों के नामों से जाने जाते हैं। इनका उपयोग निर्माण कार्य हेतु किया जाता है। सूखे बांसों को तोल करने पर एक टन वजन में लगभग 250 बांस आते हैं।



इनको बाजार में 1000-1200 रुपये प्रति टन के भाव से वर्तमान समय से बेचा जाता है। व्यापारिक बांस औसतन 15/- प्रति बांस की दर से फुटकर बाजार में बिकता है। वैसे बहुत अच्छे बांस 50/- प्रति बांस तक बिकते हैं। बांस की कीमत अच्छी लम्बाई-मोटाई तथा पकने की स्थिति पर निर्भर करती है। बांस के रोपण में सामान्यतः 6-7 वर्ष की आयु में उपयोगी बांस प्राप्त होने लगते हैं। 6वें वर्ष से प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में औसतन 3000 बांस प्रति वर्ष प्राप्त होंगे। इनमें से 20 प्रतिशत बांस औद्योगिक श्रेणी के हो सकते हैं। जिनका वजन लगभग 3 टन होगा। शेष

2400 बांस 2400315 = 36000/- में बिकेंगे। औद्योगिक बांसों की बिक्री से होने वाली आय को मिलाकर कुल आय 39000/- रुपये प्रति वर्ष होगी। कटाई का व्यय (औसतन 0.50/- प्रति की दर से) लगभग 1500/- रु. होगा। अन्य खर्च को मिलाकर कुल व्यय लगभग रुपये 2000/- प्रतिवर्ष होगा। फिर भी शुद्ध आय 37000/- प्रतिवर्ष हो सकेगी। यदि जमीन अच्छी नहीं है तो भी 20000/- रु. से 30000/- रुपये बांस फूलेगा तब सभी भिरे सूख जावेंगे। औषध इस समय लगभग 40 टन सूखे बांस प्राप्त होगा। जिसकी कीमत आज की दर के आधार पर 48000/- रुपये होगी इस प्रकार हम पाते हैं कि रोपण की स्थापना पर किया गया व्यय पहले उत्पादन (छठवें वर्ष में) ही वापस हो जाता है। आगे के वर्षों के नाममात्र व्यय के बाद काफी बड़ा लाभ होगा।

### जरा सी सावधानी

## सुरक्षित अनाज



वर्तमान समय में रबी की फसलों की कटाई एवं गहाई चल रही है इसके बाद भंडारण करना है इसलिये कटाई करते समय ध्यान रखें फसलें अच्छी तरह पकी हों अन्यथा कच्चे रहने पर दाने छोटे व सिक्कड़ जाते हैं और यदि अधिक दिनों तक फसल पकी हुई खड़ी रहने पर कटाई के समय दाने व फलियां जमीन पर झड़ जाते हैं जिससे उपज घट जाती है, इसलिये सभी फसलों की पकने की उचित अवस्था में कटाई करें कटाई के लिये कई पहलू हैं जिसमें पतियां फलियां पीली पड़ना, पतियां गिरना, दाने में नमी की मात्रा जो पकने में देखे जाते हैं साथ ही कटाई उचित यंत्र से कटाई करें जिसमें रकबा व उपलब्ध मजदूर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिसमें ट्रैक्टर व मशीन चलित कम्बाइन, हारवेस्टर व मोवर, बैल चलित यंत्र रीपर से करना चाहिए इस समय नमी 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए तथा मानव चलित उपकरण हसिया, गंडासा उपयोग होता है। कटाई के बाद फसल को सुखाना हो तो उसे बंडलों में बांधकर खेत में 3-4 दिन सुखा लें, इसके बाद पूर्ण रूप से सूखने पर लगभग नमी फसलों में 15% के आसपास हो तब दांव चलाकर, उड़ें से पीटकर या थ्रेसर द्वारा दाना-भूसा अलग कर लें, साथ ही देख लें अधिक नमी या यंत्र की खराबी से दाना टूट तो नहीं रहा, तेल वाली फसलों को अधिक समय तक खलिहान में गहाई के लिये फसल को भंडारित कर नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे तेल प्रतिशत घट जाता है साथ ही कीड़ों द्वारा भी हानि पहुंचाई जाती है, अनाज को भंडारण से पहले सुखाना बहुत जरूरी है, जिससे उसमें नमी अधिक न रहे अन्यथा कीड़े व फफूंद द्वारा उत्पादन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जिसमें सभी फसलों के लिये नमी प्रतिशत अलग-अलग होता है जैसे-अनाज वाली फसलों 12% तिलहनी फसलों में 8%, दलहनी फसलों में 9% नमी भंडारण हेतु उपयुक्त मानी जाती है, इसके लिये बीजों को दांतों से तोड़कर कट की आवाज आने पर सही नमी का अंदाजा लगाया जा सकता है।

### उपरोक्त के अलावा फसलों की कटाई, गहाई व उसके रखरखाव हेतु निम्नलिखित सावधानियां रखना चाहिए-

- फसल की कटाई साफ व धूप वाले मौसम में करना चाहिए,
- गहाई मशीन के नट अच्छी तरह कसे होना चाहिए इसके लिये कार्य करते समय अवांछनीय आवाज आये तो मशीन रोककर ठीक कर लेना चाहिए,
- थ्रेसिंग मशीन पर कार्य करने वाले ढीले-ढाले कपड़े नहीं पहनना चाहिए उलझ सकते हैं,
- खलिहान में आदमी बीड़ी-सिगरेट न पिये आग लग सकती है,
- खलिहान साफ-स्वच्छ, ऊंचे स्थान जहां वर्षा होने पर पानी भरे नहीं तथा आसानी से निकल जाये ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए,
- फसल के बंडल थ्रेसर के पास रखें जिससे मजदूरों को थ्रेसिंग करते समय अधिक क्षमता से गहाई कर सकें,

# दुधारू पशुओं की देख-रेख

दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए. संक्रामक रोगों का टीकाकरण समय रहते अवश्य करना चाहिए. बाह्य एवं आंतरिक परजीवियों को दूर करने के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए. दुधारू पशुओं में थन एवं अयन की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

- पशु के पोषण में लगभग 70% खर्च होता है. दुग्ध उत्पादन तभी लाभदायी हो सकता है, जब पशुओं को संतुलित आहार मिले तथा उसकी लागत कम आये. हरा चारा दुधारू पशुओं के लिये अमृत के समान है. 6 से 8 लीटर दूध देने वाले पशुओं की आवश्यकता की पूर्ति मात्र पेट भर हरा चारा उपलब्ध कराने से भी की जा सकती है. 1.5 किलो जीविका आहार के साथ पशु की दूध उत्पादन क्षमता के अनुसार बांटा दिया जाना चाहिए. भैंसों में 2 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलो बाटा तथा गायों में 2.5-3.0 लीटर दूध पर 1 किलो बाटा दिया जाना चाहिए.
- पशुओं की अच्छी आवास व्यवस्था भी दूध उत्पादन अछा रखने में सहायक होती है. गोशाला इस प्रकार की बनाई जानी चाहिए जिससे सूर्य की किरणें उत्तर की ओर अधिक पड़ें और दक्षिण की ओर कम से कम, जिससे गर्मियों एवं सर्दियों में पशुओं की रक्षा की जा सके. गाय एवं भैंसों के लिये 30-35 वर्ग फीट प्रति पशु जगह की आवश्यकता होती है. बाहरी बाड़ा के लिये 20-100 वर्ग फुट स्थान होना चाहिए. पूछ से पूँछ विधि गो पशुओं के लिये सबसे अधिक उपयोगी पाई गई है.



दुधारू पशुओं से अधिक दूध उत्पादन के लिए स्वच्छ पानी की उपलब्धता अत्यंत आवश्यकता है. पशु बिना भोजन के तो रह सकता है. परंतु बिना पानी के नहीं. क्योंकि पानी शारीरिक



क्रियाओं के संचालन एवं दूध उत्पादन के लिए आवश्यक है. पर्येक दुधारू पशु को लगभग 100 लीटर पानी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है.

- दुधारू पशुओं को प्रेम पूर्वक रखना, उनसे अच्छा व्यवहार करना, बाह्य परजीवी जू किलनी इत्यादि को अलग रखना, क्योंकि बाह्य परजीवी पशु का खून चूसते हैं और दूध उत्पादन क्षमता पर प्रभाव डालते हैं.

अतः जब भी मौसम में बदलाव आता है, उस समय बाह्य परजीवी जैसे जू और किलनी मारक दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए.

- जहाँ तक सम्भव हो दुधारू पशुओं को शोर से दूर रखा जाना चाहिए. शोर का प्रभाव उनकी दूध उत्पादन क्षमता पर पड़ता है.
- अच्छे दूध उत्पादन करने वाले पशुओं की पहचान की जानी चाहिए. जो पशु कम दूध उत्पादन अर्थात् 2-3 लीटर दूध देते हैं. उनकी छटनी कर देनी चाहिए. प्रतिवर्ष 15-20 प्रतिशत गो शाला के पशुओं की छटनी की जानी चाहिए जिससे लगातार अधिक दूध उत्पादन प्राप्त हो सके.

- गो शाला में एक निश्चित दिनचर्या का पालन किया जाना चाहिए. इसमें बदलाव करने से दूध उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है. यदि कोई बदलाव करना है तो पशुओं की शुष्क अवस्था में किया जाना चाहिए.
- पशुओं का दूध दूहते समय अच्छा प्रबंध करना चाहिए. यह एक विशेष कार्य है. दोहने वाले व्यक्ति की क्षमता दूध उत्पादन पर बहुत प्रभाव डालती है. दूध निकालने की प्रक्रिया 5-7 मिनट में पूर्ण हो जानी चाहिए. वरना पशु दूध को रोक सकता है. इसलिये दूध दोहने में जो व्यक्ति पारंगत है उनसे ही दूध निकालवाना चाहिए. इससे पशु की वास्तविक दूध उत्पादन क्षमता का पता लगाया जा सकता है.
- गर्मियों में अधिक दूध देने वाले पशुओं का विशेष प्रबंध किया जाना चाहिए. गाय एवं भैंसों को नहलाना, गो शाला में ठंडा वातावरण रखना, सुबह और शाम को भोजन देना चाहिए. साइलेज का इस्तेमाल, भूसे का यूरिया उपचार किया जाना चाहिए जिससे उत्पादन को गिरने से बचाया जा सके.
- अच्छे दूध उत्पादन के लिये अच्छी प्रजनन क्षमता को बनाये रखना बहुत ही जरूरी है. पशु की उत्पादन क्षमता छटवीं ब्यात तक होती है. आदर्श प्रजनन क्षमता एक सड़ड़ा/बछिया प्रतिवर्ष है. यदि प्रजनन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया तो किसान को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए. संक्रामक रोगों का टीकाकरण समय रहते अवश्य करना चाहिए. बाह्य एवं आंतरिक परजीवियों को दूर करने के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए. दुधारू पशुओं में थन एवं अयन की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए. वरना थनेला रोग होने की संभावना हमेशा बनी रहती है. थनेला रोग की जीव स्ट्रुप कम विधि से समय-समय पर की जाना चाहिए. ग्रामीण परिवेश में साफ-सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे थनेला रोग होकर एक या दो थन खराब हो जाते हैं और किसानों को काफी आर्थिक क्षति उठाना पड़ती है.

**BRIEF NEWS**

सीएम चाहे जितने दरवाजे खटखटा लें, ईडी के दरवाजे पर जाना ही होगा : भाजपा

**RANCHI :** भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने शुक्रवार को ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका रद्द होने के बाद ने प्रतिक्रिया जारी की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चाहे कितने भी दरवाजे खटखटा लें, अंततः उनको ईडी के दरवाजे पर जाना ही होगा। वे सुप्रीम कोर्ट गए कोई रिलीफ नहीं मिली। आज हाई कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि हेमंत ईडी के समन के खिलाफ जिस तरह से भागते दिख रहे हैं, उससे क्लियर मैसैज जा रहा है कि इस प्रदेश में 70000 करोड़ का घोटाला हुआ है और उसके तार सीधे तौर पर उनसे जुड़े हुए हैं। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ईडी के समन को फेंक करें। दुनिया की कोई भी एजेंसी किसी भी निर्दोष व्यक्ति को फंसा नहीं सकती।

अचानक धू-धूकर जलने लगी बीच सड़क पर खड़ी बुनेट विधायक ने बुझाई आग

**RANCHI :** कांग्रेस विधायक जय मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के रांची स्थित सरकारी आवास के बाहर खड़ी एक बुनेट में शुक्रवार को अचानक आग लग गयी। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। लोग इधर-उधर भागने लगे। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि बिजली के तारों को जलाने लगी। आग की वजह से बिजली के तार टूट कर नीचे गिरने लगे। ट्रैफिक को भी बीच में रोक दिया गया। इसी बीच अचानक विधायक अनूप सिंह अपने बाईं गार्ड के साथ बाहर निकले और आग पर काबू पाने में लग गए। अपने घर से अग्निशमन यंत्र लेकर निकले अनूप सिंह काफी देर तक आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। अग्निशमन विभाग और उनके बाईं गार्ड के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर कोवालपी पुलिस भी मौके पर पहुंची लेकिन तब तक आग पर काबू पाया जा चुका था।

मैकेनिकल थीम पर बनेगा कोकर का दुर्गा पूजा पंडाल

**RANCHI :** कोकर दुर्गा पूजा कमिटी इस बार भव्य पंडाल बनाएगी। दुर्गा पूजा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। बंगाल के कारीगर पंडाल निर्माण कर रहे हैं। कमिटी के अध्यक्ष चंचल चटर्जी ने गुरुवार को बताया कि मैकेनिकल थीम पर पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। थीम के अनुसार पंडाल के गेट पर हाथी सूंड बनाई जाएगी। श्रद्धालुओं के पंडाल में प्रवेश करने से पहले आवाज के साथ हाथी का सूंड ऊपर उठेगा और श्रद्धालु पंडाल के अंदर प्रवेश कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि मूर्तियों का निर्माण भी कोलकाता के मूर्ति कारों की ओर से किया जा रहा है। मूर्तियों का निर्माण भी कोलकाता के मूर्ति कारों की ओर से किया जा रहा है। मूर्तियों का निर्माण भी कोलकाता के मूर्ति कारों की ओर से किया जा रहा है।

# हाई कोर्ट में 1984 के सिख दंगा पीड़ितों के मुआवजे पर हुई सुनवाई

## राज्य सरकार नहीं दे सकी स्टेटस रिपोर्ट, अगली सुनवाई एक नवंबर को

**PHOTON NEWS RANCHI :** झारखंड हाई कोर्ट में वर्ष 1984 के सिख दंगा में झारखंड में प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने एवं सिख दंगा से संबंधित केस क्रिमिनल केस की मॉनिटरिंग करने को लेकर दायर सतनाम सिंह गंभीर जनहित याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई। मामले में राज्य सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं किया जा सका। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई एक नवंबर निर्धारित की है।



से कोर्ट को बताया गया कि सिख दंगा को लेकर जो प्राथमिकी दर्ज हुई थी उसे पर क्या कार्रवाई हुई है, इस पर भी राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि मुआवजा देने के कमीशन की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई है। मुआवजा की राशि किन-किन जिलों में दी जानी है। मुआवजा भुगतान को लेकर क्या पहल की जा रही है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट ने मामले में मुआवजा भुगतान से संबंधित अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगा था। पूर्व में ही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि कमीशन ने चार जिलों में सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा भुगतान करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है। हाई कोर्ट के आदेश पर सिख दंगा मामले को लेकर रिटायर्ड जस्टिस डीपी सिंह की अध्यक्षता में गठित वन मैन कमीशन ने

## हाई कोर्ट ने जल संसाधन विभाग को जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश

**RANCHI :** झारखंड हाई कोर्ट में स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना को राज्य सरकार द्वारा बंद किए जाने के खिलाफ संतोष कुमार सोनी की जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना में अब तक साढ़े छह हजार करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। जमीन का अधिग्रहण भी हो चुका है। विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर भी व्यवस्था कर दी गई है लेकिन इसी दौरान राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बिना कारण ही बंद कर दिया। राज्य सरकार ने मार्च 2020 में इस योजना का काम बंद करने का आदेश दिया था जबकि इस योजना से हजारों लोगों का रोजगार सृजित होता। सिंचित भूमि के साथ-साथ पर्यटन दृष्टि से भी राज्य का विकास होना था लेकिन सरकार के उदासीन रवैया के कारण यह योजना अधर में है। ऐसे में अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। निर्माण करने वाली कंपनी दिलीप बिल्डकॉन की तरफ से अवगत कराया गया कि उनके तरफ से जवाब दाखिल हो चुका है। मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी, 2024 को होगी।

अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी है, जिसमें झारखंड के सिख दंगे से प्रभावित चार जिलों रांची, रामगढ़, बोकारो, पलामू के लोगों को मुआवजा देने के संबंध में आदेश पारित किया गया है।

## बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा का समापन 28 अक्टूबर को रांची में होगा

**PHOTON NEWS RANCHI :** भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 17 अगस्त से संकल्प यात्रा पर हैं। सथाल परगना के भोगनाडीह से निकली उनकी संकल्प यात्रा का समापन 28 अक्टूबर को रांची में जमसभा के साथ होगा। बाबूलाल मरांडी अब तक आठ चरण की यात्रा पूरी कर चुके हैं।



सथाल से शुरू हुई उनकी संकल्प यात्रा 57 दिन में 73 विधानसभा क्षेत्रों में सभा के साथ संपन्न हो चुकी है। नौवें और आखिरी चरण की यात्रा दुर्गापूजा के बाद ईचांगढ़ से शुरू होगी। बाबूलाल मरांडी 27 अक्टूबर को ईचांगढ़ और उसके बाद सिरली विधानसभा क्षेत्र में सभा करेंगे। इसके बाद 28 अक्टूबर को वे रांची पहुंचेंगे।

## मारपीट के मामले में कार्रवाई के लिए फेडरेशन ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

**PHOTON NEWS RANCHI :** वायरल सीसीटीवी फुटेज के आलोक में फेडरेशन ऑफ ऑल व्यापार संगठन के अध्यक्ष दीपेश कुमार निशाला और महासचिव सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री को पत्र लिखकर दिनांक 12.10.2023 को 3 लोगों के द्वारा दुर्गा पूजा का चंदा मांगने के नाम पर धनबाद जिले के धनसर क्षेत्र के अग्रहार नगर निवासी व्यापारी श्री सुशील पोद्दार के ऊपर उनके घर के बाहर हमला कर उनसे काफी मारपीट किए जाने और उनके द्वारा किसी तरह से जब जान बचाकर वह घर पर अंदर भागे तो उनके घर के दरवाजे पर भी काफी उपात मचाया गया है, एवं रॉड से हमला किया गया है और इस क्रम में चंदा मांगने आए



हमलावरों ने मारवाड़ी समुदाय विशेष पर अप्रद रिस्पॉन्स करने के मामले पर आगामी पूजा के माहौल को देखते हुए इस प्रकार के विंगडे हुए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की तरफ श्रीमान का ध्यान आकर्षित कराते हुए यथाशीघ्र उक्त दोषी आरोपियों को गिरफ्तारी सहित उन पर कठोर कार्रवाई की मांग की है, ताकि समाज में अमन चैन कायम रह सके, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

## 'मेरी माटी, मेरा देश' कार्यक्रम के तहत पौधारोपण कर बनायी गयी अमृत वाटिका

**PHOTON NEWS RANCHI :** केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में 'मेरी माटी मेरा देश' कार्यक्रम के अंतर्गत एनएसएस विद्यार्थियों ने शुक्रवार को पौधारोपण कर अमृत वाटिका बनायी। अपने-अपने घर से लाई गई मिट्टी को घड़े में लेकर पूरे परिसर में अमृत कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के बाद विद्यार्थियों ने पंच प्रण शपथ लेते हुए उनके द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें परिवहन आयातकाल जागरूकता, विभिन्न प्रदेशों की सांस्कृतिक झलक, देशभक्ति गीत इत्यादि का आयोजन किया गया।

## डीसी ने आर्म्स एक्ट मामले में सात के खिलाफ अभियोजन की दी स्वीकृति

**PHOTON NEWS RANCHI :** उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को सुखदेवनगर थाने से संबंधित आर्म्स एक्ट के मामले में सात अपराधियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी है। इनमें संतोष राय, रवि कुमार, दीपक कुमार सिंह, अभिषेक कुमार, अलतमस अंसारी, सुरज कुमार और सुजित कुमार शामिल हैं।



उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर नवाटोली चौक के पास स्थित एक घर में छापेमारी कर सात लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही हथियार और गोली बरामद किया गया। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे सभी पंडरा बाजार समिति के एक व्यवसायी से लूटपाट करने की फिराक में थे।

## CM HEMANT SOREN झारखंड मंत्रालय में आयोजित समारोह में हुए शामिल

# वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी-2023 के इवेंट मैसफॉर्ट जूही एवं ट्रॉफी का किया अनावरण

**PHOTON NEWS RANCHI :** झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में आयोजित समारोह में शुक्रवार को वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी-2023 के इवेंट मैसफॉर्ट जूही और ट्रॉफी का अनावरण किया। रांची की मेजबानी में 27 अक्टूबर से चैंपियनशिप का आगाज होगा। पांच नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोर्टफ हॉकी स्टेडियम में आयोजन होगा। इसमें भारत के अलावा जापान, कोरिया, चीन, मलेशिया और थाईलैंड हिस्सा लेंगे। हर दिन तीन मुकाबले खेले जायेंगे। टूर्नामेंट में कुल 21 मुकाबले खेले जायेंगे।



**मरांग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोर्टफ में होगा आयोजन**  
मरांग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोर्टफ हॉकी स्टेडियम में एक कार्यक्रम में राज्य सरकार ने हॉकी इंडिया के साथ इस आयोजन के लिए करार किया है। सरकार आर्थिक सहयोग के रूप में इस आयोजन के लिए 20 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

झारखंड की राजधानी रांची में वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 27 अक्टूबर से पांच नवंबर तक किया जायेगा। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंटका नाम इस बार झारखंड एशियन चैंपियंस ट्रॉफी

## टूर्नामेंट में होंगे कुल 21 मुकाबले

इस बड़े आयोजन में भारत के अलावा जापान, कोरिया, चीन, मलेशिया और थाईलैंड हिस्सा लेंगे। हर दिन तीन मुकाबले खेले जायेंगे। राउंड रॉबिन फॉर्मेट पर पूरा टूर्नामेंट आयोजित किया जायेगा। इसका मतलब यह है कि हर टीम को अपने पांच विपक्षियों के साथ एक-एक बार खेलने का मौका मिलेगा। टूर्नामेंट में कुल 21 मुकाबले खेले जायेंगे।

## फ्री देख सकेंगे चैंपियंस ट्रॉफी मैच

महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के सभी मुकाबले रांची के मोराबादी स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोर्टफ हॉकी स्टेडियम में खेले जायेंगे। इसके लिए टिकट नहीं होंगे। मतलब दर्शक बिना पैसे खर्च किये फ्री में सभी मुकाबले देख पायेंगे। स्टेडियम की क्षमता 7000 दर्शकों की है। पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दर्शकों को सीट मिलेगी। वीआईपी परिया में पास के माध्यम से इंट्री होगी।

रांची 2023 होगा। यह इस टूर्नामेंटका सातवां संस्करण होगा। इस टूर्नामेंटमें मेजबान भारत के अलावा मौजूदा चैंपियन जापान, उपविजेता कोरिया, चीन, मलेशिया और थाईलैंड हिस्सा लेंगे। भारतीय महिला टीम ने 2016 में यह खिताब जीता था और 2018 में संस्करण में वे उपविजेता रही थीं।

## खबरें राउरकेला की

निजी अस्पतालों में रेफर करने पर रोक लगाने का निर्देश, संयुक्त श्रमिक संघ ने किया फैसले का विरोध  
**ROURKELA :** राज्य कर्मचारी बीमा संगठन के अस्पताल से अब किसी भी गंभीर मरीज को बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पतालों में नहीं भेजा जाएगा। इनका इलाज ईएसआई अस्पताल या सरकारी अस्पताल में किया जाएगा। ऐसी अधिसूचना शुक्रवार को उपायुक्त द्वारा जारी की गई। राउरकेला में संयुक्त श्रमिक संघ ने इस अधिसूचना का विरोध किया है। पहले ईएसआई समेत गंभीर रूप से बीमार कर्मियों को अच्छे निजी अस्पतालों में रेफर किया जाता था श्रमिकों को ईएसआई अस्पताल में उनके लिए कोई अच्छा चिकित्सा सुविधा नहीं है। संवाददाता सम्मेलन में संयुक्त श्रमिक संघ ने ईएसआई श्रमिकों और नियोजकों से रुपए लेने के पक्ष में पूर्व के तरह बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की मांग की।



## उड़िया फिल्म माइंडगेम का किया प्रचार

**ROURKELA :** उड़िया फिल्म माइंडगेम के सह-निर्माता और अभिनेता मनोज मिश्रा फिल्म के प्रचार के लिए सिने कार्निवल, राउरकेला पहुंचे। इस प्रमोशनल इवेंट में रघुनाथपाली विधायक सुब्रत तराई, सिने कार्निवल के निदेशक अभिताभ सामल भी मौजूद थे इस फिल्म को चार भाषाओं में किया गया है। उड़िया और तेलुगु भाषा में बनाई गई इस फिल्म को और दो भाषा हिन्दी और संवत्पुरी भाषा में उन्निकृत किया गया है। इस फिल्म ओडिशा के एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर के रूप में दर्शाया गया है।



## नगर निगम ने की जांच, 3,300 रुपए जुर्माना वसूला

**ROURKELA :** राउरकेला नगर निगम ने स्वास्थ्य अधिकारी सह खाद्य सुरक्षा के नेतृत्व में छेद कालोनी में खाद्य सुरक्षा जांच किया। इस दौरान नियमों का पालन नहीं करने वाले और अशुद्ध खाद्य पदार्थों की जांच हुई। बिना लाइसेंस वाली इकाइयों को नोटिस जारी किए गए और आगे के विश्लेषण के लिए नमूने एकत्र किए गए। इन दुकानों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा-69 के तहत जुर्माना लगाया गया। कुल मिलाकर, 27 इकाइयों का निरीक्षण किया गया। जिसके परिणामस्वरूप 3,300 रुपये का जुर्माना वसूला गया।



## ट्रेलर ने स्कूटी को रोड़ा, महिला की हालत गंभीर

**SUNDARGARH :** सुंदरगढ़ सदर थाना एमसीएल रोड बघापाली के पास बालिजोरी चौक के पास एक घातक सड़क दुर्घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया। स्कूटी को एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी और करीब 100 मीटर दूर तक घसीटते हुए ले गई। महिला के पैर टूट गया। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। एक सप्ताह पूर्व भी एक ट्रेलर के मोटरसाइकिल ने धक्का मारा था, इसमें व्यक्ति की मौत हो गई थी। महिला और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। लोगों ने इस सड़क पर कोयला लदे ट्रेलरों के परिचालन को रोकने की मांग की। पुलिस और स्थानीय तहसीलदार घटना स्थल पर पहुंच कर लोगों को समझाने के बाद सड़क जाम हटा।



## हाथी के हमले में घायल ओएसएपी जवान की मौत

**SUNDARGARH :** सुंदरगढ़ के लोकीपाड़ा वन रेंज के गुडियाडीही में हाथी के हमले में घायल हुए ओएसएपी जवान सुरेंद्र बारला की इलाज के दौरान शुक्रवार को बुर्ला में मौत हो गई है। एक अन्य घायल महिला का अभी भी गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। मालूम हो कि हाथी के हमले में जवान सुरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं शोच के लिए जा रही एक वृद्धा हाथी के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गयी थी। दोनों को बुर्ला अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। वहीं सुरेंद्र बारला की मौत हो गयी। गंभीर रूप से बुजुर्ग महिला पद्मिनी बेगा का इलाज चल रहा है।



## बीजेडी के वरिष्ठ नेता मंगला किशन से मिले दो मंत्री

**ROURKELA :** राउरकेला ओडिशा सरकार में पूर्व मंत्री मंगला किशन का राउरकेला के सुपर स्पेशियलिस अस्पताल में सफल ऑपरेशन हुआ है। अस्पताल में इलाजरत मंगला किशन से मिलने शुक्रवार को श्रम मंत्री सारदा नायक और मंत्री प्रीतिरंजन घाईस पहुंचे। मंगला किशन का हाल चाल लिया और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की।



## अग्रसेन जयंती पर अंताक्षरी प्रतियोगिता आयोजित

**ROURKELA :** शहर के महाराजा अग्रसेन सेवा संघ द्वारा भागवान अग्रसेन जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें पांचवें दिन का शुक्रवार को अंताक्षरी कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें आठ अलग-अलग संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के निष्पादक राउरकेला के प्रसिद्ध गायक प्रदीप गुरुद्वारा रहे। अंताक्षरी कार्यक्रम हरियाणा नारिकेल संघ, मारवाड़ी युवा मंच, मारवाड़ी युवा शहर शाखा, अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन, अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन, मारवाड़ी युवा मंच जागृति शाखा, मारवाड़ी महिला मंच, महाराजा अग्रसेन सेवा संघ के बीच खेला गया। हरियाणा सार्विक एसोसिएशन को मोमोटो से सम्मानित किया गया और उसके बाद भव्य हाउजी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संवाहन संयुक्त सचिव बबल गौयल, कार्यक्रम संयोजक अशोक अग्रवाल, एसोसिएशन के अध्यक्ष केदारनाथ खेडिया, सचिव सीताराम अग्रवाल, कोषाध्यक्ष हरिओम बंसल, संयुक्त सचिव दैलत राम अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष सुरेश केजरीवाल व महेश अग्रवाल, द्रष्टी सुभाष गुप्ता व प्रदीप मोदी, प्रदीप ने किया।



## श्रम मंत्री ने पेवर्स ब्लॉक के लिए 37 लाख का दिया अनुदान

**ROURKELA :** श्रम मंत्री सारदा प्रसाद नायक ने कोइलनगर व जगदा गस्त में आकर विकास कार्यों के लिए 37 लाख रुपये का अनुदान दिया। इस संबंध में कोलनगर के वृद्ध बस्ती में पेवर्स ब्लॉक, कोइलनगर वी ब्लॉक में पेवर्स ब्लॉक और जगदर के विभिन्न इलाकों में पेवर्स ब्लॉक कार्यों का उद्घाटन भी किया। श्रम मंत्री ने स्थानीय लोगों की समस्याओं पर चर्चा की और स्थानीय निवासियों को उनका तुरंत समाधान भी किया। बीजद टाउन अध्यक्ष गगन पांडा, युवा अध्यक्ष सुरेश राउत, रुद्र पट्टना, नारायण प्रधान, सजीव मोहंती, सुदाम प्रधान, त्रिलोकानंद परीदा, तार्थरंजन कर्मकार, मायारानी पान, दीपक साहू, जयश्री मनींगराही, विवेक जेना, ब्रह्मानंद मिश्रा उपस्थित थे।



## अधूरा पुल बनाने की मांग को लेकर धरना जारी

**ROURKELA :** सामाजिक कार्यकर्ता मुक्तिकांत देव नदी पुल का अधूरा काम शुरू करने के लिए 12 दिन से धरने में बैठे हैं। धरना स्थल पर बीजू सेतु योजना के सलाहकार रतिकान्त पारीचा पहुंचे। विभिन्न सामाजिक संगठनों और विधायकों ने इस मांग का समर्थन किया है। इस बीच विभिन्न प्रकार के विरोध वरुचु जलसत्याग्रह और मुख्यमंत्री को पत्र लिखने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जहरीलका समेत गांव के 555 लोगों ने पुल को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। भूधरधर सेतु बीजू सेतु योजना के सलाहकार रतिकान्त पारीचा ने सारी समस्याओं से अवगत होकर जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने का वादा किया।



**atom美**  
ATOMY  
INDIA  
RANCHI TEAM  
WARRIOR CENTRE  
4th Floor, Shop No. 23, 23, 24  
Ranchi Road, Ranchi - 834001  
Main Road, Ranchi - 834001  
Mob. 93334435776

# आपदा को अवसर में बदलकर यात्रियों को ब्लैकमेल किए ऑटो चालक

50 किलोमीटर का एक हजार रुपये तक लिए किराया

**बक्सर**। रघुनाथपुर रेल हादसे में जो यात्री हादसे का शिकार हुए और गंतव्य तक जा नहीं पाए या बीच में ही फंस गए। उन यात्रियों को ऑटो वालों ने ब्लैकमेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। रघुनाथपुर से आरा आने के लिए महज 50 किलोमीटर की दूरी पर एक हजार रुपये तक किराया वसूलें। यात्री बेबस, लाचार बीच मंझधार में फंसे थे। उन्हें किसी ऐसे जगह जाना ही था, जहाँ से उनके मॉजिल तक जाने के लिए ट्रेन मिल जाए। ऐसे में सभी

पीड़ित यात्रियों को लोग यही सुझाव दे रहे थे कि आरा स्टेशन चले जाएँ, वहाँ से आपको आगे जाने के लिए कोई न कोई व्यवस्था करा दिया जायगा। ऐसे में यात्री जब इस आपदा से बाहर निकले तो ऑटो ही एक सहारा था, जिससे वो आरा तक पहुंच सकते थे। लेकिन ऑटो वाले मनमाना किराया वसूलने में जुट गए। नार्थ ईस्ट ट्रेन में सवार जीतन शर्मा ने बताया, हमको किरानगंज जाना था। लेकिन बीच में ये हादसा हो



गया तो ऑटो से आरा स्टेशन तक आए। मेरे साथ तीन और लोग थे,

हमसे ऑटो वाले ने एक हजार रुपया किराया लिया तो आरा स्टेशन तक पहुंचाया। अब आगे जाने के लिए रात से ही ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। रघुनाथपुर के बाद आरा ही बड़ा स्टेशन है, जिसके वजह से हजारों यात्री और यात्रियों के शुभचिंतक जैसे-तैसे आरा स्टेशन पर पहुंचे। लेकिन आरा स्टेशन पर यात्रियों के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की गई थी। हादसा लगभग नौ बजे हुआ। जैसे-तैसे यात्री 12 बजे रात

से ही आरा स्टेशन पहुंचने लगे और सुबह तक 500 से ज्यादा यात्री आरा स्टेशन पर थे। किसी को किरानगंज जाना था, किसी को पटना, जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी इत्यादि जगहों पर जाना है। लेकिन आरा स्टेशन पर कोई खास व्यवस्था नहीं हुई। हालांकि, कुछ ट्रेन सासाराम रूट से डाइवर्ट होकर आरा स्टेशन आई, जिसमें तेजस, लोकमान्य तिलक, कैपिटल एक्सप्रेस और दो पैसंजर ट्रेन को आरा से खोला गया।

## संक्षिप्त डायरी

**रोहिणी ने सम्राट पर साधा निशाना, कहा- मुरेड्डा बांध लेने से कोई झूठा लबार बेदाग नहीं हो जाता**



**पटना**। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कैसर वाले बयान के बाद अब इस जंग में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी भी अपने पिता के पक्ष से कूद पड़ी है। उसने एक्स के माध्यम से सम्राट चौधरी पर जुबानी हमला किया है। सम्राट चौधरी ने बयान देने के क्रम में बिना नाम लिए लालू प्रसाद यादव को कैसर से संबोधित करने के बाद अब चोर कह दिया। इस बात से बौखला कर लालू प्रसाद यादव की बेटी ने सम्राट चौधरी पर पलटवार करते हुए कहा कि मुरेड्डा बांध लेने से कोई झूठा लबार बेदाग नहीं हो जाता है, और न ही उसकी पृष्ठभूमि बेदाग और साफ हो जाती है। रोहिणी आचार्या ने कहा कि गरीब वंचित पिछड़े शोषित समाज को बहुजन के भेष में छिपे इन जैसे मनुवादी लोगों से सतर्क रहना होगा क्योंकि सत्ता के ये ऐसे भूखे भंडिये हैं जो ईमान को तब तक निलाम करते रहते हैं जब तक इनके स्वार्थी की पूर्ति होती रहे। उन्होंने कहा कि जो ईमान खुद अपनी जमीर की नीलामी की बोली लगाकर बहुजन समाज के हितों पे कुठराघात करने वाली पार्टी का चरण पादुका बना हुआ हो तो फिर वो भला कैसे लव-कुश समाज के हितों का शुभचिंतक हो सकता है। मीडिया से बात करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं चोर का बेटा नहीं, फौजी का बेटा हूँ, जो चोर का बेटा हो वो डरे। इसके जवाब में रोहिणी ने एक्स पर जवाब दिया है कि उसके बाप के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है कि वह सेना का भगोड़ा था और भागने के पश्चात कोर्ट - मार्शल से बचने के लिए उसने अपनी पहचान छुपाई थी। उसने कागजी तौर पर अपना असली अस्तित्व ही मिटा दिया था।

**प्रिंसिपल पर छेड़खानी का आरोप लगाकर ग्रामीणों-छात्रों ने स्कूल परिसर में किया हंगामा और तोड़फोड़**



**बेगूसराय**। मुफरिसल थाना क्षेत्र उत्कर्मित माध्यमिक विद्यालय भरां के छात्रों का आरोप है कि प्रधानाध्यापक छात्रों के साथ बराबर छेड़छाड़ करते रहते थे। इसके लेकर छात्रों ने कई बार विरोध भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानाध्यापक अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। छात्रों ने इसकी शिकायत अपने परिजनों से किया। इसी से नाराज ग्रामीण एवं छात्रों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल प्रधानाध्यापक सिक्ंदर पासवान के द्वारा आठवीं क्लास की छात्रा के साथ गलत हरकत करता था। छात्रों के द्वारा प्रधानाध्यापक के द्वारा गलत हरकत का विरोध करते रहता था। लेकिन इसके बावजूद भी वह मानते नहीं थे। छात्र के साथ गलत हरकत करने से बाज नहीं आ रहे थे। जब इस घटना की सूचना ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीण आक्रोशित होकर स्कूल पहुंचकर स्कूल के खिलाफ जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। वहीं, इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने मुफरिसल थाना पुलिस को दी। मौके पर मुफरिसल थाने के पुलिस पहुंचकर आरोपी प्रधानाध्यापक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल, स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी हुई है।

**पुराने विवाद को लेकर मारपीट, इलाज के दौरान पिता की मौत**

**बेतिया**। पूर्व के विवाद को लेकर दबंगों ने पिता-पुत्र को मारपीट कर घायल कर दिया है। वहीं पिता की मौत इलाज के दौरान हो गई है। जबकि पुत्र की स्थिति नाजुक बनी हुई है। मामला नौतन थाना क्षेत्र के दक्षिण तेलुवा पोखरा चौक की है। वहीं, मृतक मदन सहनी के 60 वर्ष के पुत्र नितेश सहनी थे। जबकि घायल पुत्र नीतीश कुमार है, जिसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार, पूर्व के विवाद को लेकर पोखरा चौक पर घायल नितेश सहनी तथा एक महिला अनार देवी के बीच बच्चों के विवाद को बकझक हो रही थी। हालांकि, दोनों पक्षों के बीच पहले से आपसी रंजिश थी। बकझक होते-होते मामला इतना आगे बढ़ गया कि काफी संख्या में लोग दोनों तरफ से एकत्रित हो गए और देखते-देखते मामला मारपीट में तब्दील हो गया। मारपीट के दौरान दबंगों ने मदन सहनी और उसके बेटे नितेश सहनी पर हमला बोल दिया और दोनों पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन-फानन में लोगों के द्वारा मदन सहनी को पीएचसी पहुंचाया गया। जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं, गंभीर स्थिति में घायल नितेश कुमार का इलाज जीएमसीएच बेतिया में चल रहा है। मामले को लेकर गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नौतन पुलिस कैंप कर रही है। इधर थानाध्यक्ष खालिद अख्तर ने बताया कि मामला अभी नियंत्रण में है। पुलिस गांव में कैंप कर रही है। पुलिस मामले को छानबीन में जुटी हुई है।

**कमरे में फंदे से लटकी मिली छात्र की लाश, परीक्षा की तैयारी करता था**



**गया**। शहर में किराए के मकान में रहकर प्रतिवोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र की पंखे से झूलती हुई लाश मिली है। आशंका है कि उसने आत्महत्या कर ली। उसके कमरे का गेट अंदर से बंद था। मामला शहर के विष्णुपद थाना क्षेत्र के मंगलागौरी गोदावरी मुहल्ले की है। बताया जाता है कि मृतक 24 वर्षीय अभिनय शर्मा किराये के मकान में रहकर प्रतिवोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था। गुरुवार को उसके कमरे का दरवाजा सुबह से शाम तक बंद पाया। युवक अपने भाई के साथ रहता था। किसी काम से भाई बाहर गया हुआ था। भाई के बार-बार कॉल कर रहा था, लेकिन जब फोन नहीं उठाया तो भाई ने पड़ोसी को जाकर देखने की आग्रह किया। भाई के कहने पर आस-पास के पड़ोसियों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होने के वजह से नहीं खुला। थोड़ी देर बाद लोगों ने दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाया।

**जिस ट्रेक पर नॉर्थ-ईस्ट एक्सप्रेस का हादसा, वहां की अब तक मरम्मत नहीं, अप लाइन पर परिचालन शुरू**

**बक्सर**। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और पटना रेलखंड पर बक्सर के रघुनाथपुर के पास जिस ट्रेक (डाउनलाइन) पर नॉर्थ-ईस्ट एक्सप्रेस बेपटरी हो गई थी, उस ट्रेक की मरम्मत अब तक नहीं हो पाई है। हालांकि, अप लाइन बन चुकी है। इसमें परिचालन भी शुरू हो चुकी है। रेलवे की ओर से कहा गया है कि दानपुर मंडल के रघुनाथपुर में पुनर्बहाली कार्य करते हुए आज प्रातः 08.10 बजे अप लाइन को परिचालन हेतु फिट कर दिया गया है। 13209 पटना-डीडीयू एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग के बदले अब अपने नियमित मार्ग से



जाएगी। रेलवे का कहना है कि डाउन लाइन पर पुनर्बहाली कार्य युद्धस्तर पर जारी है। रेलवे की टीम डाउनलाइन को ठीक करने की कोशिश में जुटी हुई है। यह हादसा बुधवार रात 9:35 बजे हुई थी। गुरुवार को इस अप और डाउन

क्रैक आने की वजह से यह हादसा हुआ। रेलवे सूत्रों की मानें तो जिस ट्रेक पर हादसा हुआ, उसे पूरी तरह से क्लियर करने में 2 दिन का समय लग सकता है। सवा तीन से अधिक रेलवे कर्मचारी ट्रेक क्लियर करने में जुटे हैं। बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के पास बुधवार रात 12:50 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के बेपटरी हो गई थी। ट्रेन की सभी 24 बोगियां बेपटरी हो गई थीं। इनमें से आठ बोगियां पूरी तरह से गिर गई थीं। इन आठ में से दो बोगियां एक-दूसरे से टकराते हुए ढलान से नीचे गिर गईं। हादसे में मां-बेटी समेत चार की मौत हो गई थी।

**बच्ची की नहाने के दौरान तालाब में डूबकर मौत**



**जमुई**। सिक्ंदरा थाना क्षेत्र के कुमार गांव स्थित तालाब में गुरुवार को नहाने के दौरान एक 12 वर्षीय बच्ची डूब गई। बच्ची की तालाब में डूबने की सूचना मिलते ही तालाब के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई और स्थानीय लोगों के द्वारा तालाब से बच्ची को निकाला गया। लेकिन तब तक बच्ची दम तोड़ चुकी थी। मृतक बच्ची की पहचान कुमार गांव निवासी विकास कुमार की 12 वर्षीय पुत्री राजनंदनी के रूप में की गई है।

लोग शोर मचाने की आवाज सुनकर तालाब की ओर भागे और तालाब में कूद कर बच्ची को बचाने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन बच्ची ने तब तक दम तोड़ चुकी थी। वहीं बच्ची के परिजन व स्थानीय लोगों के द्वारा बच्ची को इलाज के लिए पास के ही एक निजी क्लिनिक में लाया गया। जहाँ जांचोपरांत डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, बच्ची की मौत की जानकारी के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इधर, घटना की जानकारी के बाद सिक्ंदरा थानाध्यक्ष विजय कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। साथ ही मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना को लेकर जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि नहाने के दौरान तालाब में एक 12 वर्षीय बच्ची की डूबने से मौत हुई है। फिलहाल, मामले की जांच की जा रही है।

**गया में पुलिस पर बालू माफियाओं का हमला**

**दारोगा समेत दो जवान घायल, एफआईआर दर्ज**



**गया**। बालू के अवैध खनन की सूचना पर कार्रवाई करने गईं मेन थाना की पुलिस पर बालू माफियाओं द्वारा हमला कर दिया गया। पुलिस टीम और बालू माफियाओं के बीच हुई झड़प में एक पुलिस अधिकारी और एक सैप का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी सूचना के बाद घटना स्थल पर पहुंची मेन, पाई बिगहा और बेलागंज थाना की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कोइरी बिगहा गांव में छापेमारी कर दो ट्रैक्टर को जब्त किया है। वहीं,

पुलिस की भनक लगते ही बालू माफिया और उसके गुर्गे फरार हो गए। इधर, झड़प में घायल पुलिसकर्मियों को सीएचसी बेलागंज में इलाज कराया जा रहा है। घटना के संबंध में मेन थानाध्यक्ष कौशलेंद्र कुमार ने बताया कि बुधवार दोपहर गुप्त सूचना मिली थी कि मोरहर नदी में थाना क्षेत्र के कोइरी बिगहा गांव के समीप बालू माफियाओं द्वारा अवैध बालू का खनन कर कई ट्रैक्टर से बालू का उठाव किया जा रहा है। सूचना के

बाद एसआई पारस शाह के नेतृत्व में पुलिस बल के जवान चिन्हित स्थल पर पहुंचे। वहाँ आधा दर्जन से अधिक ट्रैक्टर से बालू का खनन किया जा रहा था। पुलिस को देख सभी ट्रैक्टर चालक भागने लगे, जिसमें से एक ट्रैक्टर को पुलिस ने जब्त कर लिया और थाना लेकर जा रही थी।

उसी दौरान ट्रैक्टर पकड़े जाने की सूचना के बाद बड़ी संख्या में बालू माफिया और उसके गुर्गे द्वारा पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया और पुलिस से जबरन ट्रैक्टर छुड़ाकर ले भागे। पुलिस हुए हमले में थाना में पदस्थापित एसआई पारस शाह और सैप का जवान सुरेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज सीएचसी बेलागंज में कराया जा रहा है। वहीं, पुलिस पर हुए हमले और झड़प के बाद मेन थानाध्यक्ष कौशलेंद्र कुमार के नेतृत्व में मेन, पाई बिगहा और बेलागंज थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कोइरी बिगहा गांव में छापेमारी कर दो ट्रैक्टर को जब्त किया है।



# यूपी में बेरोजगारी दर घटकर हुई 2.6 फीसदी

2017-18 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर थी 6.1, 2022-23 में हुई 3.4 फीसदी : 2017-18 में यूपी में बेरोजगारी दर 6.4 फीसदी थी

**संवाददाता**  
**लखनऊ**। उत्तर प्रदेश ने समाज के हर वर्ग को रोजगार प्रदान करने में अभूतपूर्व प्रगति की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में साढ़े छह वर्ष में छह लाख से अधिक सरकारी नौकरियाँ प्रदान कर यूपी के युवाओं को सशक्त किया गया है। मिशन रोजगार के तहत कार्य कर रही योगी सरकार निरंतर युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रही है। आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 6.1 फीसदी थी, जो 2022-23 में घटकर 3.4 फीसदी हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बेरोजगारी दर कम

करने में राज्य ने अच्छा प्रदर्शन किया है। 2017-18 में यूपी में बेरोजगारी दर 6.4 फीसदी थी, जो 2022-23 से घटकर 2.6 फीसदी हो गई है। इन आंकड़ों को देखें तो योगी सरकार द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चलाया जा रहा मिशन रोजगार अभियान प्रदेश में सफल रहा है। इसके जरिए गत साढ़े छह वर्ष में प्रदेश सरकार छह लाख युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ी है। यही नहीं सरकार के प्रयासों का नतीजा रहा है कि प्रदेश में निजी क्षेत्र में भी निवेश बढ़ा है और नई नौकरियाँ एवं रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। इससे उत्तर प्रदेश में 2017-18 के सापेक्ष 2022-23 में बेरोजगारी



दर में 3.8 फीसदी की कमी आई है। निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा निरंतर युवाओं को नियुक्ति पत्र

दिया गया। अक्टूबर में ही 394 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट व उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा चयनित 219 प्रधानाचार्य को सीएम ने नियुक्ति पत्र दिया। वहीं 9 जून को 7182 एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, 10 जून को एसजीपीजीआई में नवचयनित 1442 स्टॉफ नर्सों, 17 जून को 102 उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र व 232 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। 6 जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 1148 पदों पर नियुक्ति पत्र, 8 जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कुशल खिलाड़ी कोर्ट में चयनित 227 आरक्षियों को नियुक्ति

पत्र दिया गया। 13 जुलाई को 199 समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (सचिवालय प्रशासन विभाग), 183 कनिष्ठ सहायक (परिवहन विभाग) एवं 128 कनिष्ठ सहायक (निर्वाचन विभाग) समेत कुल 510 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। 15 जुलाई को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 400 नवचयनित, 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा नवचयनित 1573 एएनएम को नियुक्ति पत्र व 20 जुलाई को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 700 नवचयनित अर्थव्यवस्था को नियुक्ति पत्र सीएम योगी ने दिया।

## संक्षिप्त डायरी

**त्यूहार के दृष्टिगत कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस बल कर रहे गश्त**



**संवाददाता**  
**कुशीनगर**। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन में शुक्रवार को आगामी त्यूहार के दृष्टिगत जनपद में चाक-चौबन्द सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था तथा बालिका/महिला सुरक्षा हेतु जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी द्वारा पुलिस बल के साथ सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए साव्य पैदल गश्त किया जा रहा है। पैदल गश्त के दौरान प्रमुख मार्गों, चौराहों, बाजारों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि पर सतर्क व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई। पैदल गस्त के दौरान आम जन को आश्वस्त कराया जा रहा है कि जनपद कुशीनगर पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है तथा जनपद में ड्रोन कैमरे से सतत/कड़ी निगरानी की जा रही है।

**पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजनांतर्गत समय सारिणी में हुआ बदलाव**

**संवाददाता**  
**कुशीनगर**। जिला समाज कल्याण अधिकारी विनय कुमार ने शासन द्वारा दिये गए निर्देश के क्रम में बताया कि शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) योजनांतर्गत आनलाइन आवेदन से लेकर प्रस्तावित समय सारिणी हेतु शासनादेश निर्गत किये गए हैं। उन्होंने नवीन निर्गत समय सारिणी के क्रम में बताया कि इसके अंतर्गत सम्बन्धित विद्यालयों द्वारा मास्टर डाटा 07 अगस्त से 30 सितम्बर 2023 के बीच तैयार किया जाना था, जिसे अब 06 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2023 तक समयावधि प्रस्तावित की गई है। एवं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापन 08 अगस्त से 05 अक्टूबर 2023 तक था, जिसे अब 09 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2023 तक कि अवधि प्रस्तावित की गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जनपद में संचालित समस्त पूर्वदशम् स्तर के शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों/छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को अवगत कराया है कि शासन द्वारा जारी समय- सारिणी के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु छात्रवृत्ति योजना का प्रचार-प्रसार कराते हुए सुसंगत शासनादेशों / छात्रवृत्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन ससमय करना सुनिश्चित करें।

**शराब के लिए सौ रुपये मांगे, न देने पर मजदूर का सिर फोड़ा, रिपोर्ट दर्ज**

**बरेली**। मजदूर से एक शराबी ने शराब पीने के लिए सौ रुपये मांगे। विरोध करने पर उसने मजदूर के सिर पर ईंट मार दी, जिससे वह घायल हो गया। घायल मजदूर की पत्नी ने बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामला दो समुदाय से जुड़ा होने से तत्परता से कार्रवाई की गई। बारादरी थाना क्षेत्र के हजियापुर निवासी इस्लाम मजदूर करता है। वह बुधवार को मजदूरी कर घर लौट रहा था। रास्ते में पड़ोसी बालकराम ने उसे घेर लिया। उसने शराब पीने के लिए रुपये मांगे। इस्लाम ने इनकार कर दिया। विरोध करने पर बालकराम ने ईंट से उसके सिर पर प्रहार कर दिया। घायल की पत्नी कमर जहाँ के मुताबिक इस्लाम लहलुहान हालत में सड़क पर पड़ा था। कमर जहाँ उसे लेकर थाने गई तो वहाँ से पुलिस के साथ जिला अस्पताल भेज दिया गया। होश में आने पर इस्लाम ने बताया कि वह मजदूरी कर घर लौट रहा था तभी रास्ते में बालकराम मिल गया। उसने शराब पीने के लिए सौ रुपये मांगे। मना करने पर बालकराम ने सिर पर ईंट मार दी, जिससे उसका सिर फट गया। घायल की पत्नी ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को तलाश शुरू कर दी है।



**माटी मेरा देश अभियान के तहत निकली अमृत कलश यात्रा**



**संवाददाता**  
**कसया, कुशीनगर**। नगर पंचायत फाजिलनगर जूनियर हाईस्कूल प्रांगण में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें फाजिलनगर नगर पंचायत के 15 वार्डों से एकत्रित के अमृत कलश को गाजे बाजे के साथ जिला मुख्यालय पर भेजा गया। जिसे बाद में देश की राजधानी दिल्ली भेजा जाएगा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी कुशीनगर के निवर्तमान जिलाध्यक्ष डॉ प्रेमचंद मिश्र ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार के नेतृत्व में माटी को नमन व वीरों का अभिनंदन करने का काम किया जा रहा है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने एक भारत, श्रेष्ठ भारत का भावना के तहत राष्ट्रीय राजधानी में तथा 7,500 गांवों में स्वदेशी और स्थानीय पौधों का एक एक उद्यान ह्यअमृत वाटिका बनाने की योजना तैयार की है। मेरी माटी, मेरा देश अभियान में देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले बहादुरों और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए ग्राम पंचायतों में स्मारक पट्टिकाएं ह्यशिलाफलकमह भी स्थापित की जाएगी। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ प्रेमचंद मिश्र ने उपस्थित सभी लोगों को पंच प्रण की शपथ दिलाई। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष शत्रुघ्न शर्मा भी श्याम पांडेय फटेहरवा मंडल अध्यक्ष श्रीनिवास राय, राणा किशोर, जनार्दन दुबे, राजेश दुबे, मंशा पांडेयवामनरेश दुबे दुर्गा सिंह, अशोक यादव आदि मौजूद रहे।

**धमकाने के मामले में मुकदमा दर्ज**

**संवाददाता**  
**कसया, कुशीनगर**। चौराखास थाना क्षेत्र के नदवा विधुनगर निवासी एक व्यक्ति की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही में जुटी है। ग्रामवासी मुस्ताक अहमद ने पुलिस को दिये तहरीर में बताया है कि मेरे खेत में आम का पेड़ है जो सूख गया है उसको कटवाने के लिए मैंने एक मजदूर भेजा था जिसे मेरे गांव निवासी फरहद अली ने पेड़ काटने से मना कर दिया। मैंने उससे इसका कारण पूछा तो वह मुझे गाली देने लगे जब मैं गाली देने से मना किया तो मुझे मारने लगे के लिए दौड़ लिए। मैं वहाँ से किसी तरह भाग कर अपना जान बचाया। इस सम्बंध में थानाध्यक्ष चंद्रभूषण प्रजापति ने बताया कि तहरीर के आधार पर मारपीट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अन्य विधिक कार्रवाई किया जा रहा है।

**पानी के मोटर में करंट उतरने से महिला की मौत**

**संवाददाता**  
**कसया, कुशीनगर**। नगरपालिका परिषद के वार्ड नम्बर 17 मणिपुरम में शुक्रवार दिन पानी के मोटर में विद्युत करंट उतर गया जिसके चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार कसया नगर के वार्ड नंबर 17 मणिपुरम (परसोनी खुर्द गिरी टोला) निवासी अभिषेक कुशवाहा के घर में मोटर चल रहा था जिसमें विद्युत करंट उतर गया था। उनकी पत्नी नेहा देवी (32) ने उसके चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई। परिजन आनन फानन में जिला अस्पताल ले गए जहाँ डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। खबर लिखे जाने तक परिजन महिला के शव को घर लाकर अंतिम संस्कार में जुटे रहे।



**फ्लाई ओवर से निचे गिरने से हुई युवक की मौत**

**संवाददाता**  
**हापुड़**। बहुत ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जहाँ गुरुवार की रात्रि करीब 9 बजे गढ़ रोड फ्लाई ओवर तीन युवक बाइक पर सवार थे। तीनों युवक नशे की हालत में रहते बाइक डिवाइडर से टकरा गई जिससे गाड़ी पर बैठा युवक अभिषेक अचानक डिवाइडर की चपेट में आकर पुल ने नीचे गिरा वहीं इवकी युवक को गिरा देख मोहल्ला सुभाष नगर के सामने लग रहे ठेले वालों में अफरा तफरी मच गई और पब्लिक का जाम वाडा लग गया। बतार्द की युवक के गिरने सूचना स्थानीय पुलिस थाना देहात को दी गई जहाँ पुलिस ने युवक के गिरने वाली जगह का मुआना किया। पुल से नीचे गिरने वाले युवक की शिनाखा अभिषेक पुत्र दामोदर निवासी न्यू भीम नगर के रूप में हुई। अभिषेक की उम्र लगभग 20 वर्ष बताई गई और उसे बैंक ऑफ बड़ोदा में कार्यरत बताया गया। जहाँ हाँसिस्टल देवन्दनी में अभिषेक को मृत घोषित कर दिया जबकि दूसरा अभिषेक गंभीर रूप से हुए घायल को मेरठ के लिए रेफर कर दिया। अभिषेक की मृत्यु की खबर सुनकर परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया।



**खोहिया में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अक्षत व मिट्टी एकत्रित किया**

**संवाददाता**  
**कसया, कुशीनगर**। विकास खन्ड के सिरसिया खोहिया में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत गांवों में भ्रमण कर अक्षत व मिट्टी एकत्रित किया गया। अभियान में महिला-पुरुष बड़ी संख्या में शामिल हुए और देश भक्ति से ओत-प्रोत नारा लगाए। कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने अपने मोबाइल से सेल्फी लेकर याद के लिए इसे संग्रहित कर लिया। इसके बाद कलश यात्रा गाजे-बाजे के साथ ब्लाक परिसर में आयोजित अमृत कलश संग्रह कार्यक्रम में शामिल हुआ। ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि अमरजीत यादव व ज्वाइंट



बीडीओ राकेश कुमार दीपक के नेतृत्व में ब्लाक के सभी गांव से एकत्र हुए कलश को लेकर नगर में

भ्रमण किया गया। इसके बाद सभी कलश को जिला मुख्यालय भेजा गया। प्रमुख प्रतिनिधि यादव ने कहा

**निखारा जाएगा महिलाओं का कौशल, मिलेगा रोजगार**

**संवाददाता**  
**लखनऊ**। योगी सरकार शारदीय नवरात्रि से शुरू हो रहे मिशन शक्ति के चौथे चरण में ग्रामीण और शहरी महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आजीविका गतिविधियों से जोड़ने पर फोकस करेगी। ग्रामीण महिलाओं और उनके परिवारों को जहाँ स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उनके आर्थिक स्वावलंबन को सुनिश्चित किया जाएगा तो शहरों में महिलाओं के कौशल को निखारकर उन्हें रोजगार से जोड़ने की पहल की जाएगी। उल्लेखनीय है कि शनिवार को सीएम योगी अपने सरकारी आवास से रैली को हरी झंडी दिखाकर मिशन शक्ति के चौथे चरण की शुरुआत करेंगे। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत ग्राम विकास विभाग शेष 8,97,380 परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर आजीविका गतिविधियों से जोड़ते हुए उनका सामाजिक एवं आर्थिक स्वावलंबन सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। वित्तीय वर्ष 23-24 की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार महिला सदस्यों



को वित्तीय समावेशन एवं आजीविका गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए कुल 2,20,000 स्वयं सहायता समूहों को रिवाँल्विंग फंड निर्गत किया जाएगा तो समूह की सदस्यों को वित्तीय समावेशन एवं आजीविका गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु कुल 1,05,000 स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि निर्गत की जाएगी। नगर विकास विभाग के अंतर्गत महिलाओं के कौशल को निखारने व स्वावलम्बन के लिए उनको सिलाई उत्पाद बनाना, हस्तकला, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री, मछली पालन, पाककला आदि की जानकारी देकर प्रशिक्षण दिया

जाएगा। विधवा, अबला, परित्यक्ता व निराश्रित महिलाओं की पहचान करके समाजसेवियों की मदद से रोजगार दिलवाने का प्रयास होगा। महिला चिकित्सा शिविर का आयोजन और आयुष्मान योजना की जानकारी देना भी अभियान में शामिल होगा। निकाय कार्यालय के विभिन्न संवर्गों जैसे राजस्व अभियंत्रण, अधिष्ठान, तकनीकी, सफाई, चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों आदि में से 09 कार्यरत महिलाओं को "नवशक्ति सम्मान" से सम्मानित किया जाएगा। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 58,189 ग्राम पंचायतों, 826 क्षेत्र पंचायतों एवं 75 जिला पंचायतों में महिला मुद्दों एवं सुरक्षा को केन्द्रित करते हुए बैठकों का

आयोजन किया जाएगा। बालिका जन्म का अनुश्रवण निगरानी समिति के माध्यम से कराते हुए सीआरएस पोर्टल पर शत-प्रतिशत बालिका जन्म पंजीकरण कराना कर सुनिश्चित किया जाएगा। नगर विकास विभाग के तहत संचारी रोगों व दिमागी बुखार के रोकथाम हेतु साफ सफाई, हाथ धोना, शौचालय की सफाई आदि सावधानी बरतने, शुद्ध पेयजल के महत्व को भी बताया जाएगा। साथ ही, कचरा मुक्त शहर अभियान के अंतर्गत स्वच्छता के क्षेत्र में उकृष्ट कार्य करने वाली बालिकाओं, किशोरियों, महिलाओं को प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत किया जाएगा। शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या सुमंगला योजना, सान्पूर्ण योजना, जननी सुरक्षा योजना, आमातकाल हेल्प लाईन नं0 जैसे-1098, 1090, 112 का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। निकाय में सेल्फी व्वाइंट बनाकर मिशन शक्ति के लोगो का प्रदर्शन करते हुए गुलाबी विचार पेटिका रख कर महिला सर्किलकरण से संबंधित अनुभव, सुझाव, विचार सम्बोधन आदि संकलित किए जाएंगे।

**अमेठी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता-2023 के पुरस्कार वितरण में शामिल हुए सीएम योगी**

**सीएम ने 700 करोड़ की 879 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास**

**संवाददाता**  
**लखनऊ/अमेठी**। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एशियन गेम्स में भारत की शक्ति व सामर्थ्य का प्रदर्शन चीन में हुआ है। प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन स्वरूप यहाँ पहली बार भारतीय खिलाड़ियों ने सेंचुरी पार कर 107 मेडल जीते। इसमें देश के लिए 25 फीसदी मेडल यूपी के खिलाड़ियों ने जीते। यूपी की खिलाड़ी एथलेटिक्स में पहले चीन से पीछे चल रही थी, लेकिन अंतिम 30 सेकेंड में उसने पासा पलट दिया। जब उससे पूछा गया तो अंतिम समय में कैसे बाजी मारी तो उसने कहा कि प्रधानमंत्री जी का प्रोत्साहन- यूपी सरकार द्वारा खिलाड़ियों के लिए किए जा रहे कार्यक्रम। डिप्टी एसपी की नौकरी प्राप्त करनी है, इसलिए गोल्ड मेडल आवश्यक था। स्वर्ण पदक पाने वाले खिलाड़ियों को राज्य की तरफ से तीन-तीन करोड़ व डिप्टी एसपी का पद अभी से तैयार बैठा है। जब कहेंगे तो नियुक्ति पत्र जारी



कर देंगे। सीएम योगी शुक्रवार को अमेठी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता-2023 के पुरस्कार वितरण में शामिल हुए। उन्होंने यहाँ बटन दबाकर 700 करोड़ की 879 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। भव्य आयोजन के लिए सीएम ने सांसद स्मृति ईरानी और प्रतिभाग के लिए 1.11 लाख खिलाड़ियों को बधाई दी। सीएम ने कहा कि अमेठी संसदीय क्षेत्र में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता रोचक व प्रभावी रही है। सीएम ने कहा कि ऐसे आयोजन आज से पहले सपना हुआ करते थे। प्रधानमंत्री जी ने खेले इंडिया खेले की बात कहकर देश के खिलाड़ियों व प्रत्येक युवाओं का फिट रहने के लिए आह्वान किया था। देश में खेलकूद प्रतियोगिताएं बढ़ती गईं। यही सिलसिला फिट इंडिया मूवेंट के माध्यम से बढ़ता है। तीसरे संस्करण के रूप में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन यह नया अनुभव था।

भारत की प्रतिभा को वैश्विक मंच तक पहुंचाना है। यदि हम सब पूरी मजबूती से कार्य करेंगे तो कोई कारण नहीं कि आज हमारे गांव के प्रतिभागी स्कूल-कॉलेज से स्थान बना रहे हैं तो एक दिन अमेठी के भी खिलाड़ी एशियन-कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप में जाएंगे और स्थान प्राप्त कर जनपद-प्रदेश-देश का नाम बढ़ाएंगे। सुधा सिंह ने ओलंपिक में मेडल जीतकर प्रदेश व देश का गौरव बढ़ाया। सीएम ने कहा कि अमेठी को 30 वर्षों से जान रहा हूँ। 2019 से पहले सांसद के दर्शन नहीं होते थे। इससे पहले चुने

सांसद सिर्फ चुनाव में दर्शन देने आते थे। आपने स्मृति ईरानी को सांसद चुना तो वह सप्ताह-दस दिन में कोई न कोई सोगात लेकर अमेठी आती हैं। अमेठी आज नए रूप में पहचान बना रहा है। कोई सोचता था कि अमेठी में भी मैडिकल कॉलेज होगा। इसका निर्माण हो रहा है। डबल कॉलेज की सरकार में अमेठी के विकास में कोई बाधा नहीं है। जो भी आवश्यकता पड़ेगी, उसे बढ़ाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। सीएम ने कहा कि सांसद सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर अभी नया कार्यक्रम आने वाला है। गांव-गांव में कलाकार व संस्कृतिकर्मी जुड़ा है। आपकी सांसद को इस क्षेत्र की विशेषज्ञ हैं। सांस्कृतिक आयोजन यहाँ की सकारात्मकता को नई ऊंचाई देगा। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में सांसद सांस्कृतिक आयोजन से जुड़कर मुख्य समारोह में अपना आशीर्वाद दिया। वहाँ गायन, वादन, नृत्य, नाट्य आदि

विधाओं के साथ प्रतिभागियों ने आयोजन से जुड़कर लोक परंपरा, लोक संस्कृति, लोकगायन, वादन को आगे बढ़ाया था। यह काफी बेहतरीन संवाद था। सीएम ने कहा कि नई प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की आवश्यकता है। शादी-विवाह में माताएं-बहनें लोकपरंपरा के अनुसार गायन करती हैं। पूर्व-त्यूहारों के समय भी गांवों में विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। इन्हें आगे बढ़ाने से मंच मिलेगा तो डबल इंजन की सरकार सहभागी बनकर उसे प्रोत्साहन व सहयोग करेगी। आज के कार्यक्रम का संदेश है कि लोग खेलकूद के कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं। भारत सरकार की मदद से हर जनपद में स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित करने के कार्यक्रम से जुड़ने से हमें लाभ होगा। अनेक कार्यक्रमों से जोड़कर युवाओं को प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, जिससे वह प्रदेश-देश व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं।

## बचाव की कोशिश

दुनिया में शायद ही कोई संघर्ष ऐसा होगा, जिसका असर भारतीयों पर न पड़ता हो। पिछले वर्ष के शुरू में भारत ने अपने लगभग 18,000 छात्रों को यूक्रेन से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया था और अब इजरायल से लोगों को निकालने के लिए सरकार ने ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, पहली खेप में लगभग 230 लोग को वापस लाने की सूचना है। भारतीयों की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायली प्रधानमंत्री से बात हुई थी और सुरक्षा का आश्वासन मिला था। फिर भी जिस तेजी से पश्चिम एशिया में स्थितियां बिगड़ रही हैं, उसे देखते हुए भारतीयों का यहां निकल आना ही बेहतर है। इजरायल का पूरा इलाका अब संकटग्रस्त हो गया है और आने वाले दिनों में मुमकिन है कि वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल भारतीयों की वापसी के लिए करना पड़े। इजरायल भी भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, लेकिन फिलहाल उसका ज्यादा ध्यान अपने दुश्मनों से बदला लेने पर है। ऐसे में, इजरायल भी खतरे में है, हजार से ज्यादा लोग इजरायल में ही जान गंवा चुके हैं। ध्यान रहे, एक-एक भारतीयों की जान कीमती है और भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी ही चाहिए।

यह पश्चिम एशिया के संघर्ष का सबसे दुःखद पहलू है कि यहां निर्दोष लोगों को भी निशाना बनाया जाता है। सांप्रदायिक आधार पर दोनों पक्ष युद्ध करते हैं, मगर दोनों में से कोई पक्ष अपने संप्रदाय के सद्भावी सदस्यों से सबक नहीं लेता है। ऐसे में, भारत ही नहीं, दूसरे देशों के नागरिकों भी मदद करनी चाहिए। भारत सरकार ने रूस-यूक्रेन युद्ध के समय भी ऐसा किया था। ऐसा नहीं है कि भारत अपने सभी नागरिकों को इजरायल से वापस ले आएगा, जो भी नागरिक वहां से लौटना चाहते हैं, लौट सकते हैं। करीब 20,000 भारतीय इजरायल में रहते हैं और यह अच्छी बात है कि अभी तक सभी सुरक्षित हैं। इजरायल भी ऐसी खुली लड़ाई में कूद पड़ा है, जिसमें उसे बदला लेने की ज्यादा चिंता है और नागरिकों की परवाह अथेक्षाकृत कम है। ध्यान देने की बात है कि इजरायल ने सीरिया और लेबनान में भी कुछ टिकाकों को निशाना बनाया है। भारत सरकार को केवल इजरायल में रह रहे भारतीयों की ही नहीं, बल्कि लेबनान में रह रहे करीब 8,000, जॉर्डन में रह रहे 20,000 और मिस्र में रह रहे 4,000 भारतीयों के बारे में भी फिक्रमंद होना चाहिए। युद्ध ज्यादा भड़का, तो कतर तक उसकी आंच पहुंच सकती है और कतर में 75 हजार से ज्यादा भारतीय रहते हैं। खबर है कि इजरायल ने दमिश्क और अलेपो हवाई अड्डों को निशाना बनाया। इन हवाई अड्डों से उड़ानें रोकनी पड़ी हैं। युद्ध को और भड़कने से रोकना जरूरी है, ताकि लोगों को अपना कामकाज या घर-बार छोड़कर भागना न पड़े। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटीनी ब्लिंकन अगर इजरायल पहुंचेंगे, तो उन्हें शांति-स्थापना के लिए प्रयास करने चाहिए। फलस्तीन या हमारा देश में खड़े हो रहे अरब देशों को भी शांति के लिए प्रयास करने चाहिए। युद्ध को राजनीति या व्यवसाय का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। भारत को भी अपनी ओर से कोशिश करनी चाहिए कि यह युद्ध जल्दी से जल्दी शांत हो।

## मेडिकल-IIT की होड़

देश के एक प्रमुख कोचिंग हब के रूप में विकसित हो चुके राजस्थान के कोटा शहर में जिला प्रशासन के निर्देश पर कराए गए एक ताजा सर्वे ने इस बात की पुष्टि की है कि वहां बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स गंभीर अवसाद और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अन्य परेशानियों से जूझ रहे हैं। यह सर्वे इस साल अप्रैल से सितंबर महीने के बीच किया गया। ध्यान रहे, इसी अवधि में वहां से 19 स्टूडेंट्स की खुदकुशी की खबरें आईं। इन्हें जोड़ लिया जाए तो इस साल खुदकुशी करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 25 हो जाती है। स्टूडेंट्स की खुदकुशी की बढ़ती संख्या को देखते हुए ही जिला प्रशासन ने 2015 से इनका रेकॉर्ड रखना शुरू किया और उस समय से किसी भी एक साल में हुई यह सबसे ज्यादा खुदकुशी है। हालांकि यह सर्वे सम्पन्ना को मात्र समझने की नहीं बल्कि उभे यथासंभव हल करने की कोशिशों का हिस्सा है। सर्वे के दौरान 83 ऐसे स्टूडेंट्स मिले, जो सीवियर डिप्रेशन के शिकार थे। दो स्टूडेंट्स को तो खुदकुशी के कगार पर पाया गया। वे खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर चुके थे। इन सबको न केवल तत्काल काउंसिलिंग उपलब्ध करवाई गई बल्कि कोचिंग सेंटर और अभिभावकों को सूचित करके उन्हें राहत देने वाले आवश्यक कदम उठाए गए। इस तरह माना जा सकता है कि संभावित खुदकुशी के इन मामलों को समय रहते रोक लिया गया। लेकिन ये प्रयास काफी नहीं, यह बात इसी से स्पष्ट है कि जब यह सर्वे चल रहा था तब भी स्टूडेंट्स की खुदकुशी की खबरें आ रही हैं। और अज्ञेय यह अब तक खुदकुशी रोकने की अन्य कोशिशें भी साथ-साथ चल रही थीं। इनके तहत हॉस्टलों और पीजी सेंटर्स के कमरों में सिंगिंग वाले सीलिंग फैन लगाने और बालकनी में आत्महत्या-रोधी नेट लगवाने जैसे कदम उठाए गए। जैसा कि सर्वे रिपोर्ट से भी संकेत मिलता है, सम्पन्ना की जड़ कहीं और है। स्टूडेंट्स जब कोटा आते हैं तो शुरु के एक-दो महीने शहर में घूमते हैं और मस्ती में समय बिताते हैं। मामला बिगड़ता तब है जब कोचिंग की पढ़ाई अपनी पूरी रचानी पर आती है। रोज की पढ़ाई के साथ तालमेल न बिठा पाने और कॉम्पिटिशन में पीछे छूटने का एहसास घर-परिवार से दूर अकेले रह रहे इन टिनेजर्स के लिए भारी साबित होता है। कोटा में सम्पन्ना अपने सबसे गंभीर रूप में दिखती जरूर है, लेकिन इसका स्वरूप राष्ट्रीय है। आखिर सवा लाख सीटों के लिए 20-20 लाख स्टूडेंट्स अगर होड़ में रहेंगे, जैसा कि NEET में देखने को मिलता है, तो कॉम्पिटिशन के मारक स्वरूप का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।

### ANALYSIS



डॉ. मयंक चतुर्वेदी

मौजूदा हालत में भारतीय लोगों की सहायता के लिए इमरजेंसी नंबर जारी हुए हैं और भारतीय नागरिकों का भारत लौटना भी शुरू हो गया है। भारत लौटने वाले लोगों के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही है, जैसे कि अब वे सभी चिंताओं से मुक्त हो गए हैं। लैंड होते ही यात्रियों ने भारत माता की जय और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के भी नारे भी लगाए। भारत लौटी रांची की विनिता, उत्तराखण्ड के आरती जोशी, आयुष मेहरा हों या मनोज कुमार, स्वाति पटेल एवं अन्य भारतीय, सभी आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और भारत सरकार द्वारा उनकी फिक्र किए जाने के लिए हर्षित हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने यह स्पष्ट कहा भी है, "हमारी सरकार किसी भी भारतीय को कभी पीछे नहीं छोड़ेगी। हमारी सरकार, प्रधानमंत्री उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें सुरक्षित घर वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" वे यहां तक कहते हैं कि हम विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, विदेश मंत्रालय की टीम, एयर इंडिया के चालक दल के भी आभारी हैं जिन्होंने हमारे बच्चों को भारत लौटाना भी शुरू हो गया है। भारत की टोलियों में उतर प्रदेश से 36 खिलाड़ी थे। इनमें से छह अकेले मेरठ जिले से ही थे। उनमें से दो स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे। बेशक, एशियाई खेलों में उत्तर प्रदेश के एथलीटों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया। यह पहला मौका था जब उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को इतनी प्रशंसा मिली थी। उत्तर प्रदेश की खेल राजधानी मेरठ जिले के खिलाड़ियों ने सबसे चौंकाने वाली प्रदर्शन किया है। फारुल चौधरी मेरठ जिले की बेटी है। उन्होंने 5000 मीटर और 3000 मीटर स्टीपलचेज में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता। मेरठ के बहादुरपुर गांव की रहने वाली अनू रानी ने भाला फेंक में गोल्ड जीता। लंबी दूरी की दौड़ और गोला फेंक में क्रमशः कांस्य पदक हासिल करने वाले गुलवीर सिंह और किरण बालियान का भी मेरठ से नाता है। इन सभी ने अपने-अपने शहरों और जिलों में उपलब्ध

दुनिया में कहीं भी संकट आया हो, भारत सरकार ने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस स्वदेश लाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इजरायल में फंसे हजारों भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाने के लिये ऑपरेशन 'अजय' हम सभी के सामने है। केंद्र की मोदी सरकार यह कार्य ऐसे संकटकालीन समय में कर रही है जब हमारा से आतंकवादियों ने इजरायल में घुस कर आम नागरिकों, यहां तक कि बच्चों को भी हैवानियत के साथ कत्ल किया है। देखा जाए तो इजरायल में करीब 18 हजार भारतीय नागरिक काम या पढ़ाई के सिलसिले में रह रहे हैं। यहां रहने वाले भारतीयों का एक बड़ा हिस्सा देखभाल करने वालों के रूप में काम करता है, लेकिन वहां लगभग एक हजार छात्र, कई आईटी पेशेवर और हीरा व्यापारी भी हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने का सिलसिला मोदी सरकार ने शुरू किया है। मौजूदा हालत में भारतीय लोगों की सहायता के लिए इमरजेंसी नंबर जारी हुए हैं और भारतीय नागरिकों का भारत लौटना भी शुरू हो गया है। भारत की टोलियों में उतर प्रदेश से 36 खिलाड़ी थे। इनमें से छह अकेले मेरठ जिले से ही थे। उनमें से दो स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे। बेशक, एशियाई खेलों में उत्तर प्रदेश के एथलीटों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया। यह पहला मौका था जब उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को इतनी प्रशंसा मिली थी। उत्तर प्रदेश की खेल राजधानी मेरठ जिले के खिलाड़ियों ने सबसे चौंकाने वाली प्रदर्शन किया है। फारुल चौधरी मेरठ जिले की बेटी है। उन्होंने 5000 मीटर और 3000 मीटर स्टीपलचेज में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता। मेरठ के बहादुरपुर गांव की रहने वाली अनू रानी ने भाला फेंक में गोल्ड जीता। लंबी दूरी की दौड़ और गोला फेंक में क्रमशः कांस्य पदक हासिल करने वाले गुलवीर सिंह और किरण बालियान का भी मेरठ से नाता है। इन सभी ने अपने-अपने शहरों और जिलों में उपलब्ध

सरकार, प्रधानमंत्री उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें सुरक्षित घर वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" वे यहां तक कहते हैं कि हम विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, विदेश मंत्रालय की टीम, एयर इंडिया के चालक दल के भी आभारी हैं जिन्होंने हमारे बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ घर वापस लाया और उनके प्रियजनों के पास वापस पहुंचाया। वस्तुतः यह पहला अवसर नहीं है जब किसी विदेशी धरती से भारत अपने नागरिकों को संकटकालीन समय में सुरक्षित स्वदेश लेकर आया है। इससे पहले भी कई बड़े ऑपरेशन सफलता पूर्वक कर चुका है। भारत ने हमेशा अपने एक-एक नागरिक के जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। यूक्रेन-रूस युद्ध के समय भी हमने देखा, चार छिड़ने के तुरंत बाद, पीएम मोदी ने 'ऑपरेशन गंगा' नामक एक बहु-आयामी निकासी अभियान शुरू किया था। यूक्रेन में कीव, ल्वीव, चर्नोबिर्स से भारतीयों का आना आरंभ हुआ, फिर इस निकासी प्रक्रिया को तेज करने के लिए, विदेश मंत्रालय ने पोलैंड में वॉरसा, शेहिनी-मेडिका और क्राकोविएक सीमा पार, हंगरी में जाहोनी, किप टायसा सीमा पार, स्लोवाक गणराज्य में विस्ने नेमेके सीमा पार और रोमानिया में सुसेवा सीमा पार पर अपनी टीमों तैनात कर दी थीं, ताकि किसी भी भारतीय को स्वदेश लाने में कोई दिक्कत न आए। संकटग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को 'ऑपरेशन कावेरी' चलाकर सुरक्षित भारत लाया गया। यहां से आए भारतीयों ने तो स्पष्ट बताया कि सूडान में सबसे पहले भारत ही अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए पहुंचा था। वहां स्थिति काफी खतरनाक थी मोदी सरकार से इस बचाव अभियान को भी बड़ी ही तेजी के साथ चलाया था

। इससे पहले अफगानिस्तान में चले गृहयुद्ध को भी याद किया जा सकता है, जब तालीबानियों ने आम लोगों को अपना निशाना बनाया, तब भी भारतीय वायुसेना और एयर इंडिया के विमान लगातार अफगानिस्तान से भारतीयों को लेकर स्वदेश आते रहे। निश्चित ही तालिबानी आतंकियों के बीच से भारतीयों को सुरक्षित ले आना कोई छोटी बात नहीं थी। जब अफगानिस्तान से सीधे भारत आना संभव नहीं हो रहा था, तब भी अपनी इच्छा शक्ति की दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ताजिकिस्तान, कतर के रास्ते या अन्य रास्तों से काबुल से भारतीयों को दिल्ली एवं देश के अन्य भागों में सुरक्षित पहुंचा रही थी। इसे आप मोदी राज में भारत सरकार की शक्तिशाली विदेश नीति भी कह सकते हैं, जिसमें हम टोगो जेल में बंद पांच भारतीयों को सुरक्षित रिहा करवा पाने भी सफल रहे। भारत सरकार 2015 में यमन में फंसे हजारों भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाई थी। यह अपने आप में एक मिसाल है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस सुमित्रा से इन्हें पहले जिबूती ले जाया गया, वहां से इन्हें भारत वापस लाया गया। उस समय यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने सैन्य कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें हजारों भारतीय फंस गए थे। आप देखिए, यूक्रेन में फंसे ग्यारह सौ भारतीय हों, लीबिया में फंसे रहे तो हजार सात सौ पचास भारतीय या फिर इराक में सात हजार दो सौ भारतीय नागरिक हों, यमन से छह हजार सात सौ दस नागरिकों में से चार हजार चार सौ अठारह भारतीय, दक्षिण सूडान से सुरक्षित भारत आए भारतीयों। वास्तव में केंद्र की भाजपा सरकार में समय रहते सभी की सुरक्षित स्वदेश

वापसी सुनिश्चित की जाती रही है। भारत सरकार द्वारा अब तक दस बड़े अभियान अपने नागरिकों को विदेश की धरती से सुरक्षित लाने के लिए चलाए हैं। 1990 कुवैत एयरलाइंट्स इस दृष्टि से पहला सबसे सफल अभियान रहा। 1990 में, जब 700 टैंकों से लैस 1,00,000 इराकी सैनिकों ने कुवैत में मार्च किया, तो शाही परिवार और वीआईपी सऊदी अरब भाग गए। कुवैत में फंसे लोगों के लिए भारत ने निकासी प्रक्रिया शुरू की जिसमें 1,70,000 से अधिक भारतीयों को हवाई मार्ग से निकाला गया और भारत वापस लाया गया। फिर बारी आई 2006 में ऑपरेशन सुकन को अंजाम देने की, उस समय भी इजरायल और लेबनान के बीच युद्ध छिड़ने के बाद, भारत सरकार ने अपने फंसे हुए नागरिकों को निकालने के लिए इसे शुरू किया था। नौसैनिक बचाव अभियान में जुलाई-अगस्त 2006 के बीच 2,280 व्यक्तियों को निकाला गया था। इनमें कुछ नेपाली और श्रीलंकाई नागरिक भी शामिल थे। भारत ने युद्धग्रस्त लीबिया में फंसे अपने नागरिकों को बचाने के लिए 2011 में 'ऑपरेशन होमकॉमिंग' शुरू किया और 15,400 भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी कराई गई। 2015 में ऑपरेशन राहत उन परिस्थित में आरंभ हुआ जब यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया था। भारत ने समुद्र के रास्ते अपने नागरिकों को निकालने का विकल्प चुना। अगले कुछ हफ्तों में, भारत ने यमन में फंसे 4,640 भारतीयों के अलावा 41 से अधिक देशों से 960 विदेशी नागरिकों को बचाया था। इसी साल नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के बाद 'ऑपरेशन मैत्री' शुरू हुआ था, 5,000 से अधिक भारतीयों को नेपाल से लाया गया था। इस

दौरान, भारतीय सेना ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और जर्मनी से 170 विदेशी नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकाला था। कोरोना महामारी के दौरान विदेश में रह रहे भारतीयों को देश लाने के लिए पांच मई 2020 को एक नौसैनिक अभियान 'ऑपरेशन समुद्र सेतु' सामने आया था, जिसमें कि 3,992 भारतीय नागरिकों को देश वापस लाया गया। ऑपरेशन वंदे भारत 2021 की शुरुआत में चलाया गया। इसमें उन भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी हुई जो दुनियाभर में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद विदेश में फंसे हुए थे। 30 अप्रैल 2021 तक, ऑपरेशन सुकन के विभिन्न चरणों के माध्यम से लगभग 60 लाख भारतीयों को वापस लाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति को अभी दो साल पूर्व 2021 में पूर्णता प्रदान की गई जिसमें अफगानिस्तान से सैकड़ों भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। ऑपरेशन गंगा 2022 है जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर ही चुके हैं और ऑपरेशन कावेरी इस साल अप्रैल में सूडान में सेना और अर्ध सैनिकों के बीच जारी संघर्ष के बीच भारत ने हिंसाग्रस्त देश से अपने लोगों की निकासी के लिए चलाया। वस्तुतः इस तरह से भारत ने न सिर्फ संकटकाल में अपने नागरिकों को बचाया है बल्कि सफल जल, थल, नभ में अभियान चलाकर कई विदेशी नागरिकों के जीवन की भी रक्षा की है। निश्चित ही केंद्र की सफल, निर्णायक और अपनी जनता के सार्थक संकल्पों को पूरा कर रही भारत के संपूर्ण विकास के लिए संकल्पित भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार का इसके लिए जितना धन्यवाद दिया जाएगा, वह कम ही होगा।

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

# देश की खेल राजधानी बनने की तैयारी में यूपी

चीन के हांगजु शहर में हाल ही में समाप्त हुए एशियाई खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के बीच इस बात को याद रखना होगा कि इन खेलों ने उत्तर प्रदेश (यूपी) को एक शक्तिशाली खेल राज्य के रूप में स्थापित किया है। भारत को 107 में से 55 पदक कल स्पर्धा में मिले और शेष बाकी खेलों में। हरियाणा के खिलाड़ी 14 पदक लेकर सबसे आगे रहे। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सात पदक लेकर दूसरे स्थान पर रहे। यह सबको जलान करने में सफल रहे। देखिए हरियाणा तो लंबे समय से खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के उम्दा प्रदर्शन से साफ है कि राज्य में खेलों के इंफ्रस्ट्रक्चर पर अब तेजी से फोकस किया जा रहा है। सफल खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों के साथ-साथ अच्छे तरीके से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश और गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को इच्छा से मुक्त नजर आ रहे थे। वास्तव में वे ऋषिकेश में स्थित परमाथी निकेतन में स्वामी चिदानंद मुनि के आश्रम में समय बिताने पहुंचे थे। वे यहां गंगा दर्शन कर गंगा आरती में शामिल हुए और संतो का आशीर्वाद लिया। इस पल चित्र सोशल मीडिया पर किसी ने डालकर लिख दिया, 'मामा का श्राद्ध, श्राद्ध में भाजपा ने दिया शिवराज का फिकर तो टिकट।' इसे कांग्रेस की हरकत बताते हुए शिवराज ने कहा कि सनातन धर्म को अपशब्द कहने वाली कांग्रेस सत्ता की भूखी है। जबकि कांग्रेस को अपनी कुटित सोच और कुर्संस्कारों का श्राद्ध करने की जरूरत है। मैं मर भी जाऊंगा तो राख के ढेर से फीनिक्स पक्षी की तरह फिर से पैदा

राजस्थान, ओडिशा, मणिपुर, असम, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के खिलाड़ी एक-एक ही पदक दिला सके। ये सभी पदक इंग्लिश स्पधाओं में जिते गए। भारत की टोलियों में उतर प्रदेश से 36 खिलाड़ी थे। इनमें से छह अकेले मेरठ जिले से ही थे। उनमें से दो स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे। बेशक, एशियाई खेलों में उत्तर प्रदेश के एथलीटों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया। यह पहला मौका था जब उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को इतनी प्रशंसा मिली थी। उत्तर प्रदेश की खेल राजधानी मेरठ जिले के खिलाड़ियों ने सबसे चौंकाने वाली प्रदर्शन किया है। फारुल चौधरी मेरठ जिले की बेटी है। उन्होंने 5000 मीटर और 3000 मीटर स्टीपलचेज में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता। मेरठ के बहादुरपुर गांव की रहने वाली अनू रानी ने भाला फेंक में गोल्ड जीता। लंबी दूरी की दौड़ और गोला फेंक में क्रमशः कांस्य पदक हासिल करने वाले गुलवीर सिंह और किरण बालियान का भी मेरठ से नाता है। इन सभी ने अपने-अपने शहरों और जिलों में उपलब्ध

सुविधाओं के बल पर ही शानदार प्रदर्शन किया। अलीगढ़ के गुलवीर सिंह ने भी कमाल कर दिया। उन्होंने 10 हजार मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। तो कैसे उत्तर प्रदेश में खेल संस्कृति अचानक विकसित हुई? दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद सभी राज्य के खेलों से जुड़ी एंसाइप्लेशन और कोच कसकर मेहनत करने लगे हैं। इसी कड़ी मेहनत का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी एथलीट दुनिया में नाम कमा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य सरकार खेलों को गति देने को लेकर कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी तथ्य से लगा सकता है कि अब गांवों के स्कूलों में भी कोचिंग की व्यवस्था शुरू हो गई है। जिन खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में पदक जीते हैं, उनकी झोलियां भरने जा रही है इनामों से। स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को क्रमशः 3 करोड़ रुपये, 1.5 करोड़ रुपये और 75 लाख रुपये पुरस्कार राशि प्रदान

की जायेगी। ओलंपिक खेल में एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर 6 करोड़ रुपये, रजत पदक में 4 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक में 2 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। टीम प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़ रुपये, रजत पदक पर 2 करोड़ रुपये, कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। राष्ट्रमण्डल खेलों में भी स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः 1.50 करोड़ रुपये, 75 लाख रुपये और 50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। वहीं नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का निर्माण भी मेरठ में करवा रही है, जिसमें अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की सभी खेल गतिविधियों के प्रशिक्षण की सुविधा होगी। यहां अब उत्तर प्रदेश के कुछ उन खिलाड़ियों की भी बात करेंगे जो एशियाई खेलों की टीम स्पधाओं में पदक जीतने में कामयाब रहे। उदाहरण के रूप में क्रिकेट में रिकू सिंह (अलीगढ़), महिला क्रिकेट में

दीपिा शर्मा (आगरा), हॉकी में ललित कुमार उपाध्याय (वाराणसी), शूटिंग में अखिलेश श्योन (बागपत), कबड्डी में अर्जुल देववाल (मुजफ्फरनगर) आदि शामिल हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में खेलों के विकास से जुड़े बहुत से जानकारों से बातचीत करने पर यह समझ आया कि राज्य में खेलों की संस्कृति अपने पैर जमा चुकी है। अब अभिभावक भी खुलकर अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वे खेलों में अपना करियर बनाएं। वे अपनी बेटियों को खेलों के संसार में सफल होने के लिए भी भेज रहे हैं। अब आप देख लें कि इस बार जिन बेटियों ने पदक जीते हैं, उनका संबंध खांटी ग्रामीण पृष्ठभूमि से है। उन्हें उनका अपना परिवार और ग्रामीण समाज खेलों में लंबी छलांग लगाने के अवसर दे रहा है। उनके रास्ते में अवरोध नहीं खड़ा कर रहा है। यह वास्तव में खेलों की प्रगति के लिये बहुत सुखद और सकारात्मक स्थिति है। हालांकि, कुछ साल पहले तक यह स्थिति नहीं थी। इसके अलावा, अब उत्तर प्रदेश का समाज मात्र

क्रिकेट को ही खेल नहीं मानता। अब यहां पर तमाम दूसरे खेलों में भी नौजवान अपने हिस्से का आसमान छूने का खावा देखने लगे हैं। यकीन मानिए अरकाश के प्रयासों और जिन खिलाड़ियों ने हालिया एशियाई खेलों में अपनी सत्ता के झंडे गाड़े हैं उनसे राज्य के हजारों-लाखों नौजवान प्रेरित होकर खेलों की दुनिया में आएंगे। अंत में एक बात कहने का मन कर रहा है कि राजधानी दिल्ली में अनेक बड़े स्टेडियम होने के बावजूद गिनती के पदक विजेताओं का ही निकलना चिंता का कारण है। इस तरफ सोचने की जरूरत है। इसी तरह से बिहार और झारखंड से सफल खिलाड़ियों का न निकलना निराश करता है। बिहार में उभरती हुई प्रतिभाओं को अधिक सुविधाएं देनी होंगी। झारखंड से बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी खास तौर पर निकलते रहे हैं। इन दोनों राज्यों में खेलों की संस्कृति को विकसित करने के लिए ठोस योजनाएं बनानी होंगी। इन्हें उत्तर प्रदेश से सीखना होगा जो देश की खेल राजधानी बनने की तरफ बढ़ रहा है।

## Social Media Corner

सब के हक में...

उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के पवित्र पार्वती कुंड में दर्शन और पूजन से अभिभूत हूं। वहां से आदि केलाश के दर्शन से भी मन आह्लादित है। प्रकृति की गोद में बसी अध्यात्म और संस्कृति की इस स्थली से अपने देश के सभी परिवारजनों के सुखमय जीवन की कामना की। (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टिवटर अकाउंट से)



सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने की जी की दूरदर्शी नीतियों के कारण हम एक ऐसे युग के शिखर पर हैं जो सहकारी समितियों का है। मोदी सरकार ऐसे फैसले लेकर आ रही है जिससे शहरी सहकारी बैंकों के कारोबार को काफी बढ़ावा मिलेगा। (केंद्रीय मंत्री अमित शाह के टिवटर अकाउंट से)



आज रांची में आगामी महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के ट्रॉफी अनावरण और मस्करट (शुभंकर) - जूही के लॉन्चिंग कार्यक्रम में शामिल हुआ। देश में पहली बार यह चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है जिसका ऐतिहासिक आयोजन उत्तराखण्ड में होने वाला है। इस ऐतिहासिक अवसर का गवाह बनने के लिए झारखण्ड राज्य में आप सभी सादर आमंत्रित है। (मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के टिवटर अकाउंट से)



## आसान नहीं मुख्यमंत्री शिवराज का श्राद्ध

विधानसभा चुनाव के महासंग्राम की शुरुआत होते ही कांग्रेस एवं भाजपा में श्राद्ध को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गंगा नदी के किनारे निश्चित व निर्लिप्त बैठे हुए एक चित्र जारी हुआ था। इसमें शिवराज चुनाव की चिंता और मुख्यमंत्री बनने की इच्छा से मुक्त नजर आ रहे थे। वास्तव में वे ऋषिकेश में स्थित परमाथी निकेतन में स्वामी चिदानंद मुनि के आश्रम में समय बिताने पहुंचे थे। वे यहां गंगा दर्शन कर गंगा आरती में शामिल हुए और संतो का आशीर्वाद लिया। इस पल चित्र सोशल मीडिया पर किसी ने डालकर लिख दिया, 'मामा का श्राद्ध, श्राद्ध में भाजपा ने दिया शिवराज का फिकर तो टिकट।' इसे कांग्रेस की हरकत बताते हुए शिवराज ने कहा कि सनातन धर्म को अपशब्द कहने वाली कांग्रेस सत्ता की भूखी है। जबकि कांग्रेस को अपनी कुटित सोच और कुर्संस्कारों का श्राद्ध करने की जरूरत है। मैं मर भी जाऊंगा तो राख के ढेर से फीनिक्स पक्षी की तरह फिर से पैदा

हो जाऊंगा, जनता की सेवा के लिए। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शालीनता बरतते हुए कहा कि 'शिवराज जी ईश्वर आपको दीक्षावर्तु दे। मेरी समझ में नहीं आता कि आपको हर चीज के पीछे कांग्रेस पार्टी ही क्यों नजर आती है? श्राद्ध पक्ष में आपको टिकट आपकी पार्टी ने दिया है, आपके व्यक्तिगत दुश्मन आपकी पार्टी में बैठे हैं और आपका अहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।' मिथकों में फीनिक्स को एक मायावी पक्षी माना जाता है। अरब, ईरानी, मिश्र और भारतीय दंत-कथाओं में ऐसे विलक्षण पंखी का उल्लेख मिलता है। धारणा है कि इसका जीवन चक्र 500 से 1000 वर्ष का होता है। उस पूरी होने पर वह जल जाता है और फिर अपनी ही राख से पुनः जीवन प्राप्त कर लेता है। यह अवधारणा भारतीय दर्शन के पुनर्जन्म से मेल खाती है। श्रीमद् भगवत गीता के इस दर्शन को दुनिया के अनेक वैज्ञानिक भी अब यह मानने लगे हैं। दरअसल पदार्थगत रूपांतरण को ही पुनर्जन्म माना जाता है। पदार्थ और ऊर्जा दोनों ही परस्पर परिवर्तशील है। ऊर्जा

कभी नष्ट नहीं होती है, परंतु रूपांतरित होकर अदृश्य हो जाती है। इसीलिए डीएनए यानी महा रसायन मृत्यु के बाद भी संस्कारों के रूप में अदृश्य अवस्था में उपस्थित रहता है और नए जन्म के रूप में पुनः अस्तित्व में आ जाता है। इसीलिए सनातन दर्शन मृत्यु के साथ मृत्यु का पूर्णतः अंत नहीं मानता है। बल्कि मृत्यु के माध्यम से आत्मा को शरीर से अलग होकर वायुमंडल में विचरण करना मानता है। यही आत्मा मृत्यु के जीवित रहते हुए भी स्वप्न अवस्था में शरीर से अलग होकर भ्रमण करती है, लेकिन शरीर से उसका अंतर्संबंध बना रहता है। बीमारी की स्थिति में भी आत्मा और शरीर का अलगाव बना रहता है। परंतु मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से पृथक हो जाती है। त्र्यंबक में कहा भी गया है कि 'जीवात्मा अमर है और प्रत्यक्षतः नाशवान है।' इसे ही और अधिक विस्तार से गीता में उल्लेखित करते हुए कहा है, 'आत्मा किसी भी काल में न तो जन्मती है और न ही मरती है। जिस तरह से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी अनुरूप जीवात्मा

मृत शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश कर जाती है।' इसलिए हमें बिना पढ़ी-लिखी या अल्पशिक्षित होने के बावजूद अनेक ऐसी प्रतिभाओं को देखना है। मैं आती हूँ, जिनके ज्ञान को देखकर आश्चर्य होता है। दरअसल वे पूर्व जन्म के संचित ज्ञान का ही प्रतिफल होती हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि जीवात्मा वर्तमान जन्म के संचित संस्कारों की साथ लेकर ही अगला जन्म लेती हैं। यहां यह भी रेखांकित किया जाना जरूरी है कि जीस (डीएनए) में पूर्व जन्म वैशुतक संस्कार मौजूद रहते हैं। इसी वेश से निर्मित नूतन संरचना के चेतन अर्थात् प्रकाशकीय भाग को सनातन दर्शन में 'प्राण' कहते हैं। वर्तमान वैज्ञानिक तो जीवन मृत्यु के रहस्य को आज समझ रहे हैं, किंतु हमारे ऋशि-मुनियों ने तो हजारों साल पहले ही शरीर और आत्मा के इस विज्ञान को समझकर विभिन्न संस्कारों से जोड़ दिया था, जिससे रक्त संबंधों की अशुष्णता जन्म-जन्मांतर स्मृति पटल पर अंकित रहे। फीनिक्स पक्षी के जल-मर कर जो उठना इसी भारतीय दर्शन का प्रतीक है।

## इंसाफ में अड़चन

सुप्रीम कोर्ट में आया 26 सप्ताह की प्रेग्नेंसी का एक मामला न केवल अपने नेचर की वजह से बल्कि इससे निपटने के तरीकों के कारण ऐसे हालात में पहुंच गया, जिसे इंसाफ के दिग्गजों से अच्छी स्थिति तो कर्नाई नहीं कहा जा सकता। इस मामले में प्रेग्नेंसी टर्मिनेशन के लिए कानूनन तय 24 हफ्ते की सीमा पहले ही गुजर चुकी थी। लेकिन पिटिशनर की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक स्थितियां इस केस को महत्वपूर्ण बना रही थीं। एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों की रिपोर्ट की रोशनी में पिटिशनर के हालात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने 9 अक्टूबर को दिए फैसले में अबॉर्शन की इजाजत दे दी। चौंकाने वाला घटनाक्रम अगले दिन यानी 10 अक्टूबर का रहा, जब एम्स के डॉक्टरों की उसी समिति की रिपोर्ट के हवाले से केंद्र सरकार चीफ जस्टिस के पास यह अर्जी लेकर पहुंच गई कि इस केस में भ्रूण के जीवित रहने की संभावना है और इम्पलिये पिटिशनर को अबॉर्शन की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। उखकने आदेश के अमल पर तात्कालिक रोक लगाते हुए मामले को उन्हीं जजों की बेंच के पास भेज दिया। अगले दिन जब मामला उस बेंच के सामने आया तो कई बड़े वाजिब और गंभीर सवाल उठे। एक तो यह कि एम्स की जो एक्सपर्ट कमिटी इस मामले को देख रही थी, उसने अपनी पहली रिपोर्ट में यह बात क्यों नहीं कही कि भ्रूण के जिंदा रहने की संभावना है। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट में कामकाज के ढंग से जुड़ा था। पूछा गया कि केंद्र सरकार सर्वोच्च अदालत की एक बेंच के फैसले के खिलाफ मौखिक रूप से कैसे उखकके पास जा सकता है। बेंच ने इस पर ठीक ही केंद्र को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि यह गलत परिपटी चल गई तो पूरी न्यायिक व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। मगर इन अहम तर्कोंकी सवालियों के बीच इस प्रकरण का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि 26 हफ्ते की प्रेग्नेंसी के साथ इंसाफ मांगने आई वह महिला अभी भी न्याय का इंजानर ही कर रही है। एम्स की विशेषज्ञ समिति की नई रिपोर्ट की मद्देनजर दो सदस्यों वाली बेंच की राय बंट गई है। अब मामला फिर से उखक के पास जाएगा और वह नई बेंच गठित करेंगे, जो इस मामले पर सुनवाई करेंगी। बहरहाल, यहां मिलते-जुलते से एक मामले का जिक्र किया जा सकता है। जिस पर इसी साल अप्रैल महीने में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था।



जानकारी

बादाम बनाए हड्डियां मजबूत और करे सिर दर्द दूर



याददाशत कमजोर है, तो बादाम इसका अच्छा इलाज है। बादाम की 10 गिरी रात को पानी में भिगो कर सुबह छिलका उतार कर बारीक करके 20 ग्राम मक्खन, 10 ग्राम मिसरी मिलाकर एक महीने तक खाएं। दिमाग की कमजोरी दूर हो जाएगी और आपकी याददाशत अच्छी हो जाएगी। सिर दर्द होता है, तो बादाम का तेल आपको राहत दिला सकता है। इसके लिए नाक में एक बूंद बादाम का तेल डालें, जिसे बादाम रोगन भी कहते हैं। दूसरा उपाय यह भी है कि आप एक कप पानी में पांच बूंद बादाम का तेल मिलाकर पी जाएं।

**बादाम के कुछ दाने आपको कई बीमारियों से दूर रखने में तो खास भूमिका निभाते ही हैं, इसके साथ ही कई समस्याओं में दवा की तरह भी काम आते हैं।**

बच्चे को अक्सर कुछ-कुछ होता रहता है, तो उसे हल-पुल व निरोगी बनाने के लिए रोजाना एक से दो बादाम पथर पर घिसकर चटाएं। इससे हृदय रोगियों के लिए तो बादाम काफी फायदेमंद साबित होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड अधिक होता है। यह बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है व अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इस वजह से हृदय की नलियों में कम रुकावट होती है और इसके प्रयोग से दिल का दौरा होने की आशंका कम हो जाती है। इसके लिए बादाम की 5-6 गिरी रात में पानी में रख दें और सुबह छिलका उतारकर उन्हें ठीक से चबा-चबा कर खाएं।

बादाम के तेल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है, जो बच्चों की हड्डियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए इस तेल से अपने बच्चे की मालिश करें। अच्छा हो अगर एक चम्मच नारियल तेल में पांच बूंद बादाम का तेल मिलाकर इससे नियमित रूप से बच्चे की मालिश करें। जरूरत महसूस करें तो आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह ले लें।



बादाम के तेल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है, जो बच्चों की हड्डियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।



‘हार्ट अटैक’ से पहले के 6 संकेत

35+ उम्र वाले रहें सावधान

हार्ट अटैक या दिल की बीमारियों से पहले आपकी त्वचा पर कुछ संकेत दिखाई देते हैं। इन संकेतों को पहचानकर अगर आप सही समय पर इलाज शुरू कर दें, तो हार्ट अटैक से बच सकते हैं। जानें हार्ट अटैक के पूर्व संकेत या पहले दिखने वाले लक्षण।

व्यापक कारण यह है कि लोगों को हार्ट अटैक के पूर्व संकेतों के बारे में पता नहीं है, इसलिए वे सही समय पर सावधानी नहीं बरत पाते हैं। आमतौर पर लोग यही मानते हैं कि हार्ट अटैक का संकेत सीने में तेज दर्द होता है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि हार्ट अटैक आने से कुछ दिनों पहले ही शरीर में कुछ संकेत दिखाई देते हैं, जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। ये संकेत दिल की सेहत की गड़बड़ी के हो सकते हैं और इसका इशारा यह भी हो सकता है कि जल्द ही आपका दिल काम करना बंद कर सकता है यानी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इन लक्षणों को आपको जान लेना चाहिए, ताकि आप हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर जैसे गंभीर और जानलेवा रोगों से बच सकें।

दूसरा कारण यह है कि लोगों को हार्ट अटैक के पूर्व संकेतों के बारे में पता नहीं है, इसलिए वे सही समय पर सावधानी नहीं बरत पाते हैं। आमतौर पर लोग यही मानते हैं कि हार्ट अटैक का संकेत सीने में तेज दर्द होता है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि हार्ट अटैक आने से कुछ दिनों पहले ही शरीर में कुछ संकेत दिखाई देते हैं, जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। ये संकेत दिल की सेहत की गड़बड़ी के हो सकते हैं और इसका इशारा यह भी हो सकता है कि जल्द ही आपका दिल काम करना बंद कर सकता है यानी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इन लक्षणों को आपको जान लेना चाहिए, ताकि आप हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर जैसे गंभीर और जानलेवा रोगों से बच सकें।

**अचानक शरीर में छोटे-छोटे दाने उभरना**  
शरीर में अचानक छोटे-छोटे दाने चिकने लाल दाने उभरना इस बात का संकेत हो सकते हैं कि आपका दिल बीमार है। ये दाने शरीर में कोलेस्ट्रॉल के खतरनाक स्तर तक पहुंच जाने पर दिखाई देते हैं। इसलिए ये इस बात का भी संकेत हो सकते हैं कि व्यक्ति को हार्ट अटैक हो सकता है।

**आंखों के बगल में पीली-सफेद पपड़ी या वैक्स जैसी त्वचा**  
दोनों आंखों के बगल में कई बार व्यक्ति को सफेद-पीले रंग की पपड़ी जैसी त्वचा दिखने लगती है। ये इस बात का संकेत है कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। कुछ लोगों में ये त्वचा जमे हुए मोम जैसी नजर आती है। आंखों के अलावा ऐसी पपड़ी आपकी हथेलियों और पैरों के पीछे भी दिखाई दे सकते हैं। अगर आप इस संकेत के बाद भी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो आपको हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है।

**त्वचा पर नीले या बैंगनी निशान दिखना**  
अगर आपको शरीर के किसी हिस्से में त्वचा नीली या बैंगनी रंग की दिखे, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये आपके अस्वस्थ दिल का संकेत है। ये लक्षण ज्यादातर पैरों और तलवों में नजर आते हैं। त्वचा पर नीले या बैंगनी निशान का मतलब है कि आपके शरीर में कहीं खून जम गया है या आपके उस अंग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। धमनियों में खून जमा हो जाने के कारण धमनियां ब्लॉक हो जाती हैं, जो हार्ट अटैक का कारण बन सकता है।

**उंगली के पोरों में सूजन और नाखून नीचे की तरफ उगना**  
अगर आपके उंगली के अगले हिस्से में सूजन आ जाए और नाखून नीचे की तरफ झुकने लगें, तो ये भी हार्ट अटैक का पूर्व संकेत हो सकता है। दरअसल नाखूनों में उंगली में ये लक्षण तब दिखाई देते हैं, जब व्यक्ति को हार्ट इफेक्शन हो या दिल की कोई दूसरी बीमारी हो। कई बार फेफड़ों की समस्या में भी ऐसे लक्षण दिख सकते हैं। मगर ये सभी बीमारियां हार्ट अटैक का कारण बन सकती हैं।

**नाखूनों के नीचे नीले या बैंगनी निशान**  
अगर आपको अचानक अपने नाखूनों के नीचे नीले या बैंगनी रंग के निशान दिखाई देने लगें, तो सावधान हो जाएं। नाखूनों में नजर आने वाले ऐसे निशान दिल की बीमारी का संकेत हो सकते हैं। हालांकि ऐसे निशान चोट के कारण भी दिख सकते हैं, मगर यदि आपको किसी ऐसी चोट के बारे में याद नहीं है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

**हाथ-पैर की उंगलियों में छोटे उभार जिसमें दर्द हो**  
अगर आपको अपने हाथ-पैर की उंगलियों में पिछले कुछ दिनों से किसी छोटी सी गोली जैसी सूजन नजर आ रही है और इनमें दर्द हो रहा है, तो ये भी दिल की बीमारी का संकेत हो सकता है। आमतौर पर ऐसे उभार तभी आते हैं जब आपको हार्ट इफेक्शन हो, जिसे इडिमाटोस एंजोकार्डिपिस भी कहते हैं। ये उभार कुछ घंटों या कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं। मगर इनके दिखने पर आपको सावधान हो जाना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

सुझाव  
मशरूम का उपयोग करे याददाशत ठीक



पौष्टिक तत्वों और अनाजों के बजाय मशरूम का भोजन में खूब इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एंटीऑक्सिडेंट, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल तत्वों से भरपूर औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। मशरूम को सुपरफूड माना गया है, क्योंकि इससे न केवल पोषक तत्व मिलते हैं, बल्कि यह कई बीमारियों से हमारा बचाव भी करता है। एंटीऑक्सिडेंट, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल तत्वों से भरपूर मशरूम के फायदों के बारे में जानना जरूरी है।

**इम्युनिटी बूटने से लेके**  
मशरूम में मौजूद सेलेनियम, पेंसिलिन जैसे एंटीबायोटिक तत्व शरीर में माइक्रोबियल विकास और फंगल संक्रमण को बाधित करने में सहायक हैं और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार हैं।

**कैंसर सेल को बढ़ने से लेके**  
मशरूम में मौजूद फोलेट्स कैंसर सेल बनने से रोकते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल से बचाते हैं, जो कैंसर का कारण बनते हैं। फोलेट्स डीएनए को बनाने और रीपेयर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मशरूम में पाया जाने वाला सेलेनियम तत्व लिंक्ड को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है। यह शरीर की डीएनए फोलेट्स करने में मदद करता है, जिससे कई बीमारियों से बचाव होता है।

**दिल को रखे दुरुस्त**  
मशरूम में मौजूद फाइबर, पोटेशियम, विटामिन सी और सेलेनियम जैसे एंटीऑक्सिडेंट तत्व हमारे दिल को सेहत को प्रोत्साहित करते हैं। एंटीऑक्सिडेंट्स दिल को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल (एलडीएल) और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (एचडीएल) के बीच संतुलन कायम रखने में भी मदद करते हैं।

**ब्लड प्रेशर को नियमित**  
पोटेशियम और सोडियम से भरपूर मशरूम का नियमित सेवन ब्लड प्रेशर को नियमित करने में मदद करता है। यह शरीर में सामान्य तरल पदार्थों के बीच संतुलन कायम रखता है।

**अंतिम पोस्टोसिस में दे आराम**  
धूम में रखा प्रेशर मशरूम विटामिन डी का अच्छा स्रोत होता है। मशरूम में मौजूद विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फोरस हड्डियों को स्वस्थ में रहने में मदद करते हैं और जोड़ों के दर्द, हड्डियों में घनत्व कम होने या हड्डियों के टूटने की आशंका को कम करती हैं।

**टाइप 2 डायबिटीज में फायदेमंद**  
फाइबर से भरपूर, लेकिन कम शर्करा वाले मशरूम का सेवन डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद है। लिंक्ड, अग्नाशय और अंतःस्रावी ग्रंथियों के समुचित क्रियान्वयन में यह मदद करता है।

**याददाशत को दुरुस्त**  
इसमें मौजूद कोलीन तत्व मस्तिष्क में रक्त और ऑक्सीजन के प्रवाह को बनाए रखता है। इससे याददाशत और लॉन्ग पावर में सुधार होता है। कोलीन मेमरी के सेल मेम्ब्रेन की संरचना को मजबूत रखता है।

इन बातों का ध्यान में रखकर एक स्वस्थ व्यक्ति नियमित रूप से 100 ग्राम मशरूम का सेवन आसानी से कर सकता है। मशरूम खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वे ताजे और सूखे हों। विभिन्न या मुरझाए मशरूम बासी होते हैं। घर लाने के बाद इन्हें फ्रिज में एयरटाइट बॉक्स में रखें। जब इन्हें बनाना हो, तभी धोएं और काटें।

टाइम पास

आज का राशिफल

**मेष**  
चूँ चो लो ली  
वृत्ते लो आ  
आशा और उत्साह के कारण सक्रियता बढ़ेगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। घर के सदस्य मदद करेंगे और साथ ही आर्थिक बढ़ाहली से भी मुक्ति मिलने लगेगी। प्रियजनों से समागम का अवसर मिलेगा। अवरुद्ध कार्य संपन्न हो जाएंगे। पद-प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कुछ सामाजिक कार्य संपन्न होंगे। शुभार्क-1-5-7

**वृष**  
इ उ ए ओ वा  
वी चू वे वो  
कल का परिश्रम आज लाभ देगा। कामकाज में आ रही बाधा दूर होगी। बाहरी और अंदरूनी सहयोग मिलता चला जाएगा। पर प्रबंध में ना पड़कर अपने काम पर ध्यान दीजिए। लेन-देन में आ रही बाधा को दूर करने के प्रयास सफल होंगे। धार्मिक कार्य में समय और धन व्यय होगा। शुभार्क-2-5-7

**मिथुन**  
का की कू घ ड  
छ के को हा  
परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अपनी गतिविधियों पर पुनर्विचार करें। वैचारिक द्रुत और असंतोष बना रहेगा। किसी सूचना से पूर्ण निगूय सम्भव। सुख आरोग्य प्रभावित होगा। शत्रुभय, चिंता, संतान को कष्ट, अपव्यय के कारण बनेंगे। आय-व्यय की स्थिति समान रहेगी। शुभार्क-4-3-6

**सिंह**  
मा मी नू मे मो  
रा टी टू ट्रे  
व्यर्थ की भाग-दौड़ से बचा जाए तो अच्छा है। दुर्लभ स्वप्न साकार होंगे। मेल-मिलाप से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी। अपने काम में सुविधा मिल जाने से प्रगति होगी। कोई प्रिय वस्तु अथवा नवीन वस्त्राभूषण प्राप्त होंगे। पूर्व नियोजित कार्यक्रम सफलता से संपन्न हो जाएंगे। शुभार्क-4-6-9

**कन्या**  
दो पा पी पूष  
ण ठ पे पो  
आशांशुक कार्य होने में संदेह है। मध्यह्न से ही आशाएं बलवती होंगी। महत्वपूर्ण कार्यों को आज ही निबटा दें उसके बाद समय व्यवकारी सिद्ध होगा। आशुपथ में विरोध होने की संभावना है। व्यवसाय में ध्यान देने से सफलता मिलेगी। कामकाज की अधिकता रहेगी। पारिवारिक विवाद टालें। शुभार्क-2-6-7

**तुला**  
रा टी छ रे दो  
ता ती चू ते  
व्यवसायिक अभ्युदय भी होगा और प्रसन्नताएं भी बढ़ेंगी। कामकाज की व्यस्तता से सुख-आराम प्रभावित होगा। धर्म-कर्म के प्रति रुचि जागृत होगी। श्रेष्ठजनों की सहानुभूतियां होंगी। रुका हुआ लाभ आज प्राप्त हो सकता है। बातचीत में संयम बरतें। व्यवसायिक उन्नयन में उलटफेर की शुरुआत हो सकती है। शुभार्क-1-5-7


**धनु**  
ये यो मा मी नू  
धा फा छ भे  
खान-पान में विशेष सावधानी बरतें। मेहमानों का आगमन होगा। रुजकरीय कार्यों से लाभ। पैतृक सम्पत्ति से लाभ। नैतिक दायरे में रहें। पुष्पनी गलती का परचाताप होगा। विद्यार्थियों को लाभ। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। वाहन चालन में सावधानी बरतें। बातचीत में संयम बरतें। आय के योग बनेंगे। शुभार्क-2-4-5

**मकर**  
मे गा जी खी चू  
खे खो गा गी  
शुभ कार्यों का लाभदायक परिणाम होगा। कामकाज की अधिकता रहेगी। लाभ भी होगा और पुण्य मित्रों का समागम भी। व्यवसायिक अभ्युदय भी होगा और प्रसन्नताएं भी बढ़ेंगी। धर्म-कर्म के प्रति रुचि जागृत होगी। श्रेष्ठजनों की सहानुभूतियां मिलेंगी। रुका हुआ लाभ आज प्राप्त हो सकता है। शुभार्क-3-6-9

**कुम्भ**  
गू गो गो सा  
सी चू से सो वा  
आमोद-प्रमोद का दिन होगा और व्यवसायिक प्रगति भी होगी। स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार की अपेक्षा रहेगी। ज्ञान-विज्ञान की बुद्धि होगी और रुग्णों का साथ भी रहेगा। व्यर्थ की भाग-दौड़ से बचने का ध्यान रखें। शुभार्क-3-5-6


**मीन**  
दी दू थ ज्ञ जे हे  
दो वा ची  
खान-पान में विशेष सावधानी बरतें। मेहमानों का आगमन होगा। रुजकरीय कार्यों से लाभ। पैतृक सम्पत्ति से लाभ। नैतिक दायरे में रहें। पुष्पनी गलती का परचाताप होगा। विद्यार्थियों को लाभ। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। वाहन चालन में सावधानी बरतें। बातचीत में संयम बरतें। आय के योग बनेंगे। शुभार्क-2-4-5

काकुरो पहेली - 2975



खाली वर्गों में 1 से 9 तक के अंक लिखकर नीचे से ऊपर व दाएं से बाएं की जोड़ हल्के रंग के आधे वर्ग की संख्या से मेल खाना चाहिए, किसी भी अंक का उस जोड़ में पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता।  
उदाहरणतः  
1 2 3 4  
6+8+9=23  
7+8+9=24  
1+2+3+4+5=15  
1+2+3+4+6=16

सूडोकू -2975



प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरें जाने आवश्यक हैं। प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3x3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें। पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते। पहेली का केवल एक ही हल है।


लॉफिंग जॉन

न्यायाधिशा (चोर से) - एक ही रात में छह चोरियाँ करने का आरोप है। इस पर तुम्हें क्या कहना है? चोर मुस्कराते हुआ बोला- जी हुजूर। मेरे पूज्य ससुरजी कहा करते थे कि मेहनत से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए।

पिछले दिनों सड़क पर धूमधाम से बारात जा रही थी। घोड़े पर दूल्हे मियाँ के मुँह पर पट्टी बँधी थी। एक राहगीर ने यह देखकर एक बाराती से पूछा: भैया, दूल्हे के मुँह पर पट्टी क्यों बँधी है? बाराती ने मुस्कराते हुए कहा- भाई साहब दूल्हा मोहल्ले का नेता है। वह भीड़ देखते ही भाषण देने लगता है।

एक बार प्रेमी और प्रेमिका डेटिंग पर गए। बहुत देर चूमने-फिरने के बाद वे एक नितांत स्थान पर बैठ गए। अपने आसपास किसी को न पाकर प्रेमी ने मौके का फायदा उठाना चाहा और प्रेमिका की गाल की ओर अपना मुँह बढ़ाते हुए बोला- चुम्बन क्या है? शरातर भरे अंदाज में प्रेमिका बोली- चुम्बन! प्यार के गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर है।

फिल्म वर्ग पहेली - 2975



बायें से दायें:-  
१. धर्मदत्त, राखी को 'पल पल दिल के पास' गीत वाली फिल्म-२,२  
२. 'इमली का बूटा' गीत वाली मुशरफ, राजकुमार, विवेक शरण, मनीषा को फिल्म-४  
३. अक्षय, सेफ, खीना, सोनाली को 'नहीं कही थी बात' गीत वाली फिल्म-३  
४. 'आइने के सौ डुकड़े' गीत वाली जीतेन्द्र, जयाप्रदा की फिल्म-१  
५. लकी अली, गौरी कार्णिक को 'खोया है तूने जो' गीत वाली फिल्म-२  
६. 'केशव रेशम, योगिता बाली को 'लो मेरा प्यार लेलो' गीत वाली फिल्म-४  
७. 'तुम्ही रहनुमा हो' गीत वाली अनिल धवन, राधा सलुजा को फिल्म-३  
८. सुनीलदत्त, मीनाकुमारी को 'संग और नूर को' गीत वाली फिल्म-३  
९. 'ए वी सी डी छोड़ो' गीत वाली धर्मदत्त, हेमा मालिनी को फिल्म-२,२

ऊपर से नीचे:-

१. सनी देओल, सुनील, शिल्पा को 'कोई परी आती नहीं' गीत वाली फिल्म-२  
२. 'ओ नचलें नचलें' गीत वाली सनी, सोहेल, सुनील, जॉन की फिल्म-३  
३. अक्षय, खन्ना, टीना, पद्मिनी की फिल्म-३  
४. 'मैं निकला गूबी लेके' गीत वाली फिल्म-३  
५. संजयदत्त, गोविंदा, दिव्या, ममता को 'दिल तो खोया है' गीत वाली फिल्म-४  
६. 'गोरे गोरे मुझे दे' गीत वाली अजय, अक्षय, करिश्मा, नाममा की फिल्म-३  
७. शशिकपूर, श्रवणा आज़मी की फिल्म-३  
८. 'हाथी मेरे साथी' की नायिका? -३  
९. 'तुमको कितना है' गीत वाली सनी, सुनील, सेलिना जेटली की फिल्म-२  
१०. संजयकपूर, शिल्पा शेठ्टी को 'उक टका उक' गीत वाली फिल्म-३  
११. 'चंदनी चेंते गीत वाली को बतों गीत वाली देवआनंद, योगिताबाली की फिल्म-२  
१२. शशिकपूर, जीतेन्द्र, रेखा को 'प्यार कलना नहीं आया' गीत वाली फिल्म-३  
१३. 'रशोदा का नंदलाल' गीत वाली जयाप्रदा, जीतेन्द्र, विनोद की फिल्म-३  
१४. 'एक बेचारा प्यार का माव' गीत वाली फिल्म-३  
१५. 'जो ब्रीच बर्जिया' गीत वाली अजय, शर्माणी मुखर्जी की फिल्म-२  
१६. विश्वजीत, वहीदा रहमान की फिल्म-३  
१७. 'आज पुष्पनी रहें' गीत वाली फिल्म-३  
१८. देवआनंद, हेमा मालिनी की फिल्म-३  
१९. 'आज सरे महफिल' गीत वाली फिल्म-२

फिल्म वर्ग पहेली - 2974



बायें से दायें  
१. शरीफ, नेकनीयत-5  
२. अस्थमा-2  
३. मां का भुई-2  
४. एकमात्र, सिर्फ एक-3  
५. अधिकांश-2  
६. सिर झुकाना-3  
७. दुर्घटना-4  
८. दूध फाड़कर बनाया जानेवाला पदार्थ-3  
९. राजदार-4  
१०. राजा की पत्नी-2  
११. वीज, वीय-2  
१२. मीठा पेय पदार्थ-4  
१३. अनुरोध, बाधा-4  
१४. मैला, अस्वच्छ-3  
१५. पानी, जल-2  
१६. पुत्र, लड़का-3  
१७. लाल, पार्थिव देह-2  
१८. धकावट-3  
१९. मन मोहने वाला-5

शब्द पहेली - 2975



ऊपर से नीचे  
१. समजवादी को माननेवाला अनुयायी-5  
२. अस्थमा-2  
३. राज्य, सलतनत-4  
४. तन, काय, देह-3  
५. रास्ता, मार्ग-2  
६. नखरा, भुगतान-2  
७. डोली उठाने वाले-3  
८. विजली, विद्युत रश्मि-3  
९. भद्रता, नेकनियत -4  
१०. कमल, पंकज-3  
११. बुखरा, च्वर ताप-4  
१२. आराम, मदद-3  
१३. शब्द पहेली - 2974 का हल





# विश्व कप में आज होगा हाईवोल्टेज मुकाबला, पाकिस्तान के खिलाफ उतरेगी टीम रोहित

-डेंगू बुखार से उबर कर नेट पर अभ्यास कर रहे शुभमन गिल

अहमदाबाद (एजेंसी)। शनिवार के हाईवोल्टेज भारत-पाकिस्तान के मुकाबले से एक दिन पहले भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल डेंगू बुखार से उबर कर नेट पर अभ्यास कर रहे हैं। जिससे उनकी पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप मैच में खेलने की संभावना बढ़ गई है। यह 22 वर्षीय खिलाड़ी अस्वस्थ होने के कारण ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के खिलाफ पहले दो मैचों में नहीं खेल सका था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच में उन्हें आतिम एकादश में जगह मिल सकती है। असल में टीम प्रबंधन ने टीम के अहमदाबाद पहुंचने से पहले गिल के लिए विशेष अभ्यास सत्र का आयोजन किया। इसकारण उसने बाएं हाथ के श्रोडान विशेषज्ञ नुवान सेनेविरले को अहमदाबाद जाने के लिए कह दिया था। गिल सुबह 11 बजे नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे तथा टीम के डॉक्टर रिजवान की देखरेख में उन्होंने कुछ कसरत करने के बाद नेट पर अभ्यास किया। पाकिस्तान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज

शाहीन शाह अफरीदी की 'इनडिपर को ध्यान में रखकर उन्होंने श्रीलंका के विशेषज्ञ सेनेविरले के 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किए गए शोडान पर अभ्यास किया। साथ ही उन्होंने कुछ नेट गेंदबाजों का भी सामना किया। इस दौरान वह सहज नजर आ रहे थे। गिल को टीम में शामिल करने का फैसला करने से पहले मुख्य कोच राहुल द्रविड और चिकित्सा टीम शुक्रवार को होने वाले अभ्यास सत्र में उनकी प्रगति पर गौर करने वाले हैं। उधर, रोहित शर्मा का संतुलन, विराट कोहली का जज्बा और जसप्रीत बुमराह की कलात्मकता भारत को आज विश्व कप मैच में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ जीत का प्रबल दावेदार बनाते हैं। इस मुकाबले का हालांकि सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ भी है और इसका असर 22 गज की पिच के इतर भी होगा। कागज पर भारत कहीं बेहतर टीम है और बल्लेबाजी क्रम में कई स्टार मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के नजरिए से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी का पहला स्पेल काफी महत्वपूर्ण होगा। यह एक ऐसा मैच है जहां भावनात्मक पहलू भी भूमिका निभाते हैं और इसने पिछले कुछ वर्षों में समान संख्या में नायक और खलनायक पैदा



किए हैं।

जावेद मियांदाद और चेतन शर्मा, सलीम मलिक और मनिंदर सिंह, अजय जडेजा और वकार युनिस, ऋषिकेश कानिटरक और सकलेन मुश्ताक, सचिन तेंदुलकर और शोएब अख्तर, विराट कोहली और वहाब रिजान, जोगिंदर शर्मा और मिसबाह उत हक (टी20 विश्व कप में) से पृष्ठें। यह प्रतिवोगिता पीढ़ा और परम आनंद, खुशी

और दिल तोड़ने वाले उदाहरणों से भरी हुई है, जो कभी खत्म नहीं होते। डेंगू के बाद गिल अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं और अगर वह शाहीन के साथ वहीं करने के लिए तैयार हैं जो उन्होंने कोलंबो में एशिया कप में पावरप्ले में आधा दर्जन चौकों के साथ किया था, तब पाकिस्तानी टीम का हासला तोड़ने का आधा काम हो जाएगा। खराब मौसम का पूर्वानुमान है लेकिन

दोनों ही टीमों इस प्रकार हैं

भारत- रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, रविंद्र जडेजा, शार्दूल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन इशान किशन, सूर्यकुमार यादव।

पाकिस्तान-बाबर आजम (कप्तान), शादाब खान, फखर जमा, इमाम-उल-हक, अब्दुल्ल शफीक, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, उस्मान मीर, हारिस राउफ, हसन अली, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद वसीम।

कोई नहीं चाहता कि क्रिकेट के मुकाबले में बाधा पड़े। मोहम्मद रिजवान ने श्रीलंका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और अब्दुल्ल शकील ने अपना स्तर दिखाया। सऊद शकील किसी भी दिन मैच का रुख बदल सकते हैं लेकिन पाकिस्तान की बल्लेबाजी उसके कप्तान बाबर आजम पर निर्भर है। कुलदीप यादव के साथ बाबर की भिड़त रोमांचक होगी। अभी भी इस्तरह के लोग बड़ी संख्या में हैं जो सोचते हैं कि 'विश्व कप जीते या नहीं, बस पाकिस्तान को हरा दें।

## शुभमन को मिला सितंबर माह के लिए आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड



दुबई (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को सितंबर महीने के लिए पुरुष वर्ग से आईसीसी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। आईसीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, शुभमन ने सितंबर के दौरान 80 की औसत से 480 रन एकदिवसीय में बनाये थे। इस प्रकार उन्होंने इस पुरस्कार को दौड़ में शामिल मोहम्मद सिराज और इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज डेविड मलान को भी पीछे छोड़ दिया। शुभमन ने इस साल

एकदिवसीय में शानदार प्रदर्शन किया जिससे उन्हें आईसीसी पुरुष एकदिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में भी बढ़त मिली है। इस बल्लेबाज ने एशिया कप में भी 75.5 की औसत से सबसे ज्यादा 302 रन बनाए। एशिया कप के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए मोहाली में 74 रन और इंदौर में 104 रन बनाए। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने जाने पर शुभमन ने खुशी जतायी है।

## डुसेन एकदिवसीय में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने

लखनऊ। अफ्रीकी बल्लेबाज रासी वैन डुरे डुसेन ने एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी के दौरान एक अहम उपलब्धि हासिल की है। डुसेन 26 रन बनाते ही एकदिवसीय में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गये। डुसेन ने इस में पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज जहीर अब्बास और इंग्लैंड केविन पीटरसन का रिकॉर्ड बराबर किया है। एकदिवसीय में सबसे तेज 2000 रन का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के हाशिम आमला के नाम है। आमला ने 40 पारियों में ये रन बनाये हैं। वहीं डुसेन ने 45, इतनी ही पारियों में पाक के जहीर अब्बास और इंग्लैंड के पीटरसन ने भी ये रन बनाये। पाक के बाबर आमम ने 46 पारियों में ये रन बनाये।



## पाक के खिलाफ बुमराह के प्रदर्शन पर रहेंगी निगाहें

अहमदाबाद (एजेंसी)। टीम इंडिया के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने लंबे समय के बाद भी वापसी करते हुए अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है। अब सभी की नजरें शनिवार को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में बुमराह के प्रदर्शन पर रहेंगी। बुमराह ने अफगानिस्तान के खिलाफ हुए पिछे मुकाबले में 4 विकेट लिए थे पर वह अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं। बुमराह ने कहा कि पाक की

बल्लेबाजी और गेंदबाजी भी अच्छी है पर हम उनके बारे में सोचने की जगह पर अपने खेल पर ध्यान देंगे। इस तेज गेंदबाज ने कहा, हमने यह महसूस किया है हमें अपनी टीम और अपने मजबूत पक्ष को बेहतर बनाना चाहिए। इससे बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। साथ ही कहा कि हम इस मुकाबले के लिए अपनी तैयारियों के साथ उन बातों पर ध्यान दे रहे हैं जो हमारे बस में हैं।

## विश्वकप भारत-पाक मुकाबला: बाबर आजम की कप्तानी में इतिहास बदल सकेगी पाक टीम ?

अहमदाबाद (एजेंसी)। बाबर आजम की कप्तानी में उतरी पाकिस्तान टीम शनिवार को भारत के खिलाफ होने वाले विश्वकप मुकाबले में पहली जीत हासिल करना चाहेगी। आजम की टीम के लिए हालांकि ये आसान नहीं है क्योंकि पाक आज तक विश्वकप में भारत के खिलाफ नहीं जीती है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में ये एकदिवसीय विश्वकप में 8वां मौका होगा, जब भारत और पाक की टीमों आमने-सामने होंगी। इससे पहले सातों बार भारतीय टीम ही जीती है ऐसे में टीम चाहेगी, वहीं बाबर पाक को जीत दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे।

विश्व कप में अब तक दोनों ही टीमों शुरुआती दोनो मैच जीतकर उत्साह से भरी हैं। इसके बाद भी भारत के मुकाबले पाक की टीम कमजोर है। दो मैच जीतने के बावजूद भारत के खिलाफ मुकाबले में अगर उसे जीत दर्ज करनी है तो पहले अपनी तीन कमजोरियों को दूर करना होगा। अगर पाक ऐसा करने में विफल रहता है तो फिर आजम को जीत नहीं मिल पायेगी। टीम की सबसे बड़ी कमजोरी अभी कप्तान का खराब फार्म है। इस विश्व कप से पहले उन्हें ही पाकिस्तान की बल्लेबाजी का आधार माना जा रहा था पर श्रीलंका और नीदरलैंड्स दोनों के खिलाफ मैच में वह विफल रहे। इसके अलावा बाबर की कप्तानी भी नहीं चल रही है। वो मैच के



दौरान गेंदबाजों का सही बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा फील्डिंग जमाने करने में भी बाबर विफल रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ मैच में पाक की फील्डिंग बेहद खराब रही थी।

## भारत में जीतना बेहद कठिन पर हमारी टीम इसमें सक्षम : वोक्स

नई दिल्ली। इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने कहा है कि भारत में जीत दर्ज करना बेहद कठिन है फिर भी हमारी टीम विश्व कप में उसके खिलाफ जीत दर्ज कर सकती है। वोक्स ने माना कि भारतीय टीम ने अब तक अपने दोनो ही मैच जीते हैं जबकि गत चैंपियन इंग्लैंड की टीम को पहले ही मैच में न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा था। वोक्स ने कहा, 'भारत में जीतना बेहद कठिन होता है। ऐसे में मुझे लगता है कि उपमहाद्वीप की टीमें घरेलू हालातों में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम हैं। इंग्लैंड की 2019 की विश्व चैंपियन टीम के सदस्य रहे वोक्स का इसके बाद भी मानना है कि उनकी टीम में भारत को हराने की क्षमता है। भारत और इंग्लैंड की टीमों के बीच 29 अक्टूबर को लखनऊ में मुकाबला होगा। वोक्स ने कहा, 'हमारे लिए उन्हें सहजता से बाहर करना बेहद कठिन है पर हमारे पास इसके लिए सक्षम खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा, 'लोगों ने कुछ समय से हमें देखा है और सफेद गेंद के प्रारूप की टीम के रूप में दुनिया भर में हमसे सभी को बेहतर खेल की उम्मीदें हैं। वास्तविकता के इस खिलाड़ी ने कहा कि टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इंग्लैंड के खिलाड़ियों को अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण रखना होगा। वोक्स ने कहा, 'जीतने के लिए यह एक कठिन प्रतियोगिता है, क्या ऐसा नहीं है? खासकर यहां। लेकिन हम अच्छी चुनौती हैं। हम एक बार में एक मैच पर ध्यान दे रहे हैं। स्वाभाविक रूप से लोगों को हमारे से उम्मीदें हैं और हमें निश्चित रूप से खुद से उम्मीदें हैं। इंग्लैंड की टीम रविवार को नई दिल्ली में अफगानिस्तान से खेलेगी।



## अमेठी के भी युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जरूर जीतेंगे: पीएम मोदी

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेठी की स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी द्वारा अमेठी में सांसद खेल प्रतियोगिता-2023 के आयोजन के लिए उन्हें बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि अमेठी के भी युवा खिलाड़ी आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जरूर जीतेंगे। अमेठी सांसद खेल प्रतियोगिता के समापन सत्र को वीडियो संदेश के जरिए पीएम संबोधित कर रहे थे।

पीएम मोदी ने कहा कि देश में खेलों के लिए ये महीना बड़ा शुभ है। हमारे खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में मेडल को संतुष्टि लाया है। इन आयोजनों के बीच अमेठी के खिलाड़ियों ने भी खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। सांसद खेल-कूद प्रतियोगिता में शामिल हुए सभी खिलाड़ियों को वे बधाई देते हैं। इस प्रतियोगिता से आपको जो नई ऊर्जा और आत्मविश्वास मिला है, उसे आप भी महसूस करते होंगे, पूरे क्षेत्र के भी लोग महसूस करते होंगे।

पीएम ने कहा कि बीते 25 दिनों में आपको जो अनुभव मिला है, वो आपके स्पोर्टिंग करियर की बहुत बड़ी पूंजी है। वे आज हर उस व्यक्ति को भी बधाई देते हैं, जिसने शिक्षक की भूमिका में, निरीक्षक की भूमिका में, स्कूल एवं कॉलेज के प्रतिनिधि की भूमिका में, इस महा अभियान से जुड़कर इन युवा खिलाड़ियों को समर्थन एवं प्रोत्साहन दिया है। एक लाख से ज्यादा खिलाड़ियों का जुटना, जो भी इतने छोटे से पर्य्या में यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसके लिए वह विशेष रूप से अमेठी को सांसद बहन स्मृति इरानी को शुभकामना देते हैं, जिन्होंने इस आयोजन को इतना सफल बनाया।



प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों द्वारा चलाए जा रहे अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के संकड़ों सांसदों ने अपने-अपने क्षेत्र में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर समाज और देश के विकास का नया रास्ता तैयार किया है। इन प्रयासों का परिणाम देश को आने वाले वर्षों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। उन्हें विश्वास है कि अमेठी के भी युवा खिलाड़ी आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जरूर जीतेंगे और इसमें इस प्रतियोगिता से मिला अनुभव भी बहुत काम आएगा।

प्रधानमंत्री ने खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए आगे कहा कि जब कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है वो कैसे खुद को, अपनी टीम को विजयी बनाए। आज पूरा देश खिलाड़ियों की तरफ ही सोच रहा है। खिलाड़ी भी जब खेलते हैं तो राष्ट्र प्रथम की सोच रखते हैं। उस क्षण वो सब कुछ दांव पर लगाकर देश के लिए ही खेलते हैं, इस समय देश भी एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहा है। भारत को विकसित बनाने में देश के हर

जिले के हर नागरिक को भूमिका है। इसके लिए हर क्षेत्र को एक भाव, एक लक्ष्य और एक संकल्प से आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी सोच से सरकार देश में युवाओं के लिए टारगेट ओलंपिक पॉडियम स्कीम और खेलो इंडिया गेम्स जैसी योजनाएं चला रही है। आज संकड़ों एथलीट्स को टारगेट ओलंपिक पॉडियम स्कीम के तहत देश विदेश में ट्रेनिंग और कोचिंग दिलवाए जा रही है। इन प्लेयर्स को करोड़ों रुपये की सहायता दी जा रही है। खेलो इंडिया गेम्स के तहत भी 3 हजार से ज्यादा खिलाड़ियों को 50 हजार रूपए महीने की मदद दी जा रही है। इससे वो अपनी ट्रेनिंग, डाइट, कोचिंग, किट, जरूरी इक्विपमेंट्स और अन्य खर्च पूरा कर पा रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि बदलते हुए आज के भारत में छोटे-छोटे शहरों के टैलेट को खुलकर आगे आने का मौका मिल रहा है। अगर आज स्टार्ट अप्स में भारत का इतना नाम है, तो उसमें छोटे शहरों के स्टार्ट अप्स की बड़ी भूमिका है। बीते वर्षों में आपने देखा होगा कि स्पॉट्स की दुनिया में छा जाने वाले बहुत सारे नाम, छोटे शहरों से ही निकलकर आए हैं। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आज भारत में पूरी पारदर्शिता से युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। एशियन गेम्स में भी मेडल जीतने वाले एथलीट्स बहुत बड़े बड़े शहरों से नहीं आए हैं। इनमें से बहुत से खिलाड़ी छोटे-छोटे शहरों से ही हैं। उनकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए हमने उन्हें हर संभव सुविधाएं दी हैं। उसका परिणाम इन एथलीट्स ने दिया है। हमारे उत्तर प्रदेश की अन्नू नारी, पारुल चौधरी के प्रदर्शन ने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। इसी धरती ने देश को सुधा सिंह जैसी एथलीट भी दी है। हमें ऐसे ही टैलेट को बाहर निकालकर, उसे निखारकर आगे बढ़ाना है। और ये 'सांसद खेल प्रतियोगिता' इसका भी बहुत बड़ा माध्यम है।

## नीरज 'मैस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड' की रेस में शामिल



नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के ओलंपिक स्वर्ण विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 'मैस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड' की दौड़ में शामिल हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ने इस पुरस्कार के लिए जिन 11 एथलीटों के नाम जारी किये हैं। उसमें नीरज का नाम भी शामिल है। इसमें नीरज के अलावा शानदार प्रदर्शन करने वाले रयान क्रौडसर (अमेरिका), मोडो डुलाटिस (स्वीडन), सुफियान एल बक्काली (मोरक्को), जैकब इंग्रिग्टेन (नॉर्वे), केल्विन किट्टम (केन्या), पियर्स लेपेज (कनाडा), नोह लाइल्स (अमेरिका) और अल्ब्यारो मार्टिन (स्पेन) के अलावा मिल्टियाडिस टेटोगलोट (यूनान) और कार्लिन वारहोल्म (नॉर्वे) को भी शामिल किया गया है।

चोपड़ा ने इस साल की शुरुआत में ही बुडोपेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद उन्होंने एशियाई खेलों में अपने खिताब को भी बनाये रखा। वहीं इससे पहले वह डायमंड लीग 2023 में दूसरे स्थान पर रहे थे। नीरज साल वर्ष 2023 के पुरुष विश्व एथलीट पुरस्कार के लिए चुने गए 11 एथलीटों में से एक हैं। वहीं इस पुरस्कार के लिए शामिल अमेरिका के स्मिटर नोह लायल्स 100 मीटर और 200 मीटर में विश्व चैंपियन हैं। उन्होंने बुडोपेस्ट 2023 में पुरुषों की 4 गुणा 100 मीटर रिले में अमेरिका के लिए स्वर्ण पदक जीता था। मोरक्को के सुफियान एल बक्काली, जो 3000 मीटर स्टीपलचेज में एक दिग्गज खिलाड़ी हैं। वह छह फाइनल में अपराजित रहे हैं। ओलंपिक चैंपियन ने इस साल की शुरुआत

में उन्होंने विश्व खिताब को डिफेंड भी किया था। पुरुषों के पोल वॉल्ट में मौजूदा विश्व चैंपियन स्वीडन के मोडो डुलाटिस भी 11 खिलाड़ियों की सूची में शामिल हैं। इसके साथ ही साथ 20 किमी और 35 किमी स्पर्धाओं में विश्व चैंपियन स्पेनिश रेश वॉकर अल्ब्यारो मार्टिन भी इस सूची में हैं।

उल्लेखनीय है कि मैस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड के लिए चुने गए एथलीटों का चयन एथलेटिक्स विशेषज्ञों के एक अंतरराष्ट्रीय पैनल द्वारा किया जाता है इसमें विश्व एथलेटिक्स के सभी छह महाद्वीपीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तीन-तरफा वोटिंग प्रक्रिया के द्वारा 13 या 14 नवंबर को विश्व एथलेटिक्स आतिम पांच फाइनलिस्ट एथलीटों का ऐलान करेगा।



'मुझे लगता है कि अगर हम चुनौतीपूर्ण होना चाहते हैं, तो आपको सभी परिस्थितियों में प्रयास करना होगा और रास्ता ढूँढना होगा। यह गेंदबाजों के लिए प्रयास करना और विकेट लेना है और बल्लेबाजों के लिए प्रयास करना और रन बनाना है।' इस परफॉर्मेंस से टीम में हर किसी को दुख हो रहा है। हमारे पास कुछ दिन हैं और अगला मैच भी यही है। तो हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत वेस्टइंडीज में भारत से छह विकेट की हार के साथ की और दक्षिण अफ्रीका से बड़ी हार का मतलब है कि उनका एनआरआर - 1.85 है और दस टीमों की अंक तालिका में नीचे स्थान पर है। दोनों मौकों पर बल्लेबाजी में विफल रहने के अलावा, ऑस्ट्रेलिया ने कई कैच भी छोड़े जो टीम की हार की वजह बनी। टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के लिए अमला मुकाबला 16 अक्टूबर को लखनऊ में श्रीलंका के खिलाफ है और हर हाल में ऑस्ट्रेलियाई टीम इसे जीतना चाहेगी।

## दिल्ली में 3 विदेशी नागरिक 40 करोड़ की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दो महिलाओं सहित तीन विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी के साथ, एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। पुलिस ने 6.044 किलोग्राम मेथाकालोन ड्रग और 2.058 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 40 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। आरोपियों की पहचान सियरा लियोन के मूल निवासी पॉल जॉय (29) के रूप में हुई है। जॉय इस समय उत्तर नगर के ओम विहार में किराए के मकान में रहता है। वहीं पीस इलोबे (37) एडो स्टेट नाइजीरिया का निवासी है और इस समय कृष्णापुरी में किराए के मकान में रहता है और स्टीफन (45) नाइजीरिया के आंकागी का निवासी है और इस समय मोहन गार्डन में किराए के मकान में रहता है। पुलिस के मुताबिक स्पेशल सेल को दिल्ली में ड्रग की तस्करी गतिविधियों में अफ्रीकी मूल के कई लोगों के शामिल होने की जानकारी मिली थी। विशेष पुलिस आयुक्त (विशेष प्रकोष्ठ) एचजीएस धालीवाल ने कहा कि इस जानकारी को और विकसित किया गया, जिससे दिल्ली में ड्रग कार्टेल के सदस्यों की पहचान हो सकी। 16 अक्टूबर को विशेष जानकारी से संकेत मिला कि दिल्ली में अफ्रीकी मूल की दो महिलाएं शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच रंगपुरी इलाके में शिव मूर्ति के पास आएंगी, उनके पास मेथाकालोन की खेप होने की उम्मीद है और वे बंगलुरु में संपर्क को ड्रग पहुंचाने के लिए अहमदाबाद जाने वाली बस में चढ़ने वाली थीं। एचजीएस धालीवाल ने कहा कि शाम लगभग 7:30 बजे पॉल जॉय और पीस इलोबे के रूप में पहचानी जाने वाली दो महिलाओं को महिपालपुर से आते हुए शिव मूर्ति के प्रवेश द्वार के पास काले बैकपैक के साथ देखा गया और बाद में उन्हें पकड़ लिया गया। जब

उन्हे सामान की तलाशी ली गई तो उसमें 5.032 किलोग्राम मेथाकालोन बरामद हुआ। पूछताछ करने पर दोनों महिलाओं ने दिल्ली, एनसीआर में अफ्रीकी मूल के व्यक्तियों के नेतृत्व वाले एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल में अपनी भागीदारी का खुलासा किया। उन्होंने खुलासा किया कि वे



अहमदाबाद के लिए एक निजी-संचालित बस में चढ़ने की योजना बना रही थीं, जहां से वे मेथाकालोन डिलीवरी के लिए बंगलुरु के लिए बस लेंगी। उन्होंने दिल्ली स्थित स्टीफन नामक अफ्रीकी नागरिक से मेथाकालोन खरीदने की बात स्वीकार की। जांच के दौरान आपूर्ति के मुख्य स्रोत और सिंडिकेट के सरगना के रूप में पहचाने गए स्टीफन को 10 अक्टूबर को मोहन गार्डन से गिरफ्तार किया गया था। एचजीएस धालीवाल ने आगे कहा कि उसके परिसर की तलाशी में 1.012 किलोग्राम मेथाकालोन और 2.058 किलोग्राम हेरोइन मिली, जिससे इस मामले में ड्रग्स की कुल बरामदगी 6.044 किलोग्राम मेथाकालोन और 2.058 किलोग्राम हेरोइन हो गई। गिरफ्तार किए गए तीनों ड्रग सप्लायर्स से शामिल होने की बात स्वीकार की। महिला वाहकों ने उल्लेख किया कि वे स्टीफन के निर्देशों के आधार पर दिल्ली, एनसीआर से बंगलुरु और मुंबई तक ड्रग्स पहुंचाती थीं।

## श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर हुई 37 प्रतिशत

नई दिल्ली। भारत में वर्ष 2023 में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 9 अक्टूबर को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर 4.2 प्रतिशत अंक बढ़कर 37 प्रतिशत हो गई है। साल 2021-22 में यह दर 32.8 प्रतिशत थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मुताबिक महिला श्रम बल भागीदारी दर में यह महत्वपूर्ण उछाल सरकार के दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक विकास के नीतिगत उपायों के माध्यम से सुनिश्चित हुआ है। महिला सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित निर्णायक एजेंडे के कारण श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी हो रही है। सरकार की पहल में लड़कियों की शिक्षा, कोशल विकास, उद्यमिता सुविधा और कार्यस्थल में सुरक्षा शामिल हैं। इन क्षेत्रों में नीतियां और कानून, सरकार के 'महिला-नेतृत्व वाले विकास' एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं।

## भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 37 नये मामले सामने आए

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 37 नये मामले सामने आए तथा उपचाराधीन मरीजों की संख्या 349 दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय द्वारा सुबह आठ बजे अद्यतन किये गये आंकड़ों के अनुसार, कोविड से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 5,32,037 हो गई है। देश में संक्रमण के अब तक 4,49,99,510 मामले सामने आ चुके हैं। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, संक्रमण से उबर चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,44,67,124 हो गयी है। संक्रमण से उबरने की दर 98.81 प्रतिशत, जबकि मृत्यु दर 1.18 प्रतिशत है। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, देश में अब तक कोविड-19 टीकों की 220.67 करोड़ खुराक दी जा चुकी है।

## गैंगस्टर अधिनियम मामले में सजा के खिलाफ मुख्तार अंसारी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गैंगस्टर अधिनियम से संबंधित 23 साल पुराने एक मामले में सजायाफता गैंगस्टर और राजनेता मुख्तार अंसारी की अर्जी पर उत्तर प्रदेश सरकार से शुक्रवार को जवाब मांगा। अंसारी ने मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पांच साल कैद की सजा सुनाए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में अर्जी दायर की थी, जिस पर योगी सरकार को नोटिस जारी किया गया है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बंस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने अंसारी की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। उच्च न्यायालय ने लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए अदालत द्वारा मामले में अंसारी को बरी किए जाने के फैसले को दिसंबर 2020 में पलट दिया था। विधि अदालत ने मऊ सदर निर्वाचन क्षेत्र से पांच बार विधायक रहे अंसारी को यह कहे हुए बरी कर दिया था कि 'अभियोजन पक्ष अंसारी के खिलाफ अपराध साबित नहीं कर सका।'

## छोटे कपड़ों में नाचना और इशारे करना नहीं है अश्लीलता

मुंबई। महिलाएं छोटे कपड़े पहनकर नाचती गायी है या इशारे करती है तो इसे अश्लीलता नहीं माना जा सकता है। ये टिप्पणी बॉम्बे हाई कोर्ट की है। कोर्ट का कहना है कि इसे अनेतिक कृत्य नहीं माना जा सकता है, जिससे कोई परेशान हो। सुनवाई के दौरान अदालत ने पांच लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 (अश्लीलता) के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द कर दी। जस्टिस विनय जोशी, और जस्टिस वाल्मीकि मेनेजैस की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, हमारा मानना है कि आरोपी क्रमांक 13 से लेकर 18 तक (महिला ड्रांसर) के छोटे स्कर्ट्स पहनना, उतेजक डांस करना या इशारे करने के कृत्य को, जिन्हें पुलिस अधिकारियों ने अश्लील माना, उन्हें अश्लील नहीं कहा जा सकता है। बेंच ने कहा कि वे भारतीय समाज के मौजूदा मानदंडों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज के समय में महिलाओं का ऐसे कपड़े पहनना सामान्य है और स्वीकार्य भी है। कोर्ट ने कहा, हम कई बार फिल्मों में कपड़े पहनने के तरीकों को देखते हैं, जिन्हें सेंसरशिप में पास कर दिया गया है या सौंदर्य प्रतियोगिताओं में ऐसा देखते हैं, जिससे किसी को परेशानी नहीं हो रही। इस मामले में धारा 294 लागू नहीं होती है। कोर्ट का कहना है कि अगर कृत्य सार्वजनिक जगह पर किया गया है, अश्लील हो या उससे किसी को परेशानी हो रही हो तो धारा 294 लगाई जा सकती है। हालांकि, ये मामला सार्वजनिक जगह पर ही था, लेकिन कोर्ट ने माना कि न तो वह अश्लील था और न ही उससे किसी को परेशानी हो रही थी। बता दें कि पुलिस ने रिजॉर्ट और वॉटर पार्क के बैंकेट हॉल पर छापा मारा था, जहां 6 महिलाएं कथित तौर पर छोटी स्कर्ट्स में नाच रही थीं और लोग उन पर नोट उड़ा रहे थे। पुलिस ने महिलाओं और पुरुषों, दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 5 पुरुषों के खिलाफ दर्ज प्रकरण रद्द कर दिया।

# अब दोनों देश मिलकर एलएसी पर बनाए रखेंगे शांति

## –भारत-चीन के बीच 20वें दौर की बातचीत में लिया गया निर्णय

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 20वें दौर की बातचीत हुई। यह मॉटिंग लद्दाख सेक्टर के चुशुल-मोल्दो के पास हुई। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, इस मॉटिंग में भारत-चीन के बीच लाइन ऑफ एंक्लूअर कंट्रोल सहित अन्य मसलों पर बातचीत हुई। भारत के सैन्य अधिकारी ने चीन पर लद्दाख के देपसांग और डेमचोक से अपनी सेना हटाने का दावा खला। भारत और चीन ने बॉर्डर इलाकों में जमीनी स्तर पर शांति बनाए रखने पर सहमति जताई है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में बताया कि दोनों देशों ने खुले और रचनात्मक तरीके से बातचीत की और अपने विचारों को साझा किया।

भारत की तरफ से 20वें दौर की बातचीत का नेतृत्व 14-कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राशिम बाली ने किया। वहीं, चीनी पक्ष की अगुआई साउथ



शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट चीफ ने किया। यह दूसरी बार है जब भारत-चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की मॉटिंग दो दिनों तक चली। इससे पहले 13 और 14 अगस्त को 19वें राउंड की मॉटिंग में दोनों देश के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर विवाद को हल करने पर सहमति बनी थी।

वहीं इससे पहले 23 अप्रैल को हुई सैन्य वार्ता के 18वें दौर की बातचीत में भी भारत ने डेपसांग और

डेमचोक में लॉबिंग मुद्दों को हल करने की कोशिश की थी। हालांकि, तब कुछ खास नतीजा नहीं निकला सका था। भारत हमेशा से कहता रहा है कि जब तक बॉर्डर इलाकों में शांति नहीं होगी तब तक चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते।

## -3 साल पहले गलवान झड़प के बाद बढ़ा तनाव

भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी पर करीब 3 साल पहले 2020 में हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 38 चीनी सैनिक मारे गए थे। हालांकि, चीन इसे लगातार छिपाता रहा। गलवान घाटी पर दोनों

देशों के बीच 40 साल बाद ऐसी स्थिति पैदा हुई थी। गलवान पर हुई झड़प के पीछे की वजह यह थी कि गलवान नदी के एक सिरे पर भारतीय सैनिकों अस्थाई पुल बनाने का फैसला लिया था। चीन ने इस क्षेत्र में अवैध रूप से बुनियादी ढांचे का निर्माण करना शुरू कर दिया था। साथ ही, इस क्षेत्र में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा था।

# दिल्ली की हवा में जहर बनने की हुई शुरुआत! वायु गुणवत्ता बिगड़ी, 15 अक्टूबर तक खराब श्रेणी में रहेगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता, जो पिछले कुछ दिनों से बिगड़ रही थी, अब 237 AQI के साथ 'खराब श्रेणी' में आ गई है और कल 14 अक्टूबर तक इसी श्रेणी में रहने की उम्मीद है। आईएमडी के पर्यावरण निगरानी और अनुसंधान के प्रमुख विजय कुमार सोनी के अनुसार, ऐसी संभावना है कि केंद्र शासित प्रदेश में हवा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, क्योंकि रविवार, 15 अक्टूबर को बारिश होने की उम्मीद है। यह बारिश धूल के कणों को कम करने और सुधार में मदद कर सकती है।

## दिल्ली की हवा की गुणवत्ता खराब

सोनी ने कहा कि बारिश के बाद संभावना है कि राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता 'मध्यम' या 'संतोषजनक' श्रेणी में आ सकती है। एएनआई ने सोनी के हवाले से कहा कल, AQI 'खराब' श्रेणी में

था। आज AQI 237 है, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। यह कल तक इसी श्रेणी में रहेगा। लेकिन 15 अक्टूबर के बाद बारिश होने की संभावना है, इससे AQI में सुधार हो सकता है और यह वापस 'मध्यम' या 'संतोषजनक' श्रेणी में आ जाएगा। पराली संकट राष्ट्रीय राजधानी में किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने धान के खेतों में जैव अपघटक (बायो-डिक्पोजर) के छिड़काव को लेकर शुक्रवार को एक अभियान शुरू किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार राजधानी में 2020 से पूसा जैव अपघटक एक माइक्रोबियल द्रव्य है, जो धान के अवशेषों को 15-20 दिनों में विघटित कर देता है। दिल्ली सरकार ने धान के खेतों में बायो-डीक्पोजर के छिड़काव का अभियान

## शुरू किया

अक्टूबर-नवंबर में दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी के पीछे पराली जलाने के लिए खेतों में लगाई गई आग एक प्रमुख कारण होता है। राय ने कहा कि सरकार ने पिछले साल 4,400 एकड़ धान के खेतों में जैव अपघटक का छिड़काव किया था और इस सीजन में 5,000 एकड़ भूमि को कवर किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि पंजाब में पराली बड़े पैमाने पर जलाई जाती है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि कृषि प्रधान राज्य में आप सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से खेतों में आग लगाने की घटनाओं में कमी आएगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, दिल्ली के पीएम 2.5 प्रदूषण में खेतों में जलाई गई पराली की अधिकतम हिस्सेदारी पिछले साल तीन नवंबर को 34 प्रतिशत और सात नवंबर 2021 को 48 प्रतिशत थी।

## कैलाश विजयवर्गीय का राहुल और प्रियंका पर बड़ा वार, बोले- दोनों ने झूठ के अलावा कुछ भी नहीं किया

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां कर रही है। राजनीतिक दलों का एक-दूसरे पर प्रहार भी जारी है। इन सब के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के साथ-साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर भी जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो झूठ के अलावा वे कुछ भी नहीं हैं। पिछले चुनाव में भी राहुल गांधी ने किसानों को धोखा दिया है। कांग्रेस अभी भी धान देने का काम कर रही है। भाजपा नेता ने कहा कि कल उन्होंने वन अधिकार के पट्टों को लेकर बोला, वन अधिकार के पट्टे सर्वाधिक भाजपा सरकार ने दिए। वनों में आदिवासियों के अधिकार को भाजपा ने सुरक्षित किया है। कांग्रेस जबरदस्ती झूठ बोलकर भाजपा पर आरोप लगा रही है। रंजितलाल, प्रियंका गांधी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश में एक सभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की परंपरा देखिए-वनाधिकार कानून आपके लिए लाया गया ताकि वनों पर पहला अधिकार आपका हो, क्योंकि यही आपकी संस्कृति है। इसे संरक्षित और मजबूत करने के लिए आपको वन अधिकार कानून दिया गया। यहां जो भी राजनीतिक नेता आता है वह तीन शब्दों का प्रयोग करता है- जल, जंगल, जमीन। लेकिन इसके अतिरिक्त अर्थ को समझना जरूरी है। क्या नेता सार्थक बात कर रहे हैं या ये आपके सामने आया एक 'जुमला' है। उन्होंने कहा कि यही कांग्रेस पार्टी की परंपरा और सिद्धांत रहा है। हम चाहते हैं कि देश की, राज्य की, आपके जिले की संपत्ति आपके हाथ में हो। हम चाहते हैं कि आप सशक्त बनें, आपको अपनी शक्ति मिले। जब आप विभिन्न पार्टियों के चुनावी भाषण सुनते हैं तो एक बात सोचते हैं - क्या वे आपकी सत्ता आपके हाथों में देंगे?

राहुल और प्रियंका पर बड़ा वार, बोले- दोनों ने झूठ के अलावा कुछ भी नहीं किया



## शीर्ष अदालत के आदेशों की अनदेखी नहीं कर सकते महाराष्ट्र विधानसभाध्यक्ष: उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कई विधायकों की अयोग्यता से संबंधित याचिका को फैंसला करने में देरी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के प्रति नाराजगी जताते हुए शुक्रवार को कहा कि वे 'शीर्ष अदालत के आदेशों की अनदेखी नहीं कर सकते।' प्रधान न्यायाधीश (सोबेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा, 'किसी को न्यायिक अधिकार के अभाव में अदालत के आदेशों की अनदेखी नहीं कर सकते' और 'सॉलिडर जनरल तुषार मेहता से इस मुद्दे पर निर्णय लेने की समयसीमा के बारे में शीर्ष अदालत को अवगत कराने को कहा। सोबेआई ने कहा कि

अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला अगले विधानसभा चुनाव से पहले लेना होगा, नहीं तो पूरी प्रक्रिया निरर्थक हो जाएगी। पीठ ने कहा कि अगर वह विधानसभा अध्यक्ष की समयसीमा से संतुष्ट नहीं होती तो वह निर्देश देगी कि निर्णय दो महीने के भीतर लिया जाये। पीठ ने कहा, 'भारत के संविधान के विपरीत फैसला होने पर इस अदालत की व्यवस्था को माना जाना चाहिए।' पीठ ने संकेत दिया कि वह याचिका पर सोमवार या मंगलवार को सुनवाई कर सकती है। उच्चतम न्यायालय ने गत 18 सितंबर को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया था कि शिंदे और अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले के लिए समयसीमा बताये।

# मध्य प्रदेश की जनता को 'मामा' ने दिया धोखा, अब 'चाचा' पर करें भरोसा- सीएम केजरीवाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी मध्य प्रदेश में एंट्री कर ली है। आप पार्टी के सीएम केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देने के लिए रविवार को सतना में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बिना किसी पार्टी का नाम लिए कहा कि उनकी सरकार पुरानी सरकारों के चोटलों और पुराने मंत्रियों द्वारा एकत्र किए गए पैसे निकलवाएंगी। सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि राज्य में एक 'मामा' है, जिन्होंने प्रदेश के भाजपा-भाजदियों को बहुत धोखा दिया है। लेकिन इस बार राज्य की जनता 'मामा' पर नहीं बल्कि अपने इस 'चाचा' पर भरोसा जताए।



सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली और पंजाब की जनता का मानना है कि आप पार्टी को कोई 50 सालों तक हरा नहीं सकता है। ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता से अपील है कि आप पार्टी को एक बार यहां से भी मौका दे, जिसके बाद लोग कांग्रेस और बीजेपी को भूल जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि

हमी पार्टी ईमानदार और देशभक्त लोगों की पार्टी है। ऐसे में अगर आप भी अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, अच्छे शिक्षा देना चाहते हैं, तो आप पार्टी आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेंगी। केजरीवाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अब आपका जनात से अपील है कि आप पार्टी को एक बार यहां से भी मौका दे, जिसके बाद लोग कांग्रेस और बीजेपी को भूल जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि

ही जब से उनकी पार्टी ने गारंटी देने शुरू की है। तब से बीजेपी भी गारंटी-गारंटी करने लगी है। बीजेपी के नेताओं ने कहा ने कहा कि कि वह लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपये डालेंगे। लेकिन उनकी गारंटी झूठी है। चुनाव आने पर यह लोग एक-दूसरे को गाली देने लगते हैं। लेकिन हमारी पार्टी लोगों की समस्याओं के समझती है। बता दें कि सीएम केजरीवाल ने इस सभा में गारंटियों की घोषणा की है।

# वायु सेना में जल्द शामिल होगी स्वदेशी एयर टू एयर एस्ट्रा एमके-1 मिसाइल

## - बीडीएल को स्वदेशी एयर टू एयर एस्ट्रा एमके-1 मिसाइलों के थोक उत्पादन की मंजूरी मिली

## -मिग-29, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 'तेजस' और नौसेना के मिग-29ए विमानों में लगेगी मिसाइल

नई दिल्ली (एजेंसी)। वायु सेना के हथियार खजाने में इस साल के अंत तक स्वदेशी एयर टू एयर एस्ट्रा एमके-1 मिसाइल शामिल हो जाएगी। इन मिसाइलों के थोक उत्पादन के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) को मंजूरी भी मिल गई है। हाल ही में तेजस विमान से भी इसका सफल परीक्षण

किया गया था। भारतीय वायु सेना और नौसेना पहले से एस्ट्रा मिसाइल का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन अब एस्ट्रा एमके-1 मिसाइलों को भारतीय वायु सेना के मिग-29ए विमानों के साथ लैस किया जाने की योजना है।

वायु सेना ने पहले ही इन मिसाइलों के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) के साथ 2 अनुबंध कर रखे हैं। अब स्वदेशी एस्ट्रा एमके-1 बियॉन्डविजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल की क्षमता 100 किमी. से बढ़ कर 160 किमी. कर दी गई है। साथ ही दोहरे पल्स रॉकेट मोटर की सहायता से 160 किमी. की विस्तारित सीमा के साथ एस्ट्रा एमके-2 को विकसित किया जाना है। भारतीय वायु सेना और नौसेना पहले से एस्ट्रा मिसाइल का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन अब एस्ट्रा

एमके-1 मिसाइलों को भारतीय वायु सेना के मिग-29, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 'तेजस' और भारतीय नौसेना के मिग-29ए विमानों के साथ लैस किया जा रहा है।

बीडीएल को स्वदेशी एयर टू एयर एस्ट्रा एमके-1 मिसाइलों के थोक उत्पादन की मंजूरी भी मिल गई है। हाल ही में तेजस विमान से भी इसका सफल परीक्षण किया गया था। वायु सेना के हथियार खजाने में इस साल के अंत तक स्वदेशी एयर टू एयर एस्ट्रा एमके-1 मिसाइल शामिल हो जाएगी। वायु सेना एस्ट्रा एमके-2 का स्टेटिक फायर करके परीक्षण कर चुकी है। आने वाले वर्षों में एस्ट्रा एमके-1 और एमके-2 एयर टू एयर क्षेत्र में भारतीय वायु सेना का मुख्य हथियार होगा। भारतीय वायु सेना के सुबुडो-30 एमकेआई लॉकड्रिगम पहले ही एस्ट्रा मिसाइलों के साथ एकीकृत है और इसका उत्पादन भारत डायनामिक्स लिमिटेड




कर रही है। लद्दाख सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद दोनों सेनाओं के लिए 248 स्वदेशी एस्ट्रा एमके-1 मिसाइल खरीदने का ऑर्डर किया गया था। इसमें 200 मिसाइलें वायु सेना के लिए और 50 नौसेना के लिए थीं। बियॉन्डविजुअल रेंज एयर-टू-एयर 50 मिसाइलों की पहली खेप भारतीय वायु सेना को अक्टूबर, 2020 में मिली थी। यह मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक काउंटर-

काउंटरमेशंस से लैस है, इसलिए दुश्मन के प्रयासों को नाकाम करके अपने ऑपरेशन को अंजाम देती है। एस्ट्रा एमके-1 मिसाइल 3.6 मीटर (12 फीट) लंबी है और 4.5 मैक की गति तक अधिकतम 20 किमी. (66 हजार फीट) की ऊंचाई से संचालित हो सकती है। इसकी अधिकतम सीमा हैड-ऑन चेंस मोड में 110 किमी. (68 मील) और टेल चेंस मोड में 20 किमी. (12 मील) है।

## संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। संजय सिंह की तीन दिन की ईडी हिरासत की अवाधि समाप्त होने पर उन्हें राउज एन्व्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के समक्ष पेश किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के



बाद जज ने उन्हें 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सिंह ने शुक्रवार को ही अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। हाई कोर्ट सिंह की याचिका पर शुक्रवार को ही सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया जब उनके वकील ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव

नरुला की खंडपीठ के समक्ष मामले को तत्काल सुचीबद्ध करने का उल्लेख किया। सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देते हुए कहा है कि वितीय जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया है। सिंह की ओर से बहस करने वाली वरिष्ठ वकील रेवेका जॉन ने दावा किया कि ईडी के पास मामले में उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग करने का कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा, 'मैं (सिंह) आपके मनगढ़ंत आरोपों पर दोष नहीं स्वीकार करूंगी।' अदालत ने सिंह को पेशी के दौरान मीडिया से बात नहीं करने का भी निर्देश दिया था और कहा था कि इससे सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। जज ने पत्रकारों को यह भी निर्देश दिया कि वे उनसे सवाल न पूछें। वितीय जांच एजेंसी ने 4 अक्टूबर को नॉर्थ एन्व्यू इलाक में उनके आवास पर तलाशी लेने के बाद सिंह को गिरफ्तार किया था।

# सिख गुरुओं का ऋणी है देश: अमित शाह



नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश सिख गुरुओं का ऋणी है। समाज और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका वंदनीय है। शाह ने शुक्रवार को 'दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी' की ओर से आईसीएआर कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सिख पंथ की गुरु परंपरा को वह शीघ्र झुका कर प्रणाम करते हैं। सिख पंथ की 10 पीढ़ियों की गुरु परंपरा ने आक्रान्ताओं के सामने अन्याय और बर्बरता के खिलाफ संघर्ष और बलिदान का उक्तष्ट उदाहरण दुनिया के सामने रखा है।

का उपदेश दिया। कर्नाटक से लेकर मक्का तक उनके चरण मिले हैं। बिना किसी स्वार्थ के प्रेम के संदेश के लिए उस जमाने में पैदल चल कर इतनी यात्रा करने की थी। सालों पहले जब सभी मजहब अपने-अपने पंथ को लेकर युद्ध लड़ रहे थे, उस दौरान नानक देव साहब से लेकर दशम पिता तक जो उपदेश दिए, उन उपदेशों पर आज पूरी दुनिया चल रही है। शाह ने कहा कि सिख समुदाय धर्म व कर्म दोनों को समान रूप से लेकर आगे चलता है। धर्म के लिए जान देने की बारी आती है, तो एक सच्चा सिख कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखता। देश की आजादी से लेकर आज देश की सुरक्षा तक सिख भाइयों का बलिदान सबसे अधिक है।

शाह ने कहा कि गुरुनानक देव जी ने अपने जीवन में 'चार उदासियां' से कई देशों के अंदर सर्वधर्म समभाव

## फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा, देश अपने यहूदी नागरिकों की रक्षा करेगा

### – फलस्तीन समर्थक प्रदर्शनों पर रोक

पेरिस । हमारा द्वारा इजराइल पर हमला करने के बाद से यहूदी विरोधी घटनाओं के बढ़ने के मद्देनजर फ्रांस के गृह मंत्री ने सभी फलस्तीन समर्थक प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांसीसी लोगों से आग्रह किया है कि वे पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का असर अपने देश पर नहीं पड़ने दें। मैक्रों की ओर से पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बारे में राष्ट्र को संबोधित करने से ठीक पहले पेरिस की पुलिस ने फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और उन पर पानी की बोछारें डालीं। इन लोगों ने प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए इजराइल की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। मैक्रों ने कहा, हमें वैचारिक जोखिम यहां( फ्रांस) नहीं लाना चाहिए। हम अंतरराष्ट्रीय



मतभेदों में राष्ट्रीय विभेद नहीं जोड़े। हमें एकजुट रहना चाहिए...। माना जा रहा है कि हमारा से कई फ्रांसीसी- इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया है। मैक्रों ने कहा कि फ्रांस अपने यहूदी नागरिकों की रक्षा करेगा। साथ ही उन्होंने फ्रांस में रहने वाले मुसलमान समुदाय के लोगों के प्रति बढ़ते शत्रुता के भाव को लेकर भी चिंता व्यक्त की। गृह मंत्री गेराल्ड तर्मिनन ने स्थायी प्रशासन को यहूदी स्कूलों, प्रार्थनास्थलों और अन्य स्थानों के आसपास सुरक्षा को और मजबूत करने का निर्देश दिया। निर्देश में कहा गया है कि फलस्तीन के समर्थन में होने वाले प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और जो लोग प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

## अफगानिस्तान में फिर आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 4.6 रही तीव्रता

काबुल। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने जानकारी दी कि शुक्रवार को अफगानिस्तान में रिक्टर स्केल पर 4.6 तीव्रता का भूकंप आया। इस सप्ताह गरीब देश में आया यह दूसरा भूकंप है। शुक्रवार सुबह 6:39 बजे ( आईएसटी) देश में 50 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप की तीव्रता 4.6 आंकी गई। इससे पहले, 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान में रिक्टर पैमाने पर 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था, नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने जानकारी दी थी। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज ( जीएफजेड ) ने कहा कि 11 अक्टूबर को उत्तर-पश्चिमी अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की जान चली गई और निवासियों में दहशत फैल गई, जो पहले से ही सिलसिलेवार झटकों से त्रस्त थे और सप्ताहांत में लगभग 2,000 लोग मारे गए थे। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, नवीनतम तीव्रता 6.3 का भूकंप हेरात प्रांत की राजधानी हेरात के बाहर लगभग 28 किलोमीटर ( 17 मील) और 10 किलोमीटर ( 6 मील) गहराई पर था।

## अमेरिका ने बांग्लादेश के लिए लेवल–2 का यात्रा परामर्श जारी किया

वाशिंगटन । अमेरिका ने बांग्लादेश के लिए लेवल–2 का यात्रा परामर्श जारी कर अपने नागरिकों से बांग्लादेश यात्रा को लेकर सावधानी बरतने का आग्रह किया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपराध, आतंकवाद, अपहरण और हाल में हुई घटनाओं से संबंधित जानकारीयों की आवधिक समीक्षा करने के बाद फिर से परामर्श जारी किया है, जिसमें अमेरिकी नागरिकों से बांग्लादेश में अधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, अपराध, आतंकवाद और आम चुनाव के कारण कुछ इलाकों में खतरा बढ़ गया है। अमेरिका ने सांप्रदायिक हिंसा, अपराध, आतंकवाद, अपहरण और अन्य सुरक्षा खतरों की वजह से चटगांव पहाड़ी क्षेत्र की यात्रा करने वाले अपने नागरिकों से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, यात्रियों को भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाते वक्त जेबकतरने जैसे तुच्छ अपराधों के प्रति सावधान रहना चाहिए। बांग्लादेश के प्रमुख शहरों में डकैती, चोरी, हमले और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मामले अधिक होते हैं हालांकि इसतरह के कोई संकेत नहीं हैं कि विदेशियों को उनकी राष्ट्रीयता के कारण निशाना बनाया जा रहा है। ये अपराध हालात, समय और स्थान पर निर्भर करते हैं। मंत्रालय के मुताबिक, आतंकवादी हमले हो सकते हैं, जिसकी भनक न के बराबर होती है। इतना ही नहीं आतंकवादी पर्यटक स्थानों, परिवहन केंद्रों, बाजार/शांतिग मॉल, रेस्तरां, पूजा स्थलों, स्कूल परिसरों और सार्वजनिक स्थलों को निशाना बनाते हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श के मुताबिक, जनवरी 2024 से पहले आम चुनाव होने की संभावना है और राजनीतिक दलों ने रैलियां व अन्य चुनावी गतिविधियां पहले ही शुरू कर दी हैं।

## अमेरिका ने अपने नागरिकों को दी सलाह : बांग्लादेश में जेबकतरां से रहें सावधान

वाशिंगटन । बांग्लादेश में इन दिनों सांप्रदायिक हिंसा, अपराध, आतंकवाद, अपहरण और जेबकतरी लगातार बढ़ रही है। इन घटनाओं से चिंतित अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उसमें गया है कि बांग्लादेश की यात्रा करने वाले नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जेबकतरी ज्यादा होती है, ऐसे में सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बता दें इससे पहले इसी तरह की एडवाइजरी कनाडा भी जारी कर चुका है। अमेरिका ने बांग्लादेश के लिए लेवल–2 का यात्रा परामर्श जारी किया और अपने नागरिकों से उस एशियाई राष्ट्र की यात्रा को लेकर सावधानी बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने अपराध, आतंकवाद, अपहरण और हाल में हुई घटनाओं से संबंधित जानकारीयों की आवधिक समीक्षा करने के बाद फिर से परामर्श जारी किया है, जिसमें उसने अपने नागरिकों से बांग्लादेश में अधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, अपराध, आतंकवाद और आगामी आम चुनाव के कारण कुछ इलाकों में खतरा बढ़ गया है। बांग्लादेश के प्रमुख शहरों में डकैती, चोरी, जेबकतरी, हमले और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मामले अधिक होते हैं हालांकि ऐसे कोई संकेत नहीं हैं कि विदेशियों को उनकी राष्ट्रीयता के कारण निशाना बनाया जा रहा है। ये अपराध हालात, समय और स्थान पर निर्भर करते हैं।

आतंकी हमलें की संभावना

मंत्रालय के मुताबिक, आतंकवादी हमले हो सकते हैं, जिसकी भनक न के बराबर होती है। इतना ही नहीं आतंकवादी पर्यटक स्थानों, परिवहन केंद्रों, बाजार/शांतिग मॉल, रेस्तरां, पूजा स्थलों, स्कूल परिसरों और सार्वजनिक स्थलों को निशाना बनाते हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श के मुताबिक, जनवरी 2024 से पहले आम चुनाव होने की संभावना है और राजनीतिक दलों ने रैलियां व अन्य चुनावी गतिविधियां पहले ही शुरू कर दी हैं। जैसे-जैसे आम चुनाव नजदीक आगे वैश्व-वैश्व चुनावी रैलियों की गति बढ़ जाएगी और प्रदर्शन भी हो सकते हैं। परामर्श के मुताबिक, बांग्लादेश की यात्रा करने वाले यात्रियों को सतर्कता बरतनी चाहिए। शांतिपूर्ण दिखने वाले प्रदर्शन कभी भी संघर्ष में तब्दील हो सकता है।

## नकदी संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने किया चीन के साथ बड़ा ऋण समझौता

कोलंबो । इन दिनों नकदी संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने चीन के साथ एक बड़ा ऋण समझौता किया है। यह जानकारी श्रीलंका की सरकार ने चीन के साथ अपने ऋणों के पुनर्गठन पर एक प्रारंभिक समझौता करने की पुष्टि करते हुए दी है। इसे नकदी संकट से जूझ रहे देश के आर्थिक सुधार में एक ‘बड़े कदम’ के तौर पर देखा जा रहा है। वित्त मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी एक बयान के अनुसार, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ़ श्रीलंका की सरकार को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि वह चीन के निर्यात-आयात बैंक के साथ ऋण पुनर्गठन के प्रमुख सिद्धांतों और सांकेतिक शर्तों पर एक समझौते पर पहुंच गई है। श्रीलंका पर 46 अरब अमेरिकी डॉलर का विदेशी ऋण है, जिसमें से करीब 52 प्रतिशत उसे चीन से मिला है। बयान में कहा गया है कि सैद्धांतिक रूप से समझौते में करीब 4.2 अरब अमेरिकी डॉलर का बकाया ऋण शामिल है। उन्होंने बताया कि यह श्रीलंका की दीर्घकालिक ऋण स्थिरता को बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और त्वरित आर्थिक सुधार का मार्ग प्रशस्त करेगा। पुनर्गठन की जिन शर्तों पर सहमति बनी है, उससे श्रीलंका को अपने सुधार एजेंडे को लागू करने का मौका मिलेगा।

# इजराइल की दो टूक, 24 घंटे के अंदर उत्तरी गाजा को खाली कर दिया जाए

## – ईरान ने दी चेतावनी, युद्ध अन्य मोर्चों पर खुल सकता

**तेल अवीव ( एजेंसी)।** इजराइल ने गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। इस बीच, ईरान ने तनाव बढ़ने के खतरे को चेतावनी देकर कहा कि अगर इजरायल का आक्रमण जारी रहा, तब युद्ध अन्य मोर्चों पर शुरू हो सकता है। हमारा के साथ संघर्ष छटे दिन में प्रवेश कर गया है और इजरायली सेना ने सर्भावित जमीनी आक्रमण की तैयारी कर गाजा पट्टी पर हमला जारी रखा है। हमारा के आतंकियों ने 150 लोगों को बंधक बना लिया है। उधर इजराइल ने कहा है कि जब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा तब तक वह अपनी घेराबंदी नहीं हटाएगा। इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा को 24 घंटे के भीतर खाली करने का आदेश दिया, यह क्षेत्र 1.1 मिलियन लोगों का घर है, जो क्षेत्र की लगभग आधी आबादी है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने विनाशकारी मानवीय परिणामों के बिना आदेश को असंभव कहा।

गाजा पट्टी में अपने हमले के लिए समर्थन जुटाने के प्रयास में, इजराइल ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और नाटो रक्षा मंत्रियों को मृत बच्चों और नागरिकों की ग्राफिक छवियां दिखाईं, और कहा कि वे हमारा के द्वारा मारे गए थे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली समुदायों पर घातक हमले के बाद हमारा को नष्ट करने की कसम खाई है। हालांकि, गाजा मानवीय तबाही के कगार पर है, क्योंकि मरने वालों की संख्या 1,500 से अधिक हो गई है और महत्वपूर्ण आपूर्ति कम हो गई है। इजरायली हवाई हमले ने गाजा शहर के शांति शरणार्थी शिविर में एक शरणार्थी शिविर को बर्बाद कर दिया है। यह हमला हमारा आतंकवादियों द्वारा किए गए बहु-मोर्चे के हमले के बाद तीव्र बमबारी का हिस्सा था, जिसमें 1,300 से अधिक इजरायली मारे गए थे। हवाई हमलों के परिणामस्वरूप 1,500 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ईरान के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने अपनी बमबारी बंद नहीं की, तब युद्ध अन्य मोर्चों पर खुल सकता है। जबकि ईरान हमारा के हमलों में शामिल होने से इनकार करता है। रिपोर्ट के अनुसार, 12 अक्टूबर, 2023 तक, इजरायली

तोपखाने हमारा शासित गाजा पट्टी पर हर 30 सेकंड में गोलीबारी कर रहे हैं। इजरायली सेना ने कहा कि शनिवार से जब उसने हमारा के ठिकानों पर हमला करना शुरू किया, तब से उसने गाजा पर लगभग 6,000 हथियारों से बमबारी की है, जिसमें कुल 4,000 टन विस्फोटक थे। इजराइल ने सूचित किया कि उसने हमारा द्वारा शासित क्षेत्र पर जमीनी आक्रमण की अटकलों के बीच उत्तरी गाजा के 1.1 मिलियन निवासियों को 24 घंटे के भीतर दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने तेल अवीव से विनाशकारी परिणामों से बचने के लिए अपना निकासी आदेश वापस लेने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दान ने गाजा के निवासियों को इजराइल की प्रारंभिक चेतावनी पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को अपमानजनक बताया, कहा कि उसे हमारा की निंदा करने और इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारा के अचानक हमले के जवाब में, इजराइल ने 360,000 जलशयों को इकट्ठा किया है, गाजा के पास बड़ी ताकतें जुटाई हैं,

इजरायली हवाई हमले ने गाजा शहर के शांति शरणार्थी शिविर में एक शरणार्थी शिविर को बर्बाद कर दिया है। यह हमला हमारा आतंकवादियों द्वारा किए गए बहु-मोर्चे के हमले के बाद तीव्र बमबारी का हिस्सा था, जिसमें 1,300 से अधिक इजरायली मारे गए थे। हवाई हमलों के परिणामस्वरूप 1,500 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ईरान के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने अपनी बमबारी बंद नहीं की, तब युद्ध अन्य मोर्चों पर खुल सकता है। जबकि ईरान हमारा के हमलों में शामिल होने से इनकार करता है। रिपोर्ट के अनुसार, 12 अक्टूबर, 2023 तक, इजरायली

तोपखाने हमारा शासित गाजा पट्टी पर हर 30 सेकंड में गोलीबारी कर रहे हैं। इजरायली सेना ने कहा कि शनिवार से जब उसने हमारा के ठिकानों पर हमला करना शुरू किया, तब से उसने गाजा पर लगभग 6,000 हथियारों से बमबारी की है, जिसमें कुल 4,000 टन विस्फोटक थे। इजराइल ने सूचित किया कि उसने हमारा द्वारा शासित क्षेत्र पर जमीनी आक्रमण की अटकलों के बीच उत्तरी गाजा के 1.1 मिलियन निवासियों को 24 घंटे के भीतर दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने तेल अवीव से विनाशकारी परिणामों से बचने के लिए अपना निकासी आदेश वापस लेने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दान ने गाजा के निवासियों को इजराइल की प्रारंभिक चेतावनी पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को अपमानजनक बताया, कहा कि उसे हमारा की निंदा करने और इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारा के अचानक हमले के जवाब में, इजराइल ने 360,000 जलशयों को इकट्ठा किया है, गाजा के पास बड़ी ताकतें जुटाई हैं,

इजरायली हवाई हमले ने गाजा शहर के शांति शरणार्थी शिविर में एक शरणार्थी शिविर को बर्बाद कर दिया है। यह हमला हमारा आतंकवादियों द्वारा किए गए बहु-मोर्चे के हमले के बाद तीव्र बमबारी का हिस्सा था, जिसमें 1,300 से अधिक इजरायली मारे गए थे। हवाई हमलों के परिणामस्वरूप 1,500 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ईरान के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने अपनी बमबारी बंद नहीं की, तब युद्ध अन्य मोर्चों पर खुल सकता है। जबकि ईरान हमारा के हमलों में शामिल होने से इनकार करता है। रिपोर्ट के अनुसार, 12 अक्टूबर, 2023 तक, इजरायली

तोपखाने हमारा शासित गाजा पट्टी पर हर 30 सेकंड में गोलीबारी कर रहे हैं। इजरायली सेना ने कहा कि शनिवार से जब उसने हमारा के ठिकानों पर हमला करना शुरू किया, तब से उसने गाजा पर लगभग 6,000 हथियारों से बमबारी की है, जिसमें कुल 4,000 टन विस्फोटक थे। इजराइल ने सूचित किया कि उसने हमारा द्वारा शासित क्षेत्र पर जमीनी आक्रमण की अटकलों के बीच उत्तरी गाजा के 1.1 मिलियन निवासियों को 24 घंटे के भीतर दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने तेल अवीव से विनाशकारी परिणामों से बचने के लिए अपना निकासी आदेश वापस लेने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दान ने गाजा के निवासियों को इजराइल की प्रारंभिक चेतावनी पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को अपमानजनक बताया, कहा कि उसे हमारा की निंदा करने और इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारा के अचानक हमले के जवाब में, इजराइल ने 360,000 जलशयों को इकट्ठा किया है, गाजा के पास बड़ी ताकतें जुटाई हैं,

# हमारा-इजरायल-आक्रमण : इजरायल ने गाजा पर की ताबड़तोड़ बमबारी, अब कभी भी छिड़ सकती है जमीन पर लड़ाई

**तेल अवीव/यरुशलम ( एजेंसी)।** फिलिस्तीन के कुख्यात आतंकवादी संगठन हमारा के इस महाने की सात तारीख को इजरायल पर किए गए दिल दहला देने वाले हमले से गाजा पट्टी में मरघट जैसा सन्नाटा है। इजरायल की सेना ने कहा है कि तब से इस लड़ाई में उसके देश ने 189 सैनिकों सहित 1,200 से अधिक नागरिकों को खो दिया। इजरायल में घुसे करीब 1,500 हमारा आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। गाजा में भी हमारा के सैकड़ों आतंकी मारे गए हैं। गाजा के अधिकारियों के अनुसार, उनके 1,417 लोग मारे गए और 6,500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में इजरायल के सैन्य स्रोतों के हवाले से कहा गया है कि गाजा में अब तक 3,500 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए गए हैं। इस बमबारी में हमारा के एक शीर्ष आतंकवादी और गुर्गों को निशाना बनाया गया। इजरायल के रक्षामंत्री योयव गैलेट ने कहा कि हमारा गाजा का आईएस है। वह ईरान के पैसों पर फलता-फूलता है। इजरायल उसके एक भी गुर्ग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। पिछले शनिवार को हमलावर हमारा आतंकवादियों ने नरसंहार के दौरान आईएस के झंडे लहराए थे।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हमारा का हर लड़ाका अब ‘मुर्दा’ है। यह आतंकवादी इजरायल में खूनी तांडव मचाने वाली हमारा की सबसे खतरनाक विंग ‘नुखबा फोर्स’, हाईटेक हथियारों से लैस

अंजाम देने के लिए ट्रेड किया गया है। इजराइल को निशाना बनाकर घात लगाकर हमले करने के अलावा, वे हमारा के वरिष्ठ नेताओं और उनकी सुविधाओं की सुरक्षा करने का भी काम करते हैं। इसके सदस्यों को बंधक बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है, यह एक ऐसी रणनीति है जिससे हमारा अपनाता है। अल-नुखबा के सदस्यों को विभिन्न विषयों में कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, जिसमें हथियारों और विस्फोटकों को संभालना, स्कूबा डाइविंग और हाथ से हाथ का मुकाबला शामिल है। मैदान पर, वे आम तौर पर परिष्कृत असॉल्ट राइफलों, स्नाइपर राइफलों और मशीनगनों से लैस होते हैं। उनके पास रॉकेट चालित ग्रेनेड और एटी टैंक मिसाइलों तक भी पहुंच है। अल-नुखबा इकाइयों 2014 के गाजा युद्ध में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने इजरायली बलों के खिलाफ कई फलल हमले किए। ऑपरेशन प्रोटैक्टिव एज के दौरान इसके कई सदस्य मारे गए थे, जिसे 2014 में इजराइल द्वारा शुरू किया गया था।

## इजरायल में खूनी तांडव मचाने वाली हमारा की सबसे खतरनाक विंग ‘नुखबा फोर्स’, हाईटेक हथियारों से लैस



**गाजा ( एजेंसी)।** गाजा में हमारा को निशाना बना रहे इजराइल रक्षा बल ने कहा कि उन्होंने फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह के विशिष्ट कमांडो विंग नुखबा बल के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए हैं। यह विशेष इकाई उस समय जमीन पर थी जब हमारा ने शनिवार को देश पर सबसे खूनी हमला करते हुए दक्षिणी इजराइल में घुसपैठ की। ‘अल-नुखबा’ जिसका अर्थ अरबी में ‘कुलीन’ होता है। यह समूह हमारा की सैन्य शाखा इज अल-दीन अल-कसम ब्रिगेड के रैंकों के भीतर प्रमुख लड़ाकू इकाई है। इसमें उच्च प्रशिक्षित और अनुभवी लड़ाके शामिल हैं जो नवीनतम हथियारों और प्रौद्योगिकी से लैस हैं। इजरायली सेना द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, नुखबा विशिष्ट बलों में हमारा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा चुने गए आतंकवादी शामिल हैं, जिन्हें घात, छापे, हमले, आतंकी सुरंगों के माध्यम से घुसपैठ के साथ-साथ एंटी-टैंक मिसाइल, रॉकेट, और स्नाइपर फायर जैसे आतंकवादी हमलों को

## नए पोल में भारतीय-अमेरिकी निक्की हेली, बाइडेन से चार अंकों से आगे

**न्यूयॉर्क, ( एजेंसी)।** एक नए सर्वेक्षण के अनुसार, यदि 2024 का चुनाव अभी होता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों निक्की हेली और रॉन डेसेंटिस से हार जाएंगे और अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप से मामूली अंतर से आगे रहेंगे।

सर्वे के मुताबिक इडेन ने ट्रम्प ( 49 प्रतिशत से 48 प्रतिशत) पर एक अंक की बढ़त ले ली, जबकि हेली से चार अंक ( 49 प्रतिशत से 45 प्रतिशत) और डेसेंटिस से दो अंकों से पीछे रह गए। इस सप्ताह जारी, 6-9 अक्टूबर के बीच किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि भारतीय-अमेरिकी पूर्व दक्षिण कैरोलिना गवर्नर ने सितंबर के बाद से सबसे बड़ा अंक हासिल किया। 10 प्रतिशत समर्थन के साथ उनकी संख्या दोगुनी हो गई है।

हेली ने डेमोक्रेट्स के बीच सबसे अधिक संख्या में दलबद्ध कराय ( 9 प्रतिशत ने उनका



समर्थन किया), जबकि ट्रम्प को सबसे कम ( 5 प्रतिशत डेमोक्रेट्स ने उनका समर्थन किया)। 2024 के राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो चुके पूर्व कांग्रेसी बिल हर्डे ने फोर्ब्स को बताया, ‘ उनके पास गति है, उनके पास अनुभव है, और वह एकमात्र व्यक्ति हैं, जो सर्वे में बाइडेन को लगातार हरा रही है।’


पिछले महीने सीएनएन पोल से पता चला था कि हेली एकमात्र रिपब्लिकन हैं, जो 2024 के

# भारतीय–अमेरिकी ने कोविड राहत राशि से 163,750 डॉलर की चोरी का अपराध स्वीकार किया

न्यूयॉर्क, 13 अक्टूबर ( वेब वार्ता) । कैलिफोर्निया के बेकसंफोल्ड के 50 वर्षीय एक भारतीय-अमेरिकी ने कोविड–19 राहत राशि में 163,750 डॉलर की चोरी करने का अपराध स्वीकार किया है। कैलिफोर्निया के पूर्वी जिले के अमेरिकी अर्टर्नी ने घोषणा की। अदालती दस्तावेजों के अनुसार, जसविंदर भंगू ने मई 2020 और नवंबर 2021 के बीच अमेरिकी लघु व्यवसाय प्रशासन से 250,000 डॉलर से अधिक के कोविड–19 राहत ऋण के लिए आवेदन किया था। आवेदनों में, उन्होंने झूठा दावा किया कि उनके पास कई कर्मचारियों और पर्याप्त राजस्व के साथ कई व्यवसाय हैं। उन्होंने यह भी दर्शाया कि उन्हें पिछले पांच सालों में किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया था, जबकि वास्तव में, वह बीमा धोखाधड़ी मामले में दोषी था। भंगू के झूठे दावे पर, उनके कुछ ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए, और उन्हें संघीय निधि से लगभग 163,750 डॉलर प्राप्त हुए, जिसके वे हकदार नहीं थे। 20 फरवरी, 2024 को अमेरिकी जिला न्यायाधीश एना डी अल्बा इस मामले में सजा सुनाएंगी। स्रोतों की मानें तो, अधिकतम वैधानिक दंड के रूप में 10 साल की जेल और 250,000 डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है। कैलिफोर्निया स्ट्राइक फोर्स अभियोजक के नेतृत्व वाली और डेटा विश्लेषक–संचालित टीमों का उपयोग उन लोगों की पहचान करने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के लिए करती है, जिन्होंने महामारी राहत निधि की चोरी की।

न्यूयॉर्क, 13 अक्टूबर ( वेब वार्ता) । कैलिफोर्निया के बेकसंफोल्ड के 50 वर्षीय एक भारतीय-अमेरिकी ने कोविड–19 राहत राशि में 163,750 डॉलर की चोरी करने का अपराध स्वीकार किया है। कैलिफोर्निया के पूर्वी जिले के अमेरिकी अर्टर्नी ने घोषणा की। अदालती दस्तावेजों के अनुसार, जसविंदर भंगू ने मई 2020 और नवंबर 2021 के बीच अमेरिकी लघु व्यवसाय प्रशासन से 250,000 डॉलर से अधिक के कोविड–19 राहत ऋण के लिए आवेदन किया था। आवेदनों में, उन्होंने झूठा दावा किया कि उनके पास कई कर्मचारियों और पर्याप्त राजस्व के साथ कई व्यवसाय हैं। उन्होंने यह भी दर्शाया कि उन्हें पिछले पांच सालों में किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया था, जबकि वास्तव में, वह बीमा धोखाधड़ी मामले में दोषी था। भंगू के झूठे दावे पर, उनके कुछ ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए, और उन्हें संघीय निधि से लगभग 163,750 डॉलर प्राप्त हुए, जिसके वे हकदार नहीं थे। 20 फरवरी, 2024 को अमेरिकी जिला न्यायाधीश एना डी अल्बा इस मामले में सजा सुनाएंगी। स्रोतों की मानें तो, अधिकतम वैधानिक दंड के रूप में 10 साल की जेल और 250,000 डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है। कैलिफोर्निया स्ट्राइक फोर्स अभियोजक के नेतृत्व वाली और डेटा विश्लेषक–संचालित टीमों का उपयोग उन लोगों की पहचान करने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के लिए करती है, जिन्होंने महामारी राहत निधि की चोरी की।

न्यूयॉर्क, 13 अक्टूबर ( वेब वार्ता) । कैलिफोर्निया के बेकसंफोल्ड के 50 वर्षीय एक भारतीय-अमेरिकी ने कोविड–19 राहत राशि में 163,750 डॉलर की चोरी करने का अपराध स्वीकार किया है। कैलिफोर्निया के पूर्वी जिले के अमेरिकी अर्टर्नी ने घोषणा की। अदालती दस्तावेजों के अनुसार, जसविंदर भंगू ने मई 2020 और नवंबर 2021 के बीच अमेरिकी लघु व्यवसाय प्रशासन से 250,000 डॉलर से अधिक के कोविड–19 राहत ऋण के लिए आवेदन किया था। आवेदनों में, उन्होंने झूठा दावा किया कि उनके पास कई कर्मचारियों और पर्याप्त राजस्व के साथ कई व्यवसाय हैं। उन्होंने यह भी दर्शाया कि उन्हें पिछले पांच सालों में किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया था, जबकि वास्तव में, वह बीमा धोखाधड़ी मामले में दोषी था। भंगू के झूठे दावे पर, उनके कुछ ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए, और उन्हें संघीय निधि से लगभग 163,750 डॉलर प्राप्त हुए, जिसके वे हकदार नहीं थे। 20 फरवरी, 2024 को अमेरिकी जिला न्यायाधीश एना डी अल्बा इस मामले में सजा सुनाएंगी। स्रोतों की मानें तो, अधिकतम वैधानिक दंड के रूप में 10 साल की जेल और 250,000 डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है। कैलिफोर्निया स्ट्राइक फोर्स अभियोजक के नेतृत्व वाली और डेटा विश्लेषक–संचालित टीमों का उपयोग उन लोगों की पहचान करने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के लिए करती है, जिन्होंने महामारी राहत निधि की चोरी की।



दिया गया। ब्लिंकन ने कहा, यह सबसे खराब कल्पनीय तरीके से भ्रष्टता है। चूँकि युद्ध जारी है, अंतर्राष्ट्रीय निकाय और नेता तत्काल युद्धविराम और गोलीबारी में फंसे नागरिकों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने गुरुवार को गाजा और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में सबसे जरूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए 294 मिलियन डॉलर की आपातकालीन अपील जारी की, जहां हाल के दिनों में 400,000 से अधिक फिलिस्तीनी अपने घर छोड़कर भाग गए हैं।

# युद्ध प्रभावित इजराइल से 254 नेपाली छात्रों की घर वापसी

**काठमांडू ( एजेंसी)।** युद्ध प्रभावित इजराइल से बचाए गए 254 नेपाली छात्रों का एक समूह विदेश मंत्री एन पी सऊद के नेतृत्व में शुक्रवार को काठमांडू पहुंच गया।

इजराइल के बेन गुरियन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से बृहस्पतिवार को उड़ान भरने वाला नेपाल एयरलाइंस का एक विमान दुबई रुकने के बाद आज सुबह यहां त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। विदेश मंत्री सऊद ने हवाई अड्डे पर उतरने के बाद संवाददाताओं से कहा कि स्वदेश लौटने के लिए अनुरोध करने वाले अन्य नेपाली नागरिकों को भी जल्द वापस लाया जाएगा।

मंत्री ने बताया तेल अवीव में नेपाल के दूतावास ने स्वदेश लौटने और सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित होने के इच्छुक नागरिकों से आवेदन मागे थे, इसके बदले में 557 नेपालियों ने अपना विवरण दिया। ‘हिमालयन टाइम्स’ अखबार ने मंत्री के हवाले से कहा, ‘57 नेपालियों में से 503 ने स्वदेश लौटने के लिए आवेदन किया था और उनमें से 254 आज हमारे

साथ घर लौट आए हैं।’

मंत्री सऊद ने बताया कि जिन 54 नेपालियों ने जोखिम वाले क्षेत्रों से स्थानांतरित होने का अनुरोध किया था, उन्हें इजराइल में सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है। फलस्तीन चरमपंथी समूह हमारा ने शनिवार को दक्षिणी इजराइल में हवाई हमले किए, जिसमें 10 नेपाली छात्र मारे गए थे। छह छात्रों को बचा लिया गया और एक लापता है।

सऊद ने कहा, ‘हमलों के बाद लापता हुए बिपिन जोशी की तलाश जारी है। जैसे ही हमें इस बारे में अतिरिक्त जानकारी मिलेगी, हम सच्चा करेंगे।’ उन्होंने बताया, ‘इजराइल की ओर से कहा गया है कि शवों को सीपने में कुछ समय लगेगा क्योंकि कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना और प्रत्येक मृतक का विवरण अलग-अलग रखना आवश्यक है और इजराइल में शवों की संख्या काफी अधिक है।’ उन्होंने मृतकों के परिजनों और रिश्तेदारों से धैर्य रखने का अनुरोध किया है।

राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन को हरा सकती हैं। सीएनएन की रिपोर्ट में कहा गया है, ‘दोनों के बीच एक काल्पनिक मैच में बाइडेन के 43 प्रतिशत के मुकाबले 49 प्रतिशत के साथ हेली बाइडेन पर बढ़त बनाने वाली एकमात्र रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं।’

फॉक्स न्यूज सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि कई कानूनी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प ने रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद की दौड़ में अपनी बढ़त बनाए रखी। 77 वर्षीय ट्रंप को रिपब्लिकन प्रार्थमिक मतदाताओं के बीच 59 प्रतिशत समर्थन मिला, और मार्च के बाद से वह 50 प्रतिशत से ऊपर रहे हैं और सितंबर में रिकार्ड 60 प्रतिशत तक पहुंच गए। अगस्त के अंत में अपनी पहली रिपब्लिकन प्रार्थमिक बहस के ठीक बाद, हेली ने कहा था कि ट्रम्प 2024 के राष्ट्रपति चुनावों के लिए पार्टी के उम्मीदवार नहीं होंगे।

## एल्डो इंडिया के ब्रांड एंबेसडर बने आदित्य रॉय कपूर और जान्हवी कपूर

आदित्य रॉय कपूर और जान्हवी कपूर एल्डो इंडिया के अपकमिंग कलेक्शन के ब्रांड एंबेसडर बने। आदित्य ब्रांड फैमिली में मेल ब्रांड एंबेसडर के रूप में नए हैं, जबकि जान्हवी लगातार दूसरे साल भी अपने सहयोग को आगे बढ़ा रही हैं। एसोसिएशन पर टिप्पणी करते हुए अपैरल ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ अभिषेक बाजपेयी ने कहा, अपैरल ग्रुप इंडिया एल्डो फैमिली में आदित्य रॉय कपूर और जान्हवी कपूर का स्वागत करता है। उनका युनिक स्टाइल हमारे ब्रांड से पूरी तरह मेल खाता है। हम साथ मिलकर एक फैशनबल जर्नी शुरू करेंगे, जो इनोवेशन का प्रतीक है। आदित्य ने अपना उत्साह साझा करते हुए कहा, एल्डो हमेशा से एक ऐसा ब्रांड रहा है, जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ और उसकी प्रशंसा करता हूँ और मैं एल्डो इंडिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए बेहद उत्साहित हूँ। स्टाइल और कंफर्ट को लेकर एल्डो मेरे फैशन फिलॉसफी के साथ पूरी तरह मेल खाता है। मैं एक ऐसे ब्रांड का हिस्सा बनकर रोमांचित हूँ जो इनोवेशन को अपनाता है। फुटवियर और एक्सेसरीज की दुनिया में ट्रेड्स भी सेट करता है। हम सब मिलकर हर कदम को स्टाइलिश बनाएंगे। जान्हवी कपूर ने कहा, मैं इस जर्नी को जारी रखने के लिए रोमांचित हूँ। एक ऐसे ब्रांड का प्रतिनिधित्व करना अविश्वसनीय अनुभव रहा है, जो स्टाइल और कंफर्ट को सहजता से जोड़ता है। इनोवेटिव फैशन के लिए ब्रांड की प्रतिबद्धता मेरे साथ प्रतिध्वनित होती है। मैं एक बार फिर से फुटवियर और एक्सेसरीज की दुनिया में कदम रखने, हर फैशन स्टेटमेंट को कंफर्टबल और आकर्षक बनाने का इंतजार नहीं कर सकती। अपैरल ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष तुषार वेद ने जान्हवी और आदित्य के साथ जुड़ाव को लेकर कहा, डायनेमिक जोड़ी, आदित्य रॉय कपूर और जान्हवी कपूर के साथ अपैरल ग्रुप इंडिया का सहयोग हमारी जर्नी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर दर्शाता है। उनका आइकॉनिक स्टेटस और फैशन एल्डो की प्रतिबद्धता के साथ सहजता से मेल खाता है। हम यह देखकर उत्साहित हैं कि यह साझेदारी भारत और उसके बाहर फैशन लैंडस्केप को आगे बढ़ाएगी।

कपूर के नाम पर मुहर लगी है, वहीं रिपोर्ट्स की मानें तो सीता माता के किरदार में साईं पल्लवी और रावण के रोल में साउथ अभिनेता यश नजर आ सकते हैं।

हालांकि, अभी रामायण की बाकी स्टार कास्ट को लेकर कोई रिपोर्ट्स नहीं थीं, लेकिन अब फिल्म में लक्ष्मण के किरदार पर अपडेट सामने आया है। दरअसल, खबर है कि फिल्म के निर्माताओं ने लक्ष्मण का किरदार निभाने के लिए अमिताभ बच्चन के नाती अग्रस्त्य नंदा के संपर्क किया था। बॉलीवुड के शहशाह अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के नाती और श्वेता बच्चन नंदा और निखिल नंदा के बेटे अग्रस्त्य नंदा मोस्ट अवेटेड फिल्म द आर्चीज से बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे। अग्रस्त्य के पास अपने डेब्यू से पहले ही कई प्रोजेक्ट हैं और अब चर्चा हो रही है कि अग्रस्त्य को नितेश तिवारी की आगामी रामायण में लक्ष्मण की भूमिका निभाने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। स्टार किड का मानना है कि वह अपने करियर के इस मोड़ पर किसी भी अन्य अभिनेता के रहते हुए फिल्म में दूसरी भूमिका निभाने का जोखिम नहीं उठा सकते। गौरतलब है कि अग्रस्त्य द आर्चीज में आर्ची एंड्रयूज की भूमिका निभाने नजर आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनके पास पहले से ही श्रीराम राघवन की अगली फिल्म भी है, जिसका नाम इक्कीस है।

## अमिताभ बच्चन के नाती अग्रस्त्य नंदा ने दुकराया नितेश तिवारी की रामायण का ऑफर



ओम राउत की आदिपुरुष के रिलीज होने से पहले ही नितेश तिवारी ने रामायण पर फिल्म बनाने की घोषणा कर दी थी। जहाँ फिल्म में भगवान राम की भूमिका के लिए रणबीर

## मैं दूसरों से अलग फिल्म में बनाता हूँ

फिल्म द वैक्सीन वॉर 28 सितंबर को रिलीज हुई है। इस फिल्म को द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने बनाया है। हाल ही में दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में विवेक ने बताया कि उन्हें सोशियो पॉलिटिकल फिल्में बनाना पसंद है। उन्होंने सोशल मीडिया को नेगेटिविटी फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। खुद के बारे में कहा कि मुझे कुछ खोने का डर नहीं है। विवेक अग्निहोत्री इंटरव्यू में एक रिबॉलियन के रूप में ज्यादा नजर आते हैं, इस बात पर उन्होंने कहा, मुझे मेरी ऑडियंस एक्सेप्ट करती है। जो लोग मेरे भाषण सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मेरी विचारधारा को समझते हैं, मुझे करीब से जानते हैं, मेरी फिल्में देखते हैं, वे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार और आशीर्वाद मुझे दस जीवन में नहीं मिल सकता। इंडिपेंडेंट फिल्में हम बनाते हैं और उन फिल्मों को इंडिपेंडेंट ही रिलीज भी करते हैं। हम अपने हिसाब से काम करते हैं। किसी और को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपनी ऑडियंस के लिए काम करते हैं। पॉलिटिकल होने को लेकर विवेक ने कहा, मैं सोशियो पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटिव फिल्में बनाता हूँ। ऐसी फिल्में बाकी लोग नहीं बनाते हैं। इस तरह की फिल्मों से कई सारे पॉलिटिकल नेरेटिव्स के बारे में बात होती है। जिसको नेरेटिव अच्छे लगते हैं, वे तारीफ करते हैं और जिसको बुरे लगते हैं, वे सवाल उठाते हैं।



## क्या अक्षय कुमार का है पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का प्लान?

अक्षय कुमार हाल ही में अपने कुछ स्टेटमेंट्स को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। एक्टर की हाल ही में फिल्म मिशन रानीगंज रिलीज हुई है जिसका वह खूब जोर-शोर से प्रमोशन कर रहे हैं। इसी बीच हाल ही में अक्षय ने कई इंटरव्यूज में प्रोफेशनल लाइफ और उन मुद्दों पर बात की जिनको लेकर वह काफी सुर्खियों में रहे हैं। कई बार ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है अक्षय पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वह कई ऐसे सोशल मुद्दों पर फिल्म बनाते हैं जो देश से जुड़े होते हैं। तो अब अक्षय से जब इस बारे में पूछा गया तो जानें फिर खिलाड़ी कुमार ने क्या जवाब दिया।

### क्या बोले अक्षय कुमार

अक्षय ने कहा, नहीं मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाने वाला। मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन फिलहाल मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाने वाला। मैं ऐसी फिल्में इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दों को लोगों के सामने लाना जरूरी है। भगवान ने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं फिल्मों के जरिए लोगों को बता सकता हूँ कि हमारे देश में क्या हुआ था

जैसे केसरी, सम्राट पृथ्वीराज और बाकी की फिल्मों में।

### फिल्मों पर फोकस करने का प्लान

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब अक्षय से पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने को लेकर सवाल किया गया हो। इससे पहले साल 2022 में पीटीआई से बात करते हुए अक्षय ने कहा था, मैं फिलहाल फिल्मों में काम करने को लेकर खुश हूँ। एक एक्टर होने के नाते मैं सोशल मुद्दों पर फिल्म बना रहा हूँ। मैंने 150 फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। मैंने कर्मशैल्य फिल्मों को प्रोड्यूस किया है और कभी-कभी सोशल मुद्दों पर। मैं साल में 3-4 फिल्मों प्रोड्यूस करता हूँ।

## विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर के टीजर रिलीज से उठा पर्दा!

राजी के बाद विकी कौशल ने सैम बहादुर के लिए एक बार फिर मेघना गुलजार के साथ हाथ मिलाया है। सैम बहादुर वर्ष की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है क्योंकि यह फिल्म भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशों की कहानी बताती है, जो वर्ष 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के लिए जिम्मेदार थे। सैम बहादुर ने दुनिया का नक्शा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं, इस फील्ड मार्शल की बायोपिक अपने एलान के बाद से ही सुर्खियों में है। इसी कड़ी में फिल्म के टीजर रिलीज को लेकर आए अपडेट ने फैंस के उत्साह को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जानकारी है कि सैम बहादुर के निर्माता, 13 अक्टूबर को मुंबई में इसका टीजर लॉन्च करेंगे। इस दौरान पूरी कास्ट और करू मोजूद होगी। टीजर फिल्म के मार्केटिंग अभियान की शुरुआत करेगा। मूवी 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, और इसकी टकर रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म एमिल से होगी। जानकारी तो यह भी है कि निर्माता रॉनी स्वरुवाला ने भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट विश्व कप मैच के दौरान फिल्म का टीजर दिखाने के लिए स्टार नेटवर्क के साथ एक विशेष समझौता किया है क्योंकि इससे

दर्शकों की अधिकतम संख्या सुनिश्चित होगी। सैम बहादुर की निर्देशक, स्टारकास्ट सैम बहादुर का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है, जो तलवार, राजी और छपाक जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती है। फिल्म में फातिमा सना शेख और सान्या मल्होत्रा भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। सैम बहादुर के बाद, विकी जरा हटके जरा बचके के निर्देशक लक्ष्मण उतेकर के साथ छावा नामक फिल्म में काम करेंगे, जिसमें वह छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका में होंगे। छावा को लेकर खबरें हैं कि इसमें अभिनेत्री रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में होंगी। विकी की आखिरी रिलीज द ग्रेट इंडियन फेमिली थी, जो बॉक्स ऑफिस पर ठीक प्रदर्शन करने में सफल रही। सैम बहादुर की बात करें तो, इसकी शूटिंग दो वर्ष में अलग-अलग स्थानों पर पूरी हुई है। मूवी की काफी चर्चा है। 'सैम बहादुर' की रिस्कट भवानी अय्यर ने मेघना गुलजार के पिता गुलजार और शान्तनु श्रीवास्तव के साथ लिखी है। गुलजार ने गीतकार के रूप में भी काम किया है। संगीत, शंकर-एहसान-लॉय का है। सैम बहादुर 1 दिसंबर, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है।



## आर्या 3 का टीजर रिलीज माफिया क्वीन बनकर लौटीं सुष्मिता सेन

सुष्मिता सेन की मच अवेटेड वेब सीरीज आर्या 3 का टीजर रिलीज हो गया है। सीरीज में एक बार फिर सुष्मिता माफिया क्वीन का जबरदस्त रोल निभाएंगी। 130 सेकेंड के इस टीजर की शुरुआत सुष्मिता के वॉइस ओवर से होती है। वह कहती है- जिस कहानी की शुरुआत मेरे हाथ में नहीं थी, उसका अंत तो मुझे करना ही था। लेकिन इसका अंत इस तरह होगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। टीजर वीडियो को शेयर करते हुए सुष्मिता ने कैप्शन में लिखा- जिसके सर पे ताज होता है, निशाना भी उस ही पे होता है।

### 3 नवंबर को आएगी सीरीज

सीरीज में पहला और दूसरे पार्ट की भी झलक देखने को मिली। अब इसके तीसरे पार्ट में सुष्मिता अपने परिवार और बच्चों के लिए दुश्मनों से लड़ती हुईं नजर आएंगी। आर्या 3 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 3 नवंबर को रिलीज होगी। फैंस सीरीज को लेकर काफी एक्साइटेड हो गए हैं।

## आमिर खान ने अनाउंस की फिल्म, जल्द बनाएंगे सितारे जमीन पर

आमिर खान ने हाल ही में अपकमिंग फिल्म सितारे जमीन पर की अनाउंसमेंट कर दी है। इस बड़ी अनाउंसमेंट के साथ ही उन्होंने बताया है कि ये फिल्म लोगों को कमियों के साथ कबूल करने के कॉन्सेप्ट पर बनाई जाएगी। हाल ही में आमिर ने अनाउंस किया है कि वो जल्द ही फिल्म सितारे जमीन पर में काम शुरू करने वाले हैं। ये फिल्म उनकी साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म तारे जमीन पर का सीकल होगी। जहाँ पहली फिल्म में उन्होंने एक लड़के (इशान) की मदद की थी, वहीं अपकमिंग फिल्म सितारे जमीन पर में वो 9 यंग बच्चों की मदद करते दिखेंगे। रिपोर्ट की मानें तो वो फिल्म में बच्चों को कमियों के साथ एक्सेप्ट करने पर रोशनी डालेंगे। इवेंट के दौरान आमिर ने कहा, मैंने कभी इस बारे में बात नहीं की और अब भी कुछ ज्यादा नहीं कह सकूंगा। लेकिन मैं इसका टाइटल बता सकता हूँ। फिल्म का टाइटल सितारे जमीन पर होगा। आपको मेरी फिल्म तारे जमीन पर याद होगी और इस फिल्म का नाम भी वैसा ही सितारे जमीन पर है, क्योंकि अब हम इस थीम के साथ 10 कदम आगे बढ़ रहे हैं। तारे जमीन पर एक इमोशनल थीम थी, लेकिन अब हमारी फिल्म आपको हसाएगी। उस फिल्म ने आपको रुलाया था, ये फिल्म आपको एंटरटेन करेगी। पिछली फिल्म में मैंने इशान नाम के कैरेक्टर की मदद की थी, अब 9 बच्चे मेरी मदद करेंगे। आमिर खान ने 2022 में फिल्म लाल सिंह चड्ढा प्लॉट होने के बाद एक्टिंग करियर से ब्रेक लिया था। हालांकि वो प्रोडक्शन में एक्टिव हैं। अब आमिर फिल्म सितारे जमीन पर से कमबैक करेंगे। रिपोर्ट की मानें तो आर एस प्रसन्न इस फिल्म को डायरेक्टर कर सकते हैं।

